

मीर कासिम ।

लेखक—

श्री हरिहरनाथ शास्त्री

भूमिका लेखक—

डॉक्टर बेनीप्रसाद एम. ए. (प्रयाग)

डी एस-सी. (लन्दन)

प्रकाशक—

श्री काशी विद्यापीठ, काशी ।

प्राप्तिस्थान—

ज्ञानमण्डल, काशी ।

प्रकाशक—

श्रीवीरवलसिंह जी,
काशी विद्यापीठ,
काशी ।

मिलनेका पता—

व्यवस्थापक, ज्ञानमण्डल,
काशी ।

मुद्रक—

श्रीमाधव चिप्पु पराडकर,
ज्ञानमण्डल यंत्रालय,
काशी ।

प्रकाशकका वक्तव्य ।

यद्यपि ज्ञानमण्डलका प्रकाशन विभाग अत्र काशी विद्यापीठके प्रकाशन विभागमें सम्मिलित कर दिया गया है, तो भी ग्रन्थमालाका नाम वही रहेगा । इस ग्रन्थमालामें अत्र जो पुस्तकें प्रकाशित होंगी उन सबके प्रकाशनादिका सर्वाधिकार श्री काशी विद्यापीठको ही रहेगा, किन्तु ज्ञानमण्डल ग्रन्थमालाके स्थायी ग्राहकोंको अभीतक जो 'सुविधाएँ' प्राप्त थीं, वे अत्र भी ज्योंकी त्यों रहेंगी और उन्हें पूव प्रकाशित तथा बादमें प्रकाशित होनेवाली मालाकी सभी पुस्तकें, नियमानुसार, ज्ञानमण्डल-पुस्तक-भण्डारसे पौने मूल्यमें ही मिल सकेंगी ।

—प्रकाशक



समर्पण

जिनके चरणोंके समीप बैठकर भारतीय
इतिहासका अध्ययन किया, जिनके
कारण उसमें रुचि उत्पन्न हुई
और यह पुस्तक लिखनेका
साहस हुआ,
उन्हें
गुरुदेव पण्डित नरेन्द्रदेवजीके
चरणोंमें
अपने प्रयासका यह प्रथम पुष्प श्रद्धा
और भक्तिपूर्वक समर्पित—
हरिहर



भूमिका ।

अठारहवीं सदी का भारतीय इतिहास अभी तक घोर अन्धकारमें पड़ा हुआ है। पुस्तकों और कागज-पत्रों का अभाव नहीं है। लन्दन इंडिया आफिसके पुस्तकालयमें एव कलकत्ता, बम्बई और मद्रासके रेकर्ड दफ्तरोंमें सैकड़ों नहीं हजारों ही मूलपत्र मौजूद हैं। देशके अन्य नगरोंके सरकारी दफ्तरोंमें भी बहुत सी सामग्री मौजूद है। इसके अलावा राजा, जमीन्दार और अन्य व्यक्तिगणोंसे भी बहुतसे कागज, पत्र मिल सकते हैं। पर अभी तक किसी समाज या स्थाने इतने सत्र पत्रोंको इकट्ठा करनेका और समीक्षा करनेका उद्योग नहीं किया है। अतः इतिहासके इस भागपर जो कुछ लिखा गया है वह उपलब्ध सामग्रीके एक अंशके ही आधारपर लिखा गया है। दूसरे, उस अंशकी परीक्षा भी निष्पक्ष नहीं हुई है। अधिकांश अंग्रेज लेखकाने अपने देश भाइयोंकी तत्कालीन कायवाहियों को उचित और प्रायःपूर्ण सिद्ध करनेकी ही चेष्टा की है। सप्रमाण इतिहासके लिये इस समय दो बातें आवश्यक हैं—एक तो सामग्रीका एकत्रीकरण और दूसरे उसकी निष्पक्ष समालोचना। इसके साथ साथ विभिन्न विभिन्न ऐतिहासिक विषयोंपर भी पूरे अनुसंधानके साथ ग्रन्थ लिखनेकी आवश्यकता है। ऐसी ग्रन्थमालासे अन्तमें सम्पूर्ण इतिहास लिखनेमें बड़ी सहायता मिलेगी। विवेचनाके विषयोंमें भीर कासिमवा समय किसीसे कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। बंगाल, बिहार और उड़ीसामें अंग्रेजी मत्ताकी स्थापनासे उसका घना सम्बन्ध है।

वर्तमान पुस्तकके लेखकका यह दावा नहीं है कि उन्होंने इस कालकी सारी ऐतिहासिक सामग्रीकी आलोचना कर डाली है। यह स्वयं स्वीकार करेंगे कि अभी बहुत कुछ देख भाल बाकी है। पर इस ग्रन्थके अवलोकनसे पाठकोंको मालूम हो जायगा कि लेखकने बहुत परिश्रम किया है और

निकाले हैं और अनेक प्रमाणों और युक्तिप्रोसे उनका प्रतिपादन किया है। हर्षकी बात है कि पुस्तककी भाषा सरल और ललित है, वर्णन मनोरञ्जक है। आशा है कि पाठकोकी कमी न रहेगी।

मीर कासिमके चरित्रपर जो कलरू लगाये जाते हैं उनके विषयमें लेखकने अच्छी विवेचना की है। पटनाका हत्याकाण्ड वैसा भीषण नहीं था जैसा कि अनेक इतिहासकारोंने दिखाया है। चञ्चे और खिया न कैद की गई थीं, और न उनका चर्च किया गया था। जिन लोगोंके प्राण गये उन्होंने नवाबके विरुद्ध अपराध किया था। अंग्रेजोंसे जो नदवहार मीर कासिमके थे उनमें कलरूता कौंसिलने बड़ी रीति धींगी की थी—पह भी स्पष्ट सिद्ध किया गया है। माना वॉमिट्ट और वारन हेस्टिंग्जने न्प्राय और बुद्धिसे काम लिया पर उनकी कुठ न चली। इस कालमें बगालपर जो भीषण विपत्तिया आईं, कृषि, उद्योग और व्यापारकी जो क्षति हुई उसका उत्तरदायित्व मुख्यत कम्पनीके नौरूतों और गुमाशतोंपर है। यह छहनेका अभिप्राय नहीं है कि मीर कासिम आदर्श शासक था। लेखकने उसकी गुटियोंको मुक्तकउसे स्वीकार किया है। वह अच्छा सेनापति नहीं था। और कई भूलें अपने कीं। इस समस्त विषयका सुपाठ्य वर्णन इस पुस्तकमें मिलेगा और इसके लिये लेखक धन्यवादके पात्र है।

इलाहाबाद

वेनीप्रसाद

दो शब्द

मन् १९०१ ईसवीमें इस पुस्तकका लेखक श्री काशी विद्यापीठके इतिहास-मन्दिरमें प्रविष्ट हुआ। इसके पूर्व लेखकके मन्त्रिकमें भारतीय इतिहासके सम्बन्धमें विचित्र कल्पनाएँ थीं। उसने मार्सडन स्विन आदि अंगरेज इतिहास-लेखक तथा उनके नामी कुछ देशी लेखकोंकी पोलियोका अध्ययन किया था। इन पुस्तकोंको पढ़कर वह यही समझे बैठा था कि भारतवर्षमें जाये हुए अंगरेज भलेमानस थे, न्यायप्रिय थे, बुद्धिमान् थे, यही नहीं बल्कि ईमानदार भी थे। और जो कुछ इन लोगोंने भारतवर्षमें आकर किया उसीमें इस देशकी भलाई थी। लेखकको बतलाया गया था कि शिवाजी लुटेरे थे, हैदरअली और नानाफडनवीस मूर्ख थे, सिराजुद्दौला क्रूर और जयोग्य थे, मोरकासिम निदर्द तथा विश्वासघातक थे। तात्पर्य यह कि अंगरेजोंके गुण और देशी शासकोंकी निन्दा और उनके दुर्गुणोंका पाठ लेखकको पढाया गया था। इन लेखकोंको अपने इतिहासका अभिमान नहीं था, घृणा थी। यदि उसके हृदयमें सम्मान था तो अंगरेजोंके लिए था।

लेखक उस अवसरको अपने जीवनके बड़े भारी सौभाग्यकी घड़ी समझता है जब काशी विद्यापीठमें आकर उसे भारतीय इतिहासके अध्यापक श्री नरेन्द्रनेवजीका साथ हुआ। लेखकको चार वर्षोंतक प्रोफेसर महोदयके चरण-कमलोंके समीप बैठकर भारतीय इतिहासमें सबके लेनेका सुअवसर प्राप्त हुआ है। लेखक उक्त प्रोफेसर साहबका सदा ऋणी रहेगा जिनके व्याख्यानोसे उसकी धारें खुलीं। प्रोफेसर साहबके व्याख्यानोमें अद्भुत नवीनता और असलियत थी, एक खाल आकर्षण था, एक विचित्र ओज था, एक सारगर्भित गम्भीरता थी। इनके ही प्रभावमें आकर लेखकने भारतीय इतिहासकी वास्तविकताको समझनेकी ओर कदम बढ़ाया। पहिले पहल प्रोफेसर महोदयके ही ससगम आकर लेखकने समझा कि उसकी पूर्व कल्पनाएँ बिल्कुल निराधार थीं। जिसको वह सत्य समझ रहा था व

मास्त्रमें कुछ अँगरेज इतिहासकारोंकी कपोल-कल्पित कहानी थी जिन्होंने
 देशी शासकोंको समारकी दृष्टिमें नीचा दिखाकर और उनके दुर्गुणोंको
 अपनी इच्छानुसार प्रदर्शित करके उसकी आडमें अपने देशवासियों द्वारा
 किये गये घृणित कृत्योंपर परदा डालनेकी चेष्टा की थी। उसने महत्सू
 किया कि जिन व्यक्तियोंके चरित्रको उन लेखकोंने काले रगमें रगा है वे
 मास्त्रमें भारतवषके लिए गौरवके कारण है—वे हमारे इतिहासको उज्वल
 बनाते हैं। मीर कामिमके सम्बन्धमें भी प्रोफेसर माह्रके छ या सात
 व्याख्यान हुए थे। उन्होंने बतलाया कि अँगरेजोंने मीरकासिमके समयमें
 प्रगालकी प्रजापर कैसे कैसे अत्याचार किये और मीरकामिमके प्रति उन
 लोगोंने कौन कौन अत्याचार किये। लेखकको मालूम हुआ मानो उसकी
 आँसोंपर कोई पट्टी बँधी थी जिसे णकाण्ड किसीने खींच लिया हो। एक
 रोज लेखकने उत्साहमें आकर प्रोफेसर महाशयसे पूछा “क्या आप उन
 धातोंको जिन्हें आप ‘हास-रूम’ में जोड़ेसे विद्यार्थियोंके बीच प्रस्तुत कर रहे
 हैं, औरोंके कानोंतक नहीं पहुँचा सकते ? क्या इसकी जरूरत नहीं है कि
 यह आवाज इस चहारदीवारीसे बाहर भी जाय ? प्रोफेसर महाशयने
 अपनी स्वाभाविक सादगीके साथ उत्तर दिया “जरूरत अवश्य है, तुम
 क्यों नहीं कुछ लिखते ?’

श्रद्धेय प्रोफेसर महोदयके उपयुक्त वाक्य लेखकने उत्साहको बढ़ानेके
 लिए काफी थे। उसको केवल आशीर्वादकी जरूरत थी। तदनुसार
 लेखकने पहिले पहल इस पुस्तकको लिखना प्रारम्भ किया और दो वर्षोंके
 परिश्रमके पश्चात् आज वह इस योग्य हुआ है कि पाठकोंके सम्मुख
 इस पुस्तकको पेश कर सके।

पुस्तक लिखनेमें लेखक क्यों प्रयत्न हुआ, यह उपर बतला दिया गया।
 वह चाहता था कि वास्तविकताका अनुसन्धान हो, संसारकी आखोंके
 सामने मीर कासिमके सम्बन्धमें जो परदा बहुतसे लेखकोंने डाल रक्खा
 है वह हट जाय। यदि लेखकके विचारोंमें पाठकोंको कुछ भी नवीनता
 देख पडी और इस पुस्तकमें उनके सोचनेके लिए थोड़ी भी सामग्री मिल
 गयी तो लेखक अपने परिश्रमको सफल ममभेगा।

अब लेखक अपना कर्तव्य समझता है कि इस पुस्तकके प्रकाशित होने तक जिन जिन लोगोंसे सहायता मिली है उन्हें धन्यवाद दे। लेखक सबसे अधिक कृतज्ञ प्रोफेसर नरेन्द्रदेवजीके प्रति है। लेखकके पास शब्द नहीं जिनमें वह प्रोफेसर महाशयको धन्यवाद दे सके। यदि लेखकको प्रोफेसर साहबका शिष्य होनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होता, तो यह पुस्तक आज पाठकोंके सम्मुख नहीं होती। प्रोफेसर महाशयने कई पुराने ग्रन्थोंके छूटनेमें तथा इस पुस्तकका गवाका ठीक करनेमें लेखकको बहुत सहायता पहुँचाई है जिसके लिए लेखक उनका बहुत ऋणी है। लेखकका धन्यवाद इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी तथा फैजाबाद लाइब्रेरीके लाइब्रेरियनोंके प्रति भी है जिनकी कृपासे लेखकको पुस्तक लिखनेके लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त हुई। प्रयाग विश्वविद्यालयके इतिहास विभागके अध्यापक श्रीनेनी प्रसाद जीके प्रति भी लेखक विशेष कृतज्ञता प्रकट करना चाहता है, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय देकर इस पुस्तकके लिए भूमिका लिख देनेकी कृपा की है। अन्तमें लेखक श्री काशी विद्यापीठके प्रकाशन-विभागको भी धन्यवाद देना चाहता है जिसने इस पुस्तकको प्रकाशित करनेका भार उठाया। लेखक इस सम्बन्धमें प्रकाशन विभागके सम्पादक श्री मुकुन्दीलालजी श्रीवास्तवको भी धन्यवाद देना नहीं भूल सकता। आपने पुस्तकका सम्पादन करने, प्रूफ देखने, अनुक्रमणिका तैयार करने, अशुद्धियोंको ठीक करने और पुस्तकको सर्वाङ्ग सुन्दर बनानेमें जो परिश्रम किया है उसके लिए लेखक आपके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ है।

कानपुर, २५ अक्टूबर १९२० }

हरिहरनाथ

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
भूमिका	
दो शब्द	
प्रस्तावना	१
१—बङ्गालमें अंगरेजोंका उदय	२६
२—मीर जाफर	३६
३—मीर कासिमका राज्याभिषेक	४३
४—कलकत्ता कौंसिलमें मतभेद	५५
५—राजधानीमें शान्ति स्थापना	६१
६—जमोन्दारोंका दमन	६६
७—शाह आलमसे सन्धि	७१
८—रामनारायणको दण्ड	७८
९—सैनिक सङ्घटन	८७
१०—गुप्तचर विभाग	९१
११—मुझेरको राजधानी घनाना	९३
१२—नवाबकी शिकायत	९५
१३—मुझेरका निश्चय	९७
१४—कौंसिलका विचित्र निर्णय	१०४
१५—दरवारकी कुछ घटनाएँ	१०६
१६—मुझेरके किलेकी तलाशी	११३
१७—अंगरेजोंके व्यापारका एक दृश्य	११७
१८—व्यापार सम्बन्धी भगडोंका सूक्ष्मांत	१२५
१९—नवाबसे हेस्टिंग्सकी भेंट	१२८
२०—धरवना फाटकका बन्द होना	१३५
२१—नि.शुल्क व्यापारका प्रश्न	१४०
२२—कौंसिलमें पुनर्विचार	१४४

२३—नैपालपर आक्रमण	१४६
२४—अँगरेज वणिकोंका उत्पात	१४६
२५—कौसिलका अधिवेशन	१५४
२६—नवाबका उत्तर	१५८
२७—आमियाटकी मुगेरयात्रा	१६०
२८—नवाबकी दृढता	१६४
२९—पटनापर अँगरेजोंका अधिकार	१७०
३०—अँगरेजोंका आत्मसमर्पण	१७३
३१—युद्धका निश्चय	१७८
३२—फतवाका युद्ध	१८३
३३—सूतीका युद्ध	१८७
३४—उदवानालाका युद्ध	१९१
३५—प्राणदण्ड या हत्याकारण	१९८
३६—पूर्णियामें क्रान्ति	२०८
३७—शुजाउद्दौलाकी शरणमें	२१०
३८—युद्ध यात्रा	२१५
३९—अर्जीमावादमें युद्ध	२२०
४०—मीर कासिमकी गिरफ्तारी	२२३
४१—देशी सिपाहियोंका विद्रोह	२२६
४२—घक्करका युद्ध	२३२
४३—मीर कासिमके अन्तिम दिन	२३६
४४—शुजाउद्दौलाका भाग्यनिर्णय	२३८
४५—नवाबोंका अन्त कैसे हुआ	२४२
परिशिष्ट	२४७
अनुक्रमणिका	२५५

पुस्तक-सूची ।

मीर कासिमके सम्बन्धकी जानकारी प्राप्त करनेके लिए निम्न-लिखित पुस्तकोंसे विशेष सहायता मिल सकती है —

- 1 Sayer ul mutakherin by Sayed Gulam Hussain
- 2 Narrative of Vansittart 3 Volumes
- 3 A View of the Rise Progress and Present state of English Government in Bengal by Verelst
- 4 Decisive Battles of India by G B Malleson
- 5 History of the military transactions of British India by Orme
- 6 Calender of the Persian Correspondence
- 7 A Collection of treaties and engagements and Sanads by Aitchison Volumes I II
- 8 Rise and Progress of British power in India by Auber
- 9 Rise and Progress of the Bengal Army by Broome
- 10 The Economic History of British India by R C Dutt
- 11 The Rise of the British power in India by Elphinstone
- 12 Lyall's Rise of the British Dominion in India
- 13 The Fall of the Moghal Empire by Owen
- 14 A Comprehensive History of India from the first landing of the English to the Sepoy Mutiny by Beveridge
- 15 History of British India by Mills
- 16 Early Records of British India by Wheeler
- 17 History of British Empire in India by Thornton
- 18 Clive by Gleig
- 19 Calcutta Review October 1884
- 20 District Gazateers of Monghyr and Patna.
- 21 Selections from the unpublished Records of Government for the years 1748-57 by J Long
- 22 History of the British Empire in India and the East by Nolan
- २३ मीर कासिम (बगला) लेखक श्री अक्षय कुमार मैत्रेय ।

२३—नैपालपर आक्रमण	१४६
२४—अंगरेज वणिकोंका उत्पात	१४६
२५—कौंसिलका अधिवेशन	१५४
२६—नवाबका उत्तर	१५८
२७—आमियाटकी मुगेरयात्रा	१६०
२८—नवाबकी दृढता	१६४
२९—पटनेपर अंगरेजोंका अधिकार	१७०
३०—अंगरेजोंका आत्मसमर्पण	१७३
३१—युद्धका निश्चय	१७८
३२—कतवाका युद्ध	१८३
३३—सूतीका युद्ध	१८७
३४—उदवानालाका युद्ध	१९१
३५—प्राणदण्ड या हत्याकाण्ड	१९८
३६—पूर्णियामें क्रान्ति	२०८
३७—शुजाउद्दौलाकी शरणमें	२१०
३८—युद्ध-यात्रा	२१५
३९—अजीमावादमें युद्ध	२२०
४०—मीर कासिमकी गिरफ्तारी	२२३
४१—देशी सिपाहियोंका विद्रोह	२२६
४२—बक्सरका युद्ध	२३२
४३—मीर कासिमके अन्तिम दिन	२३६
४४—शुजाउद्दौलाका भाग्यनिर्णय	२३८
४५—नवाबोंका अन्त कैसे हुआ	२४२
परिशिष्ट	२४७
अनुक्रमणिका	२५५

प्रस्तावना ।

मीर कासिमके शासनपर एक सरसरी दृष्टि

भारतीय इतिहाससे मीर कासिमका स्थान लुप्तसा हो गया है । इस नामके प्रति आदरभाव होना तो दूर रहा, इसके विपरीत मीर कासिम आज घृणाकी दृष्टिसे देखे जाते हैं । अंगरेज इतिहास लेखकोंने तो आमतौरसे इनकी निन्दा करनेमें ही अपनी बुद्धि और विद्याका तमाम भण्डार खर्च कर डाला है । इन्हीं लेखकोंकी हांमें हा मिलानेवाले, इनकी बातोंको ही ब्रह्मवाक्य माननेवाले, भारतीय इतिहास लेखकोंने भी मीर कासिमके चरित्रका निराधार और कपोल कल्पित चित्र खींचनेमें कोई कसर नहीं रखी है । 'अत्याचारी', 'क्रूर' और 'अयोग्य' आदि विशेषण इस नामके साथ प्रयुक्त किये गये हैं । बहुत कम लेखकोंने मीर कासिम के गुणों और दोषोंकी वास्तविक विवेचना करनेका यत्न किया है । बात यह है कि इतिहास लिखते समय बहुत से लेखक स्थितिका विचार ही नहीं करते । जिस अर्थ स्थानमें रहकर मीर कासिमको राज्यसञ्चालनका कार्य करना पडा था उस अवस्थापर ध्यान दिये बिना ही इतिहासकारोंने अपनी सम्मति प्रगट कर दी है । यदि हम निष्पक्ष भावसे तमाम घटनाओंकी छानबीन करते हुए मीर कासिम सम्यन्धी इतिहासका अध्ययन करेंगे तो हम समझ सकेंगे कि इनके कार्य कर्होतक न्यायोचित थे और भारतीय इतिहासमें इनका क्या स्थान होना चाहिये ।

एक ऐसे व्यक्तिकी जरूरत थी जो उनका तमाम ऋण चुका कर देशमें शान्ति स्थापित करे और इनकी इच्छाका दास भी बनकर रहे । इन सब बातोंको देखते हुए ही इन लोगोंने मीर जाफरको पदच्युत कर मीर कासिमको नवाब बनाया ।

मीर कासिम फिरगियोंकी सहायतासे नवाब हो गये, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु इन्हें उन लोगोंकी अधीनतामें रहना—उनके हाथोंका खिलौना बनना—पसन्द नहीं था । इनकी प्रकृति अपने श्वशुरसे एकदम भिन्न थी । नवाब होते ही इन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अपने घरका स्वामी स्वयं होकर रहूँगा । इन्हें अपने प्रबन्धमें अंगरेजोंका हस्तक्षेप पसन्द नहीं था । यह विलकुल अपनी इच्छाके अनुसार राज्यसञ्चालन करना चाहते थे । नवाब मीर कासिमने विचारा कि अंगरेजोंके हस्तक्षेपका प्रधान कारण सन्धि सम्बन्धी रुपयेका न चुकाना है । यदि सन्धिकी शर्तें पूरी हो जायेंगी तो उन लोगोंको राज्यप्रबन्धमें हस्तक्षेप करनेका कोई बहाना न रह जायगा । अतएव गद्दीपर बैठते ही इनका ध्यान पहले इसी ओर आकर्षित हुआ । अवस्था शोचनीय थी । खजानेमें केवल ५० हजार रुपये थे, हिसाब किताब सब गटबटीमें पड़ा हुआ था । अंगरेजोंको रुपया तो देना था ही, इधर सेनाका वेतन भी कई माससे नहीं दिया गया था । इस अपसरपर नवाबने अपूर्व उत्साहका परिचय दिया । इन्होंने तमाम अफसरोंको बुलवाया और उन्हें ठीक ठीक हिसाब बतलानेके लिए मजबूर किया । जिनके जिम्मे जो हिसाब था उन्होंने उसका बहुतसा रुपया हड़प डाला था । अन्त पुरकी दासियोंके जिम्मे बहुतसा सोना, जवाहरात आदि निकलते थे ।

संवत् १२१४ (सन् १७५७ ई०) में पलासी युद्ध (पड्यत्र) हुआ। उसके बाद बंगालमें अंगरेजोंका सिक्रा अच्छी तरह बैठ गया। अभीतक ये लोग नवाबकी कृपाके भिखारी वणिक मात्र थे। अब ये बंगालके वास्तविक शासक बन बैठे। मीर जाफर, जिन्हें सिराजके साथ विश्वासघात करनेके पुरस्कारमें बंगालका नवाबी मिली थी, एक अयोग्य और निरुम्मे शासक थे। अंगरेज इन्हें कठपुतलीकी तरह अपनी इच्छाके अनुसार नचाया करते थे। फरुखसियरके समयमें अंगरेजोंको जो फरमान प्राप्त हुआ था उसके अनुसार ये लोग देशके भीतर विदेशी मालका ही निशुल्क व्यापार कर सकते थे। देशी वस्तुओंका निःशुल्क व्यापार करनेका अधिकार इन्हें प्राप्त न था। पलासीयुद्धके पूर्व ये लोग छिपे तौरसे जहाँ तहाँ उक्त प्रकारका व्यापार कर लिया करते थे। परन्तु अब तो इसे ये अपना स्वत्व समझने लग गये। मीर जाफरने फिरगियोंकी इस मन मानी काररवाईमें कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं की। ये लोग स्वतन्त्रतापूर्वक निःशुल्क व्यापारका अनुचित लाभ उठाने लगे। संवत् १२१७ (१७६० ई०) तक मीर जाफर ही बंगालके नवाब रहे। अंगरेजोंके व्यापारमें इनके द्वारा यद्यपि कोई विघ्न-बाधा उपस्थित नहीं हुई तो भी ये लोग मीर जाफरसे रुष्ट थे। सन्धिके अनुसार मीर जाफरसे जो कुछ इन्हें पाना था अभी तक ये लोग वसूल न कर पाये थे। मीर जाफरमें यह सामर्थ्य नहीं थी कि तमाम ऋणसे मुक्त हो सकें। इसके अतिरिक्त इनके समयमें तमाम राज्यमें अराजकता फैली हुई थी। मीर जाफर उसे दवानेमें सर्वथा असमर्थ थे। अंगरेजोंको इस समय

मीर जाफर एक अयोग्य शासक थे, यह बात पहले ही बता दी गयी है । पलासी युद्धसे अंगरेजोंकी धाक बंगालमें जम तो अवश्य गयी, परन्तु क्रान्तिके जो दुष्परिणाम हुआ करते हैं वे यहाँ भी घटित हुए । अराजकताका सूत्रपात हुआ । जिसे जहाँ जो मिला धर दबाया । शक्तिशाली व्यक्तियोंका धोलवाला था । हर जगह जमीन्दार सर उठाने लगे । बिहार प्रान्तके जमीन्दार खुल्लमखुल्ला चागी बन बैठे । इधर शाह आलमने धावा धोल दिया । वह बिहारमें आकर गडबड मचा रहे थे । बिहार प्रान्तके नायब रामनारायण भी एक तरहसे स्वतंत्र हो बैठे थे । कई सालसे उन्होंने हिसाब चुकता नहीं किया था और न मुर्शिदाबादके खजानेमें मालगुजारीका रुपया ही भेजा था । बिहारसे नवाबका अधिकार मानों उठ ही गया था । बंगाल में वीरभूमके राजा बड़े शक्तिशाली हो गये थे । मीर कासिम जब नवाब हुए तो उनके सामने भी यह भयकर स्थिति उपस्थित थी । उन्हें इस बड़ी उलझनको सुलभाना था । उनके सामने यह प्रश्न था कि जमीन्दारोंकी अन्यायपूर्ण शक्ति किस भाँति चूर्ण की जाय । शाह आलमका सामना करना हँसी खेलका काम नहीं था । बिहार प्रान्तके कई प्रभावशाली व्यक्ति सम्राट्का साथ दे रहे थे । नवाबके सामने यह भी एक टेढ़ा प्रश्न था कि सम्राट्का घड़ता हुआ वेग किस तरह रोका जाय । रामनारायण जैसे उद्धत अफसरोंका राज्य-कार्यमें रहना कम जोखिमकी बात नहीं थी । मीर कासिमको इन जैसे व्यक्तियोंको भी दबाना था । नवाबने जिस रूबोंके साथ इन कठिनाइयोंका सामना किया वह वास्तवमें प्रशंसनीय है । इस व्यक्तिके अपूर्व

जाँच करवानेपर सब बातोंका भेद खुला । जिन लोगोंने जो कुछ हजम कर लिया था उन्हें उसे लौटाना पडा । कुछ ही दिनोंमें पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया । इधर नवाबने अपने निर्जा खर्च भी बहुत कुछ घटा दिये । भेड, बुलबुल, हिरन आदि केवल नुमाइशके लिए रखे जाते थे और इन पर बहुतसा रुपया व्यर्थ ही खर्च किया जाता था । नवाब ने इन सबको बेच डाला । इस ढंगसे भी काफी धनकी प्राप्ति हुई । नवाबने सन्धिकार रुपया अंगरेजोंको दे दिया । सेनाकी जो तनखाह बाकी थी वह भी चुकता कर दी ।

नवाब मीर कासिमकी राज्यव्यवस्था तथा उत्कर्ष और अधःपतनके कारणोंपर विचार करनेसे पहले यह मालूम करना आवश्यक है कि उन्हें राज्यसंचालनमें किन किन कठिनाइयोंका सामना करना पडा और उक्त कठिनाइयोंके निवारणार्थ उन्होंने क्या क्या यत्न किये । इन बातोंके विचार करनेके साथ यदि हम मीर कासिमकी राज्यव्यवस्थाका अध्ययन करें तो हमें उनके वडप्पनका ठीक ठीक पता लगेगा और हम उनका वास्तविक महत्त्व समझ सकेंगे । मसनदपर बैठते ही एक खास दिक्कत, जिसका सामना नवाबको करना पडा, ऋण परिशोधके सम्बन्धकी थी । हम ऊपर बतला चुके हैं कि नवाबने किस अपूर्व उत्साह और कार्यक्षमताके साथ उक्त कठिनाईको दूर किया । अब नवाब के मार्गमें दो प्रधान अडचनें थीं—अराजकता तथा अंगरेजोंकी व्यापार सम्बन्धी मनमानी काररवाइयाँ । हमें अब इन कठिनाइयोंका सक्षिप्त वर्णन करना है और साथ ही साथ यह बतलाना है कि नवाबने उन्हें दूर करनेके लिए कौन कौनसे यत्न किये ।

मीर जाफर एक अयोग्य शासक थे, यह बात पहले ही बता दी गयी है । पलासी युद्धसे अंगरेजोंकी धाक बंगालमें जम तो अवश्य बयी, परन्तु क्रान्तिके जो दुष्परिणाम हुआ करते हैं वे यहाँ भी घटित हुए । अराजकताका सूत्रपात हुआ । जिसे जहाँ जो मिला धर दबाया । शक्तिशाली व्यक्तियोंका बोलवाला था । हर जगह जमीन्दार सर उठाने लगे । बिहार प्रान्तके जमीन्दार खुल्लमखुल्ला बागी बन बैठे । इधर शाह आलमने धावा बोल दिया । वह बिहारमें आकर गडबड मचा रहे थे । बिहार प्रान्तके नायब रामनारायण भी एक तरहसे स्वतंत्र हो बैठे थे । कई सालसे उन्होंने हिसाब चुकता नहीं किया था और न मुर्शिदाबादके खजानेमें मालगुजारीका रुखा ही भेजा था । बिहारसे नवाबका अधिकार मानों उठ ही गया था । बंगाल में वीरभूमके राजा बड़े शक्तिशाली हो गये थे । मीर कासिम जब नराव हुए तो उनके सामने भी यह भयकर स्थिति उपस्थित थी । उन्हें इस बड़ी उलझनको सुलभाना था । उनके सामने यह प्रश्न था कि जमीन्दारोंकी अन्यायपूर्ण शक्ति किस भाति चूर्ण की जाय । शाह आलमका सामना करना हँसी खेलका काम नहीं था । बिहार प्रान्तके कई प्रभावशाली व्यक्ति सम्राट्का साथ दे रहे थे । नवाबके सामने यह भी एक टेढ़ा प्रश्न था कि सम्राट्का बढ़ता हुआ वेग किस तरह रोका जाय । रामनारायण जैसे उद्धत अफसरोंका राज्य-कार्यमें रहना कम जोखिमकी बात नहीं थी । मीर कासिमको इन जैसे व्यक्तियोंको भी दबाना था । नवाबने जिस खूबोंके साथ इन कठिनाइयोंका सामना किया वह वास्तवमें प्रशंसनीय है । इस व्यक्तिके अपूर्व

उत्साहने कई अंगरेज इतिहासकारोंकी आँखोंको भी चका-चौंध कर दिया । मरे साहबने साफ साफ लिखा है कि “मीर कासिमकी कार्यक्षमता इस बातकी द्योतक है कि यदि वह स्वतन्त्रतापूर्वक राज्यसञ्चालन कर पाते तो वह बड़े अच्छे शासक हो सकते ।” अन्तु, पहले उन्होंने वीरभूमके राजाकी खबर ली । वीरभूमके राजा परास्त किये गये, उनकी शक्ति पूर्णतः नष्ट कर दी गयी । इधर बिहारमें शाह आलमको हार खानी पडी । नवाबके साथ उन्होंने सन्धि कर ली । यह तै पाया कि नवाब शाही खजानेमें प्रति वर्ष चौबीस लाख रुपया दिया करेंगे ।

इधरसे छुट्टी पाकर मीर कासिमने रामनारायणकी भी खबर ली । रामनारायण एक योग्य व्यक्ति, अनुभवी शासक तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे । अंगरेज लोग इन्हें अपनी तरफ मिलाये रखना चाहते थे । यही कारण है कि मीर जाफरने भी जब इनके पदच्युत किये जानेके सम्बन्धमें क्लाइवसे प्रस्ताव किया था तो उन्होंने इसका विरोध किया था । रामनारायण अपने पदपर स्थित रहे । अंगरेजोंका सहारा पाकर तथा मीर जाफरकी निर्बलतासे लाभ उठाकर यह धीरे धीरे स्वच्छन्द होने लगे और एक प्रकारसे स्वतन्त्र ही हो बैठे । नवाब मीर कासिम इस प्रकारकी उन्मूलताको सहन करनेके लिए तैयार नहीं थे । इन्होंने तत्काल निश्चय कर लिया कि रामनारायणको सीधा करना चाहिये । आरम्भमें तो अंगरेजोंने रामनारायणका ही साथ दिया । रामनारायणने भी पटनाके तत्कालीन अंगरेज शासकको अपनी ओर मिलाकर नवाबको हर तरहसे तग करना शुरू किया । मीर कासिमने कई बार कलकत्ता गवर्नरके पास

इनकी शिकायत लिख भेजी । अन्तमें उन्हें आशा दे दी गयी कि वह रामनारायणके साथ अपनी इच्छाके अनुसार न्यायोचित व्यवहार करें । रामनारायण हिसाब समझानेके लिए बुलाये गये । परन्तु इनका प्रबन्ध तो त्रुटियोंसे परिपूर्ण था । धूर्तता, चालवाजी और वेईमानी भरी पडी थी । हिसाब समझाते तो क्या समझाते ? इन्होंने अपनेको नयावकी दयापर ही समर्पित करना उचित समझा । यह गिरफ्तार कर लिये गये । कुछ दिनोंतक तो अजीमाबादमें ही रखे गये, फिर मुर्शिदाबाद भेज दिये गये ।

रामनारायणकी खबर लेनेके पश्चात् नवाबने बिहारके उद्धत जमीन्दारोंको नीचा दिखलानेका निश्चय किया । पश्चिमी बिहारके जमीन्दार प्रजापर मनमाना अत्याचार कर रहे थे । वे छोटे छोटे किले बना निर्बलोंको कुचल कर अपनी शक्तिका प्रसार करनेमें लगे थे । मीर कासिम स्वयं इनके विरुद्ध चल खडे हुए । जमीन्दार लोग नयावके विरुद्ध खडे न रह सके और गङ्गा पारकर गाजौपुरकी ओर चले गये । सरकारी अफसर नियुक्त किये गये, इनके किले गिरवा डाले गये और इनकी शक्ति पूर्णत चूर्ण कर दी गयी । बिहार प्रान्तके अन्य जमीन्दार कमकर पाँ, बुनि यादसिंह और फतहसिंह आदिको भी मीर कासिमने नीचा दिखाया । राज्यसे अराजकताका मूलोच्छेद और शान्तिकी स्थापना हुई ।

ऋण चुकता हो गया । सन्धिकी शर्तें पूरी हो गयीं । भभकती हुई विद्रोहकी आग भी शान्त कर दी गयी । नयाव मीर कासिमके शासनकी वास्तविक नींव पड गयी । अब इन्हें अपनी शक्तिको दृढ़ और स्थायी बनाना था ।

शासनकी दुर्बलतासे अँगरेज लोग जो अनुचित लाभ उठा रहे थे उससे मीर कासिम वेखवर नहीं थे, परन्तु उनसे अभी बोलना अपने पैरमें अपने ही हाथों कुल्हाड़ी मारना था । फिरगियोंके हाथ मीर जाफरकी जो दुर्दशा हुई उसे इन्होंने अपनी आँखों देखा था । यह जानते थे कि अगर अभी हम अँगरेजोंके विरुद्ध अधिक हाथ-पैर हिलायेंगे तो तत्काल कुचल डाले जायेंगे । यही कारण है कि आरम्भमें इनका ध्यान अपनी शक्ति संग्रह करनेकी ओर आकर्षित हुआ । एक बात इन्हें बहुत खटकती थी—वह थी मुर्शिदाबादमें राजधानीका होना । इन्होंने विचार कि मुर्शिदाबाद अँगरेजी राजधानी कलकत्तेके बहुत निकट है, यहाँ अँगरेज आसानीके साथ बराबर राज्यसञ्चालनमें हस्त-क्षेप करते रहेंगे । अतः कहीं अन्यत्र, कलकत्तेसे दूर, राजधानीका होना इन्होंने आवश्यक समझा । इसी कारणसे मुर्शिदाबादसे हटाकर मुँगेरमें यह अपनी राजधानी ले गये, और यहाँ आकर राज्यव्यवस्था तथा शासन सुधारके कार्यमें उत्साहके साथ लग गये । अन्य बातोंके अतिरिक्त इनके शासनमें दो बातें ध्यान देने योग्य हैं । एक तो इन्होंने गुप्तचर विभागका सघटन किया । सिंहासनासीन होनेके बादसे ही यह गुप्तचर-विभागकी आवश्यकता अनुभव कर रहे थे । अँगरेजोंपर इनका विश्वास नहीं था । सिराजु-दौलाके विरुद्ध जो पङ्क्यन्त्र रचा गया था वह इन्होंने अपनी आँखों देखा था । मीर जाफरका अधपतन भी इनके सामने ही घटित हुआ था । यह डरते थे कि अँगरेज लोग मेरे आदमियोंको मिलाकर कहीं मेरे विरुद्ध भी गुप्त पङ्क्यन्त्र न रच बैठें । यही कारण है कि इन्होंने

गुप्तचर विभागका समुचित प्रबन्ध किया । शासनकालमें नवाबको उक्त विभागसे बड़ी सहायता मिली । इनके विरुद्ध समय समयपर स्वयं इनके अफसरोंने गुप्त काररवाई करना चाही, लेकिन गुप्तचर विभागका ऐसा सुप्रबन्ध था कि तत्काल तमाम बातें नवाबके कानों पहुँच जाती थीं । अक्रूर उगनेके पहले ही बीजका नाश कर दिया जाता था । कई अफसरोंको जिश्वासघातके अपराधमें नवाबने कड़ी कड़ी सजाएँ दी थीं । इनका आतङ्क सबके हृदयपर इतना अधिक बैठ गया था कि बादको इस प्रकारकी बातें बहुत कम घटित होती थीं ।

नवाब मीर कासिमका दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य सैनिक सटवना था । वीरभूमके राजासे जब इन्हें लड़ना पडा था उस समय इन्होंने अंगरेज सिपाहियोंकी लड़ाईका ढङ्ग देखा था । केवल थोड़ेसे सिपाहियोंने बड़ी सेनाको भगा दिया था । तभीसे इन्होंने सोच रखा था कि अंगरेजी ढङ्गपर अपना सेनाका सञ्चालन करेंगे । यह योग्य और अनुभवी सेनापतियोंको ढूँढनेमें लग गये । इन्होंने ऐसे आदमियों का पता लगाना आरम्भ किया जिनसे अंगरेजोंकी शत्रुता हो । यह जानते थे कि मौका पडनेपर ऐसे ही व्यक्ति अंगरेजोंके विरुद्ध हमारे काम आयेंगे । गुरगोन खॉ इनके प्रधान सेनाध्यक्षके पदपर नियुक्त थे । इनके अतिरिक्त मु० तकीखॉ, समरू और मास्कर इनके मुख्य सेनापतियोंमें थे । इन्हीं व्यक्तियोंकी बदौलत मीर कासिमकी पैदल और घुड-सवार सेनाएं अंगरेजी ढङ्गपर सघटित हुईं । नवाबने बन्दूक, गाले, बारूद, पिस्तौल और युद्धकी अन्य आवश्यक सामग्री जमा करना और स्वयं भी तैयार कराना आरम्भ

कर दिया था । इनके यहाँ जो गोले तैयार होते थे वे बड़े ही अच्छे होते थे । एक अँगरेज इतिहासकारने लिखा है कि कम्पनीके जो गोले इग्लैंडसे आते थे वे भी मुँगेरके गोलोंकी बराबरी करनेमें असमर्थ थे । इस प्रकार नवाब मीर कासिम सैनिक सघटनकी ओर अपूर्व उत्साहके साथ लग गये और बहुत अशौमें इन्होंने अपनी दशा सुधार भी ली ।

अब हमें यह विचार करना है कि फिरगियोंके साथ नवाब मीर कासिमके जो झगड़े हुए थे उनके कारण क्या हैं । विचारपूर्वक देखा जाय तो मालूम होगा कि इन झगड़ोंका मूलकारण अँगरेजोंका घमण्ड था । वे अपनेको नवाबकी प्रजा तो समझते नहीं थे वरन् इसके प्रतिकूल नवाबको ही वे अपनी प्रजा समझते थे । मीर कासिम अँगरेजोंकी सहायता पाकर ही नवाब हुए थे अतएव वे लोग स्वभावतः उन्हें अपना आश्रित समझते थे । मामूली अँगरेजोंको भी यह घमण्ड था कि हम ही देशके शासक हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं और नवाब हमारे काममें कोई रुकावट नहीं डाल सकते । यही कारण है कि नवाब का आदर करना तो दूर रहा, वे उन्हें अपमानित तक करने के लिए तत्पर रहते थे । इसी एक विचारसे उत्साहित होकर—कि हम शासक हैं और नवाब शासित हैं—इन लोगोंने मीर कासिमके मार्गमें कई अडचनें उपस्थित कीं । उनमें व्यापार सम्बन्धी अडचनें ही मुख्य थीं । जैसा कि पहले ही घतला दिया गया है पलासी-युद्धके पश्चात् मीर जाफरकी निर्वलता और अपने प्रभुत्वसे लाभ उठाकर अँगरेजोंने फरफ़सियरसे प्राप्त फरमानका अनुचित लाभ उठाना

आरम्भ कर दिया था । वे लोग अपनी बढ़ती हुई शक्ति-का दुरुपयोग करने लगे । उन लोगोंके गुमाश्ते हर जगह नियत थे । यह गुमाश्ते प्रजापर मनमाना अत्याचार किया करते थे । हर ग्राम और परगनेमें ये लोग फैले हुए थे । ये नमक, पान, घी, चावल, घाँस, मछली, चीनी, तम्बाकू, अफीम, इत्यादि बहुतसी चीजें बलपूर्वक चौथाई मूल्यमें खरीदकर चोगुने मूल्यमें बेचा करते थे । प्रजा इन गुमाश्तोंसे व्यवहार करना नहीं चाहती थी । परिणाम यह होता था कि ये लोग कैद कर लिये जाते थे और इनकी पीठपर कोड़ेका प्रहार होता था । ये गुमाश्ते हर ग्रामके जुलाहोंको बुलवाते और उनसे जबरदस्ती शर्तनामा लिखवा कर मनमानी कीमतपर कपडा घसूल करते थे । इन जुलाहोंका नाम एक रजिस्टरमें दर्ज रहता था, ये दूसरी जगह कपडा नहीं बेच सकते थे । विचारे जुलाहोंका सन्यानाश हो गया । वे शहर छोड़ छोड़ कर भागने लगे । जिन स्थानोंने कलाकौशलमें बड़ा उन्नति की थी वे निर्जन हो गये । पहले न्यायके लिए फचहरियों थी परन्तु अब यही गुमाश्ते न्यायाधीश बना दिये गये थे । किशतियोंपर अँगरेजी भण्डा लगाकर ये हरजगह बिना शुल्क दिये सामान लाया जाया करते थे । नवाबको प्रतिवर्ष २५ लाख रुपयेका घाटा होने लगा । अँगरेजोंकी स्वार्थपरताका बडा बुरा परिणाम हुआ । कलाकौशलका नाश हो गया । देशी व्यापारी तबाह हो गये । एक तरफ तो अँगरेज व्यापारी कुछ भी शुल्क न देते थे, दूसरी ओर देशी व्यापारियोंसे शुल्क लिया जाता था । भला यह लोग ऐसी अवस्थामें अँगरेजोंके साथ कैसे टकर ले सकते थे ? इन्हें व्यापार

बन्द करना पडा । इन मनमाने अत्याचारोंका प्रभाव खेती पर भी पडा । ये गुमास्ते खेतीसे उत्पन्न चीजोंको प्राप्त करनेके लिए खेती करनेवालोंपर भी अत्याचार करने लगे । दाम काफी नहीं मिलता, यह देखकर लोगोंने खेती करना बन्द कर दिया । जमीनसे मालगुजारी तकका मिलना बन्द हो गया । कई अंगरेज लेखकोंने अंगरेजोंके इस व्यवहारकी निन्दा की है और प्रजाकी असहाय अवस्थापर आँसू गिराये हैं । मैलिसन साहब लिखते हैं, “सवा सौ वर्ष पहले अंगरेजोंने इस देशमें जिस निर्लज्जता और स्वार्थपरायणताका परिचय दिया उसे देखकर हर अंगरेजका सिर लजासे नीचा हो जायगा ।” कलकत्ता कौंसिलके मेम्बर वारेन हेस्टिजने इन अत्याचारोंके सम्बन्धमें जो विवरण दिया है वह बडा ही करुणाजनक है । वह लिखते हैं— “हमलोग कुछ सिपाहियोंके साथ सफर कर रहे थे । जहाँ हमलोग पहुँच जाते वहाँके रहनेवाले हमलोगोंके अत्याचारके डरसे पहले ही घरघर छोडकर भाग जाते । ग्राम, सराय, धर्मशालाएँ सब निर्जन हो जानीं । हमसे पहले कुछ सिपाही गये हुए थे, उन्होंने जो अत्याचार किये थे उनसे साफ मालूम होता था कि लोगोंका हमसे डरना निर्मूल न था । इस प्रकारके कृत्य नवाबके हकमें, देशके लिए और अंगरेज जातिकी प्रतिष्ठाके ख्यालसे भी उचित नहीं है ।”

मुताखरीनके लेखक सैयद गुलामहूसैनने बहुत कुछ अंगरेजोंका पक्ष लिया है । परन्तु व्यापार-सम्बन्धी अनेक अत्याचारोंकी तरफसे वह भी अपनी आँखें बन्द न कर सका । वह लिखता है “बंगालकी प्रजाकी भलाईकी ओरसे

अंगरेज लोग इतने उदासीन हैं कि लोग रोते हैं । प्रजा निर्धनतासे पीड़ित हो रही है । हे परमात्मा, आश्रो और अपने सेवकोंकी रक्षा करो । इन्हें अन्यायियोंके पक्षसे छुटकारा दिलाओ ।” रमेशचन्द्र दत्त लिखते हैं कि बगाल-निवासियोंपर इसके पूर्व भी कष्ट पड़े थे परन्तु ऐसे विकट सकटका सामना उन्हें कभी भी नहीं करना पडा था । जहाँ कहीं नवाबके अफसर इनके मार्गमें रुकावट डालते, इनके अत्याचारोंको रोकनेकी चेष्टा करते, वहाँ वे कैद कर लिये जाते थे ।

मीर जाफरके समय बगालमें अंगरेजों द्वारा जो अत्याचार हुए उनका यही सक्षिप्त वर्णन है । जब मीर कासिम को नगधी मिली तब भी यही स्थिति मौजूद थी । अभी तक वही अत्याचार जारी थे, और प्रजा पीड़ित थी । जबतक देशमें अराजकताका प्रकोप रहा, नगध मीर कासिम कुछ न कर सके । जब शाह आलम दिल्ली चले गये, रामनारायणका मामला तै हो गया, जमोन्दारोंकी शक्ति चूर्ण कर दी गयी, राज्यमें शान्ति स्थापित हो चुकी और सेनिक सघटनकी नीय भी नये ढङ्गपर पड गयी तो नगध मीर कासिमका ध्यान इस ओर भी आकर्षित हुआ । इन्होंने निश्चय कर लिया कि हम अपने कर्तव्योंका पालन करेंगे, फिरगियोंके अत्याचारोंको बन्द कर देशमें शांति स्थापित करेंगे और प्रजाके दुःखोंका निवारण करेंगे । यह इस बातको सहन करनेके लिए तैयार नहीं थे कि यहाँकी प्रजा तो कष्टोंसे पीड़ित रहे और सात समुद्र पारसे आये हुए व्यापारी उनका ही धन चूसकर मजा उडायें । बूढ़े मीर जाफरकी प्रकृति ही ऐसी थी कि वह अंगरेजोंके इशारे-

पर नाचा करते परन्तु मीर कासिम तो पूरे अक्खड थे। यह कभी अपने आत्मगौरवको खो नहीं सकते थे। इन्होंने तै कर लिखा था कि या तो अंगरेजोंके निन्दास्पद व्यवहारोंका मूलोच्छेद करेंगे या ससारसे अपनी सत्ता मिटा देंगे। नवाबने एक पत्र कलकत्ताके गवर्नर वानसीटार्टके नाम लिखा और फिरगियों द्वारा नित्य किये जानेवाले अत्याचारोंका वर्णन कर आशा प्रगट की कि उस और ध्यान दिया जायगा। नवाबका उक्त पत्र कलकत्ता कौंसिलके सामने पेश किया गया और यह ते पाया कि मि० हेस्टिंग्ज नवाबसे जाकर मिलें और व्यापार सम्बन्धी आवश्यक नियमोंका निबटारा करें। तदनुसार मिस्टर वारेन हेस्टिंग्ज और मीर कासिम, दोनोंकी भेंट हुई। व्यापार सम्बन्धी कुछ आवश्यक नियम निर्धारित हुए। गवर्नर वानसीटार्टने साफ साफ कह दिया कि यदि अंगरेज व्यापारी और उनके गुमाश्ते उक्त आदेशानुसार व्यवहार न करें तो नवाबको यह अधिकार है कि उन्हें हर उपायसे रोकें। यदि वे लोग शान्तिपूर्वक न मानें तो बल प्रयोगकी भी इन्हें हिदायत कर दी गयी। वानसीटार्ट लिखते हैं—“और राज्यको भाँति नवाबको भी यह अधिकार है कि उनकी प्रजापर यदि कोई किसी तरहका अत्याचार करे तो वह उसे रोकें। यदि शान्तिसे काम न चले तो बलप्रयोग करनेका भी अधिकार उन्हें प्राप्त है। किसी भी निष्पक्ष व्यक्तिको इस उचित बातमें शिकायत करनेकी जगह नहीं है।” हेस्टिंग्जने उपाय तो बतला दिया और कलकत्ता कौंसिलके प्रेसिडेण्टने भी उसके पक्षमें ही अपनी राय दी, परन्तु कलकत्ता-कौंसिलके स्वार्थान्ध मेम्बरोंको

भला यह बात कैसे स्वीकार हो सकती थी ? प्रजा दानों बिना तरसा करे, इसकी उन्हें क्या परवाह ? उन्हें तो एक मात्र चिन्ता यही थी कि हमारे व्यापारकी वृद्धि किस प्रकार हो । उन्हें केवल मौज उड़ानेसे मतलब था । उन्होंने हेस्टिंग्सके निर्णयका विरोध किया । व्यापार सम्बन्धी कुरोटियाँ ज्योंकी त्यों जारी रहीं । तब और अन्तमें अन्तर कुछ भी न दिखलाई पडा ।

नवाब मीर कासिम गुस्सा पाँकर रह जाते थे । इनको तरफसे अभी कुछ भी ज्यादाती नहीं हुई थी । यह शान्ति-के साथ काम निकालना चाहते थे । इन्होंने देखा वारेन हेस्टिंग्स नियम निर्धारित कर भी गये परन्तु परिणाम नदारद । यदि यह चाहते तो हर उपायसे अंगरेज व्यापारियोंको सीधा कर सकते थे, कोई इन्हें दोषी नहीं बता सकता था । परन्तु इन्होंने उचित यही समझा कि अपनी तरफसे शान्तिकी कोई चेष्टा उठा न रखनी चाहिये । इन्होंने फिर एक पत्र गवर्नर वानसीटार्टके पास लिखा और यह आशा प्रगट की कि फिरगियोंकी मनमानी कार-रवाइयोंको रोकनेका उचित प्रबन्ध किया जायगा । पत्रके अन्तमें नवाबने लिखा था "ईश्वरकी कृपासे मेने सन्धिके किसी भी नियमको भङ्ग नहीं किया । तब क्या कारण है कि अंगरेज लोग हमारी क्षति करनेपर तुले हैं ? कृपया बिना विलम्ब इन बातोंपर विचार कीजिये क्योंकि इन दोषोंके कारण मेरे शासनकी ओर घृणाभावकी वृद्धि होती जाती है ।" कोसिलके सामने नवाबका पत्र पेश किया गया और यह निश्चय हुआ कि वानसीटार्ट और हेस्टिंग्स व्यापार सम्बन्धी भगडोंके मूल कारणोंको ढूँढकर उनका

पर नाचा करते परन्तु मीर कासिम तो पूरे अमखड थे । यह कभी अपने आत्मगौरवको खो नहीं सकते थे । इन्होंने तै कर लिया था कि या तो अंगरेजोंके निन्दास्पद व्यवहारोंका मूलोच्छेद करेंगे या ससारसे अपनी सत्ता मिटा देंगे । नवाबने एक पत्र कलकत्ताके गवर्नर वानसीटार्टके नाम लिखा और फिरगियों द्वारा नित्य किये जानेवाले अत्याचारोंका वर्णन कर आशा प्रगट की कि उस ओर ध्यान दिया जायगा । नवाबका उक्त पत्र कलकत्ता कोसिलके सामने पेश किया गया और यह तै पाया कि मि० हेस्टिंग्ज नवाबसे जाकर मिलें और व्यापार सम्बन्धी आवश्यक नियमोंका निवटारा करें । तदनुसार मिस्टर वारेन हेस्टिंग्ज और मीर कासिम, दोनोंकी भेंट हुई । व्यापार सम्बन्धी कुछ आवश्यक नियम निर्धारित हुए । गवर्नर वानसीटार्टने साफ साफ कह दिया कि यदि अंगरेज व्यापारी और उनके गुमाश्ते उक्त आदेशानुसार व्यवहार न करें तो नवाबको यह अधिकार है कि उन्हें हर उपायसे रोकें । यदि वे लोग शान्तिपूर्वक न मानें तो बल प्रयोगकी भी इन्हें हिदायत कर दी गयी । वानसीटार्ट लिखते हैं—“और राज्यकी भाँति नवाबको भी यह अधिकार है कि उनकी प्रजापर यदि कोई किसी तरहका अत्याचार करे तो वह उसे रोकें । यदि शान्तिसे काम न चले तो बलप्रयोग करनेका भी अधिकार उन्हें प्राप्त है । किसी भी निष्पक्ष व्यक्तिको इस उचित बातमें शिकायत करनेकी जगह नहीं है ।” हेस्टिंग्जने उपाय तो बतला दिया और कलकत्ता-कोसिलके प्रेसिडेण्टने भी उसके पक्षमें ही अपनी राय दी, परन्तु कलकत्ता-कोसिलके स्वार्थान्ध मेम्बरोंको

भला यह घात कैसे स्वीकार हो सकती थी ? प्रजा दानों विना तरसा करे, इसकी उन्हें क्या परवाह ? उन्हें तो एक मात्र चिन्ता यही थी कि हमारे व्यापारकी वृद्धि किस प्रकार हो । उन्हें केवल मौज उड़ानेसे मतलब था । उन्होंने हेस्टिंग्सके निर्णयका विरोध किया । व्यापार सम्बन्धी कुरातियाँ ज्योंकी त्यों जारी रहीं । तब और अन्तमें अन्तर कुछ भी न दिखलाई पडा ।

नवाब मीर फासिम गुस्सा पीकर रह जाते थे । इनकी तरफसे अभी कुछ भी ज्यादाती नहीं हुई थी । यह शान्ति के साथ काम निकालना चाहते थे । इन्होंने देखा चारेन हेस्टिंग्स नियम निर्धारित कर भी गये परन्तु परिणाम नदारद । यदि यह चाहते तो हर उपायसे अंगरेज व्यापारियोंको सीधा कर सकते थे, कोई इन्हें दोषी नहीं बता सकता था । परन्तु इन्होंने उचित यही समझा कि अपनी तरफसे शान्तिकी कोई चेष्टा उठा न रखनी चाहिये । इन्होंने फिर एक पत्र गवर्नर वानसीटार्टके पास लिखा और यह आशा प्रगट की कि फिरगियोंकी मनमानी कार रवाइयोंको रोकनेका उचित प्रबन्ध किया जायगा । पत्रके अन्तमें नवाबने लिखा था "ईश्वरकी कृपासे मैंने सन्धिके किसी भी नियमको भङ्ग नहीं किया । तब क्या कारण है कि अंगरेज लोग हमारी क्षति करनेपर तुले हैं ? कृपया विना विलम्ब इन बातोंपर विचार कीजिये क्योंकि इन दोषोंके कारण मेरे शासनकी ओर घृणाभावकी वृद्धि होती जाती है ।" कोसिलके सामने नवाबका पत्र पेश किया गया और यह निश्चय हुआ कि वानसीटार्ट और हेस्टिंग्स व्यापार सम्बन्धी भगडोंके मूल कारणोंको हूँदकर उनका

निवटारा करनेका उचित उपाय करें। तदनुसार यह लोग मुर्शिदाबाद, बर्दवान होते हुए नवाबसे मिलनेके लिए मुँगेर पहुँचे। इन लोगोंने व्यापार सम्बन्धी कुरीतियोंको रोकनेके लिए जो नियम नवाबके सामने पेश किये उनका आशय यही था कि—

“विदेशसे आनेवाली या विदेश जानेवाली वस्तुओं पर कम्पनीका दस्तक रहेगा और वे विना शुल्क आ जा सकेंगी। यहाँकी वस्तुओंपर देशमें व्यापारके निमित्त स्थानीय सरकारी अफसरके दस्तककी आवश्यकता पड़ेगी। दस्तक प्राप्त करते समय और माल भेजनेके पहले फौजदारी शुल्क देना होगा। देशी व्यापारियोंको इससे कुछ अधिक शुल्क देना पड़ता था। देशके भीतर देशी वस्तुओंमें जो व्यापार अँगरेज करेंगे उसके लिए वे शुल्कसे मुक्त न किये जायँगे। यदि किसी मनुष्यके पास दस्तक न हो तो उसका माल रोक लिया जाय और इसकी सूचना निकटस्थ अँगरेजी फैक्ट्री और सरकारी अफसरको दी जाय गुमाश्ते सामानकी खरीद और विक्रीमें बलप्रयोग न कर सकेंगे। यदि गुमाश्तेके मुनासिब व्यापारमें किसी तरहका रुकावट डाली जाती है तो वह इसकी शिकायत स्थानीय फौजदारसे करेगा। फौजदार मामलेको ले करेगा। यदि फौजदारका निर्णय गुमाश्तेको अनुचित जान पड़े तो वह निकटस्थ अँगरेज अफसरके पास लिखेगा। वह अफसर उस शिकायतको प्रेसिडेण्टके पास भेज देगा। यदि प्रेसिडेण्टको भी फौजदारका निर्णय अनुचित जान पड़े तो वह नवाबको लिखेंगे कि उस मामलेकी उचित जाँच की जाय।”

उपर्युक्त नियमोंको धानसोर्टार्टने नवावके सामने पेश किया । पहले तो मीर कासिमको ये नियम स्वीकार करने में हिचकिचाहट हुई । उनका रयाल था कि वर्तमान कुरोतियोंको रोकनेके लिए उपर्युक्त नियम पर्याप्त नहीं है । किन्तु प्रेसिडेण्टके यह विश्वास दिलानेपर कि भविष्यमें अब किसी प्रकारको गडबडीकी आशङ्का नहीं है, नवावने अन्तमें उन्हें स्वीकार किया । यथासमय इन नियमोंकी सूचना कलकत्ता कौंसिलको मिली । बोर्डके मेम्बर आग बबूला हो गये । अपने स्वार्थपर इस तरहका कुठाराघात वे सहन न कर सके । अभी तक वे लोग निशुल्क व्यापार कर रहे थे, अब शुल्कका देना उन्हें अपरता था । निशुल्क व्यापारके कारण व्यापारका आधिपत्य उनको मिल गया था । देशी व्यापारियोंको उनके साथ टकर लेना कठिन था क्योंकि उन लोगोंको पूर्ववत् शुल्क देना पडता था । अब फिर वही शुल्कको अफन हमारे मत्थे सवार होगी, यह बात अँगरेजोंके लिए असहनोय थी । अँगरेजी गुमाशतोंके सम्यन्धमें जो नियम बने थे उनसे उन लोगोंकी स्वच्छन्दता रुक सी जाती थी ।

४ माघ सवत् १८१६ (१७ जनवरी सन् १७६३) को कलकत्ता कौंसिलका अधिवेशन हुआ । यह स्वीकृत हुआ कि "प्रेसिडेण्टने नवावके साथ मिलकर जो नियम निर्धारित किये हैं वे हमलोगोंके लिए बहैसियत अँगरेज होनेके लज्जाजनक हैं । इनका अनिग्रार्थ परिणाम यही होगा कि हमलोगोंका व्यापार नष्ट हो जायगा ।" इस प्रकार धानसोर्टार्ट और हेस्टिंग्सका तमाम परिश्रम व्यर्थ गया । बोर्डने इनके निर्णयको अस्वीकार कर सत्र मेहनतपर पानी फेर दिया ।

निर्लेजता और स्वार्थपरायणताकी यह पराकाष्ठा थी । जिन नियमोंके सम्वन्धमें मैलिसन साहब लिखते हैं कि ये नियम अंगरेजोंके लिए अनुचित रूपसे लाभदायक थे वे ही, नियम अंगरेजोंको अन्याययुक्त प्रतीत हुए । उन्होंने निश्चय किया कि शाही फरमान द्वारा हमें हर प्रकारका निःशुल्क व्यापार करनेका अधिकार है । केवल उदारताके कारण उन्होंने नमक और तम्बाकूपर ढाई फी सैकड़ा शुल्क देना स्वीकार किया । समयका उलट-फेर इसीको कहते हैं । जो अंगरेज व्यापारी कभी माथेपर पिलौने लेकर घूम घूम कर बेचा करते और सड़कके लडके जिनकी हँसी उडाते थे वे आज इतने प्रबल हो गये कि देशके शासकपर ही यह अनुचित रोख गॉठने लगे । उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम शुरु न देंगे । गुमाशतोंकी मनमानी ज्यादतियोंके रोकनेके निमित्त जो नियम निर्धारित किये गये थे उन्हें उन लोगोंने एकदम रह कर दिया । वे पूर्ववत् अत्याचार करनेके लिए स्वतन्त्र छोड़ दिये गये ।

कुछ ही दिनोंमें उक्त निर्णयकी सूचना नवाब मीर कासिमको भी मिली । उन्हें इस बातका पता लग गया कि अंगरेज अपनी स्वार्थ नीतिसे रत्ती भर भी पीछे हटनेको तैयार नहीं हैं । नवाबने देखा लिया कि यदि हमें अपनी प्रजाका हित करना है, यदि हम चाहते हैं कि देशी व्यापारी अंगरेजोंकी स्वार्थपरताके कारण अधिक कष्ट न उठावें तो हमें उन लोगोंको भी वही अधिकार देने होंगे जो अंगरेज वणिकोंको बलपूर्वक प्राप्त है । उन्होंने इस बातकी घोषणा कर दी कि भविष्यमें किसीसे भी शुल्क न लिया जायगा । नवाबकी इस समयकी बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी ।

उन्होंने फिरगियोंको बतला दिया कि न्यायकी आडमें तुम घोर अन्याय और अविचार नहीं कर सकते । फरमानका झूठा आश्रय लेकर तुम हमारी प्रजाका गला नहीं घोट सकते । अब व्यापारमें तुम्हारे और देशी व्यापारियोंके बीच उचित और न्याययुक्त मुठभेड़ हो सकेगी और वे तुम्हारे साथ एक पलड़ेपर पड़े रह सकेंगे । वास्तवमें देखा जाय तो निशुल्क व्यापार सम्बन्धी नवाबके निर्णयसे उनकी दूरदर्शिता और न्यायप्रियता पूरे तौरसे झलकती है । उन्होंने यह बात तो मान ली कि हमारी आमदनी भले ही कम हो जाय परन्तु उन्हें यह अनुचित प्रतीत हुआ कि देशी व्यापारी भूखों मरें और अंगरेज व्यापारी उनकी रोजी मार कर मजे उड़ायें । नवाबने निजी स्वार्थको प्रजाहितके अधीन ही रखना अपना कर्तव्य समझा । कुछ इतिहासकारोंने इस कामके लिए मुक्तकूटसे मीर कासिमकी प्रशंसा की है । रमेशचन्द्रदत्त लिखते हैं कि 'ऐसी उदारताका उदाहरण भारतीय इतिहासमें नहीं मिल सकता' । परन्तु मीर कासिमकी न्यायप्रियता फिरकियोंको काँटेकी तरह चुभ गयी । अभी तक फरमानकी आड लेकर वे अपनी स्वार्थ-लीलाको छिपाये बैठे थे परन्तु अब तो अपने अत्याचारों-पर परदा डालनेके लिए उन्हें कोई युक्ति ही न रही । उन लोगोंने अब सुल्लमसुल्ला बलात्कारपर कमर कस ली । कांसिलका अधिवेशन कर उन्होंने निश्चय किया कि व्यापारको निशुल्क रखनेका नवाबको कोई अधिकार ही नहीं है ।

मैलिसन साहयने अंगरेज बणिकोंको तुलना डाकुओं और लुटेरोंसे की है । मिल साहय लिखते हैं कि फिर

गियोंने लज्जा और न्यायको जिस प्रकार तिलाञ्जलि दे डाली इसका उदाहरण इतिहासमें बहुत ही कम मिलता है । स्वयं तत्कालीन गवर्नर वानसीटार्टने लिखा है कि "नवाबको हर तरहसे यह अधिकार है कि शुल्कसे जिसे चाहे मुक्त कर दें ।" लेकिन कौंसिलके सदस्योंने नवाबके इस उचित अधिकारको भी अन्याययुक्त और अनुचित ठहराया । मि० जोनस्टन और हे नवाबके पास डेपुटेशन लेकर मुँगेर भेजे गये । इन्हें यह आदेश दिया गया था कि वे नवाबसे मिलकर निःशुल्क व्यापारनीतिको रद्द करा दें । परन्तु इनकी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई । कौंसिलने कुछ भय भी दिखलाया लेकिन नवाबने इन धमकियोंकी परवाह न की । उन्होंने एक बार अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था और अब वह उससे हटनेके लिए तैयार नहीं थे । उन्हें मालूम होगया था कि हमारा निर्णय अँगरेजोंके स्वार्थका बाधक है शत वे इसे सहन न कर सकेंगे और हमको उनसे जूझना पडेगा । परन्तु न्यायको कुरवान कर वह राज्य-सुख भोगनेके लिए उत्सुक नहीं थे । किसी कर्तव्यनिष्ठ शासकको जो करना चाहिये था वही उन्होंने किया । जो कुछ भी परिणाम हो, उसे सहन करनेके लिए वह तैयार बैठे थे ।

परिणाम वही हुआ जिसकी पहलसे ही आशङ्का थी । पटनाके अँगरेजी शासक मिस्टर ऐलिसने अँगरेजों सेनाको लेकर रातोंरात पटना शहरपर आक्रमण कर दिया । नवाबके आदमियोंको पहलसे मालूम नहीं था कि इस प्रकार अचानक हमला होगा । वे लोग बेखबर पड़े-थे । अँगरेजोंने चहल सतूनको छोडकर दुर्गके हर एक स्थानपर

अपना अधिकार जमाया । शहरवालोंपर मनमाने अत्याचार किये । इस तरहकी लूटपाट हुई कि कई घरोंमें तिनका तक न बचा । नवाबको जब यह सूचना मिली तो उन्होंने तुरन्त पटनाके लिए सेना भेजी । अंगरेज इनके मुकाबलेमें ठहर न सके । नदी पार कर सारन होते हुए सुजा उद्दौलाके राज्यमें भागनेकी इन लोगोंने तैयारी की । परन्तु मार्गमें ही नवाबके आदमियोंसे इन लोगोंकी मुठभेड़ हुई । २००० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । औरतों और बच्चोंको तो इन लोगोंने मुक्त कर दिया । उन्हें नावोंपर रख कर कलकत्ता भेजवा दिया । परन्तु अन्य लोग मुँगेरमें कैद रखे गये ।

युद्धका श्रोगणेश एक प्रकारसे अंगरेजोंने कर ही दिया था । कलकत्ता कोसिलने भी लडाईको घोषणा कर दी । नवाबकी ओरसे भी तैयारियों की गयीं । एकके बाद दो, फिर तीन, लडाइयाँ हुई, किन्तु विजय लक्ष्मी नवाबसे अप्रसन्न थी । भाग्यने अंगरेजोंका साथ दिया । इतिहासकारोंने मीर कासिमकी पराजयको लेकर उनकी योग्यताकी खूब धज्जियाँ उडायी हैं । कहा जाता है कि नवाबने अपनी शक्तिका अनुमान किये बिना ही अंगरेजोंसे लडाई छेड़ दी, इसीसे उनकी हार हुई । परन्तु इतिहास कुछ और ही बतलाता है । नवाबकी पराजयका कारण उनकी सेनाकी अयोग्यता नहीं कही जा सकती । फतवाके युद्धमें नवाबकी सेनाकी जो हार हुई थी, उसका मुख्य कारण सेनापतियोंका पारस्परिक द्वेषभाव था । फतवाके युद्धक्षेत्रमें केवल मुहम्मद तक़ीयों सेनापति अपने सिपाहियोंको लेकर लडे थे । अन्य दो सेनाध्यक्ष जो इनकी सहायताके लिए

भेजे गये थे अपनी सेना-लिये तटस्थ रूपसे अलग पडे तमाशा देखते रहे । यदि सब लोग एक साथ मिलकर अंगरेजी सेनासे लडे होते तो इनकी पराजय असभव थी । सूतीके युद्धमें अंगरेज करीब करीब हार चुके थे । परन्तु अतमें भाग्यने पलटा रखा । आसुदौलाकी कायरता तथा समरु और मारऊरकी स्वार्थपरताने विचित्र उलट फेर उत्पन्न कर दिया । इन्हीं लोगोंकी असावधानीके कारण नवाबको सूतीके युद्धमें भी हार खानी पडी । उदवानालामें नवाब और अंगरेजोंके बीच अन्तिम युद्ध हुआ था । यहाँ पर मीर कासिमने सेनाका सघटन जिस ग्बुर्दीके साथ किया था उसे देखते हुए यह असभव था कि इनकी पराजय होसके । कोई ऐसा मार्ग ही न था जिससे होकर यह लोग नवाबपर आक्रमण कर पाते । केवल एक छोटा सा सुरग था, जिसका पता नवाबके एक सेनानायक नजीफखॉने लगाया था । यह नित्य रातको उसी मार्गसे जाकर अंगरेजोंपर धावा करता और फिर लौट जाता । अंगरेज तग आगये थे । उन्हें यह भी पता नहीं था कि इस तरहका कोई सुरग भी मौजूद है । परन्तु अन्तमें धोखा हुआ । कुछ दिनों पहले एक अंगरेज फूट कर नवाबकी सेनामें शामिल हो गया था । उसको इस सुरगका पता था । उसने जाकर सब हाल अंगरेजी सेनासे कह डाला । फिर क्या था, चुपकेसे अंगरेजोंने एक रात आक्रमण किया । सरकारी सेना नाचरगमें मस्त थी, उसे इस तरहके अचानक हमलेकी आशङ्का न थी । अंगरेजोंने चाजी मार ली । केवल एक व्यक्तिके विश्वासघातके कारण अंगरेजी सेनाकी विजय हुई और मीर कासिम पराजित हुए ।

उद्वानालाके युद्धके साथ साथ नज़ाबकी तमाम आशाएँ मिट्टीमें मिल गयीं । उनमें अब इतनी शक्ति न रही कि अंगरेजोंके विरुद्ध खड़े रह सकें । अब उन्हें सिवाय पीछे हटनेके और कोई उपाय न रह गया । मुँगेरसे वह अजीमा घादके लिए रवाना हुए । साथमें उन अंगरेज केलियोंको भी लेते गये जो पटनासे पराजित होकर भागते हुए पकड़े गये थे । अजीमाघादमें लाकर उन लोगोंको नवाबने मरवा डाला । प्रायः सब इतिहासकारोंने पटना हत्याकाण्डके लिए नवाब मोर कासिमको दोषी ठहराया है । वेरिज जैसे निष्पक्ष इतिहास लेखकने भी उक्त कार्यके लिए नवाबकी निन्दा की है । मिस्टर वानसीटार्टने बहुत मौकोंपर नवाबका साथ दिया था परन्तु यहाँपर वह भी लिखते हैं “अभोतक नवाबके साथ अंगरेजों द्वारा जो कुछ अत्याचार हुए हैं वे इस घृणित कृत्यसे धुल जाते हैं ।” शोक इस घातका है कि इस कृत्यके कारणोंपर विचार किये बिना ही नज़ाबपर क्रूरताका दोष आरोपित किया गया है । यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो अंगरेजोंने जैसा किया उसका उचित दण्ड पाया । चोरोंकी भाँति छिपकर रातके समय आक्रमण कर इन लोगोंने शहरपर अधिकार कर लिया । असहाय और निरपराध प्रजाको कष्ट पहुँचाया । मीर कासिमने तीन जिले अंगरेजोंके सिपुर्द किये थे, यह केवल इसलिये कि इनको आमदनीसे अंगरेजी सेना रखी जाय और वह समय पर नज़ाबकी रक्षा करे । परन्तु इनलोगोंने विश्वासघात किया, रक्षा ही भद्रक बन बैठे । स्वयं वानसीटार्ट महाशयने पटनापर अंगरेजोंका जो आक्रमण हुआ था उसको विश्वासघात कहा है । धीसवीं शताब्दीमें सत्तार उन्नतिके

शरण दी थी । अँगरेजोंको इस समय पता लगा था कि फ्रांसीसी लोग उनपर हमला करने वाले हैं । इसलिये उन्होंने कलकत्तेमें सिराजकी आज्ञाके बिना एक किला बनवाना भी आरम्भ कर दिया था । सिराजने जब यह सुना तो एक पत्र कलकत्तेको लिखा कि कृष्णवल्लभ लौटा दिये जायँ और अँगरेज लोग नये किलेको धराशायी कर दें । अँगरेजोंने सिराजुद्दौलाकी आज्ञाका उल्लंघन किया । अतएव नवाबने कलकत्तेपर हमला कर दिया । अँगरेज नवाबके विरुद्ध टिक न सके । वे लोग भाग खड़े हुए और उन्होंने फलता द्वीपमें शरण ली । कुछ दिनोंके पश्चात् मद्रासमें जब यह सूचना पहुँची तो वहाँसे क्लाइव और वाटसन सेना सहित भेजे गये । कलकत्तेके तत्कालीन सरकारी शासक मानिक्रचन्दके विश्वासघातसे कलकत्तेपर अँगरेजोंका पुनः अधिकार हो गया । इसके पश्चात् अलीनगरकी सन्धि हुई । इस सन्धिके अनुसार कलकत्ता अँगरेजोंको दे दिया गया । कलकत्तेपर आक्रमणके समय अँगरेजोंकी जो क्षति हुई थी नवाबने उसकी पूर्ति करनेका वादा किया । किला बनवानेकी भी आज्ञा अँगरेजोंको दे दी गयी । उन्होंने यह शपथ खायी कि वे राज्यमें शान्तिके साथ रहेंगे । बहुधा लोग आश्चर्यमें पड जाते हैं कि नवाबने अँगरेजोंके साथ ऐसी सन्धि क्यों की जो-सर्वथा उन लोगोंके ही अनुकूल थी । इसका कारण यह था कि सिराज यह बात ताड़ गये थे कि हमारे अफसर प्रकाश्यरूपसे हमारे पक्षमें भले हो, हों, पर वास्तवमें वे हमारे विरुद्ध हैं । ऐसी अस्थामें किसी तरह शान्ति स्थापित करना ही उन्होंने पहले आवश्यक समझा ।

अलीनगरकी सन्धि हो गयी । परन्तु अंगरेजोंने इसके अनुसार कार्य नहीं किया । इन लोगोंने चन्द्रनगरके फ्रांसीसियोंपर आक्रमण कर दिया । सिराज इससे बहुत रुष्ट हुए । उन्होंने मना किया परन्तु अंगरेज न माने । फिर सिराजने महाराज नन्दकुमारको अंगरेजोंके विरुद्ध चन्द्रनगरकी ओर भेजा, परन्तु नन्दकुमारने विश्वासघात किया । वह रिश्वत लेकर अंगरेजोंकी ओर मिल गये । चन्द्रनगरमें फ्रांसीसियोंको हार हुई । इधर अंगरेजोंने सिराजके विरुद्ध गुप्त मन्त्रणा आरम्भ की । एक पड्यन्त्र रचा गया जिसमें दरबारके कई प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिलित थे । तदनुसार यह तै पाया था कि सिराजुद्दौला राज्य च्युन किये जायँ और सेनापति मोर जाफरको राजगद्दी दी जाय । इसी पड्यन्त्रके फलस्वरूप सन् १७६४ (सन् १७५७ ई०) में पलासीका युद्ध हुआ ।

पलासी युद्धको युद्ध कहना ही युद्धको घटनाम करना है । वास्तवमें यह एक पड्यन्त्र था और हम इसको पलासी-पड्यन्त्र ही कह सकते हैं । सेनापति मोर जाफर और इनके अधीनस्थ और कई सरदार सेना लिये युद्ध क्षेत्रमें खड़े रहे । अंगरेजोंने बिना परिश्रम वाजी मार ली । सिराजुद्दौलाको युद्ध करनेका कोई सहारा न रहा । युद्ध क्षेत्रसे वह भाग पड़े हुए । उनकी इच्छा थी कि पटने जाकर रामनारायणकी सहायतासे तथा फ्रांसीसियोंको अपनी ओर मिलाकर पुन अपनी सत्ता स्थापित करें । यही सोच कर वह अपनी पत्नीको लेकर जल मार्गसे चल पड़े हुए, परन्तु रास्तेमें पकड़े गये । मोर जाफरके पुत्र मोरनने रातमें उन्हें मार डाला ।

पलासी युद्धके पश्चात् अंगरेजोंको यद्यपि किसी राज्य-की प्राप्ति न हुई तथापि बगालमें उनका सिक्का अच्छी तरह जम गया ।

२—मीर जाफर

पलासी युद्धके पश्चात् अंगरेजोंने मीर जाफरका नवाबकी मसनदपर बैठाया । अपने स्वामी सिराजुद्दौलाके साथ विश्वासघात करनेके पुरस्कार स्वरूप इन्हें नजामत-पद प्राप्त हुआ । परन्तु इस प्रतिष्ठाके कारण मीर जाफरके सुख और शान्तिकी वृद्धि नहीं हुई । सिंहासनासीन होते ही इन्हें कठिनाइयोंका सामना करना पडा । पलासी युद्धके पूर्व अंगरेजोंके साथ इनकी जो सन्धि हुई थी उसके अनुसार इन्होंने उन लोगोंको बहुतसा रुपया देनेका वादा किया था । वह तमाम रुपया अभीतक यह न दे पाये थे । अंगरेजोंके तकाजोंसे इनके नाकों दम हो गया था । सिराजुद्दौलाके विरुद्ध जो लोग पङ्क्यन्त्रमें सम्मिलित थे उनमें बहुतोंको यह आशा बनी हुई थी कि मीर जाफरके नवाब होते ही हमें बड़े बड़े पद प्राप्त होंगे । परन्तु उनके मनोरथ सिद्ध नहीं हुए । अतः मीर जाफरको उनके असन्तोषका भी भय था । इसके अतिरिक्ति सेनाका वेतन बहुत दिनोंसे बाकी था । उसमें विद्रोहकी अग्नि सुलग रही थी । मीर जाफरको इसकी अलग चिन्ता लगी

हुई थी । इसके अलावा रायदुर्लभसे भी मीर जाफरकी इस समय अनधन हो गयी थी । इधर तीन स्थानोंमें विद्रोह उठ खड़े हुए थे । अवधके नवाब शुजाउद्दौलाके आक्रमणका भी डर घना हुआ था । इस प्रकार मीर जाफर अनेक कठिनाइयोंसे घिरे थे । इस भयङ्कर स्थितिमें उनका सिर चकरा गया । उनमें इतनी शक्ति न रही कि इन कठिनाइयोंका सामना कर सकें । ऐसी अजस्थामें उन्होंने क्लाइवकी शरण ली ।

इस अवसरपर क्लाइवने बड़ी बुद्धिमत्तासे काम लिया । सन्धिको जो कुछ रुपया नवाब मीर जाफरसे प्राप्त करना था उसमें कुछ तो तत्काल ही मिल गया और शेषके लिए तकावी लिए दी गयी । तीन स्थानोंमें जो विद्रोह उठ खड़े हुए थे उन्हें भी क्लाइवने शान्त किया । राय दुर्लभके साथ मीर जाफरका मेल करा दिया । तनम्बाह न मिलनेके कारण सेना निश्चेष्टसी हो गयी थी, वह कुछ करनेको तैयार नहीं थी । क्लाइवने थोडासा रुपया दिला कर उसे कुछ समयके लिए शान्त किया । तत्पश्चात् वह मीर जाफरके साथ पटना जानेके लिए रवाना हुए । पटना जानेका मुख्य उद्देश्य यह था कि नवाब और अंग रेजोंके सम्मिलित सैन्यबलको दिखाकर शुजाउद्दौलाके हृदयमें भयका सञ्चार करें जिससे वह आक्रमण करनेका साहस न करें । दूसरा उद्देश्य यह भी था कि दिल्लीसे मीर जाफरके लिए सनद इत्यादि प्राप्त करें ।

यथासमय क्लाइव और नवाब मीर जाफर अपनी सेनाओंके साथ पटना पहुँचे । नवाबकी इच्छा थी कि रामनारायणको पदच्युत कर अपने किसी सम्बन्धीको उनके

स्थानपर नियुक्त करें । परन्तु क्लाइवने ऐसा होने न दिया । उन्होंने रामनारायणका पत्र ग्रहण किया । अतएव रामनारायण अपने पदपर स्थित रहे । कुछ ही दिनोंमें दिल्लीसे पत्र आये । मन्त्रिमण्डलने मीर जाफरको नवाब मान लिया और उनके लिए सनद और खिताब आदि भेजे । क्लाइवको मनसबदारी मिली । कुछ दिनोंतक पटनामें रहकर ये लोग मुर्शिदाबाद लौटे । मुर्शिदाबाद पहुँचनेपर इन्हें मालूम हुआ कि फ्रांसीसी लोग कारोमण्डलके किनारेपर उत्पात मचाये हुए हैं । अंगरेजोंको दो बार नाँचा भी देखना पडा । स्थिति शोचनीय थी । क्लाइवको यह बात भली भाँति मालूम थी कि यदि नवाबको अंगरेजोंकी स्थितिका पता लग जायगा तो उनके हृदयसे उन लोगोंका दबदबा बहुत कुछ कम हो जायगा । क्लाइवने यही सोचकर तत्काल यह खबर फेला दी कि अंगरेजोंने दो स्थानोंपर फ्रांसीसियोंको हराया है ।

क्लाइव कुछ दिनोंतक मुर्शिदाबाद रह कर कलकत्ते लौट आये । एक सप्ताहके भीतर इंग्लैंडसे एक परवाना पहुँचा जिसके अनुसार बंगालके अंगरेजी शासनके लिए दस आदमियोंको एक कमेटी नियत हुई । यह निश्चित हुआ कि चार प्रधान मेम्बर तीन तीन मास तक सभापतिके पदपर कार्य करेंगे । इस परवानेके अनुसार क्लाइवको शासनमें कोई अधिकार नहीं दिया गया । उनकी इच्छा हुई कि स्वदेश लौट जायँ । परन्तु नयी कमेटीके तमाम मेम्बरोंने सर्वसम्मतिसे क्लाइवको ही सभापति चुना । क्लाइव डाइरेक्टरोंके इस परवानेसे असन्तुष्ट थे । पहले तो उन्होंने सभापति होनेसे इनकार किया परन्तु जब हर

एक दलके तमाम अंगरेजोंने कमेटीके प्रस्तावका समर्थन किया तब उन्होंने सभापति होना स्वीकार किया ।

इधर मीर जाफरके दरबारमें तरह तरहके अत्याचार हो रहे थे । स्वार्थान्ध मन्त्रियोंके कारण मीर जाफरकी दुर्बलता और भी बढ़ती गयी । वह समझते थे कि पड़्यन्त्रके द्वारा हत्याओंका सहारा लेकर मैं अपना राज्यकार्य उचित रूपसे सम्पादित कर सकूँगा । क्रूरताके साथ उन्होंने बहुतोंका खून किया । सिराजुद्दौलाके परिवारके हर व्यक्तिको उन्होंने किसी न किसी, यहाने मरवा डाला । उनके कई इष्ट मित्रोंको भी मृत्यु-यत्रणा भोगनी पडी । जब मुर्शिदाबादका सिंहासन इन अत्याचारोंसे कम्पित हो रहा था तब इधर मीर जाफरके लिए एक नयी आफत उठ खडी हुई । दिल्लीश्वरके ज्येष्ठ पुत्र शाह आलमने बिहारपर हमला कर दिया । शाहजादेने विद्रोह कर दिया था और दिल्लीसे भागकर यहाँ आये हुए थे । मुजाउद्दौलाने भी इन्हें प्रोत्साहन दिया । इन्होंने कुछ आदमियोंको इकट्ठा कर पटनेपर घेरा डाल दिया ।

इस नयी विपत्तिसे मीर जाफर बहुत घबडा गये । सेना तो इनकी बिगडी हुई थी ही । धेतन न मिलनेके कारण सिपाहियोंने आगे बढनेसे इनकार किया । इन्होंने क्लाइवसे सहायता चाही । साढ़े चार सौ अंगरेज और पच्चीस सौ देशी सिपाहियोंको लेकर क्लाइव आगे बढे । इनके पहुँचनेके पहलेही पटनेके शासकने शाह आलमको हरा दिया था । शाहजादेकी तमाम कोशिशें व्यर्थ गयीं । इन्हें पीछे हटना पडा । गङ्गानदी इन लोगोंने पार की परन्तु वहाँ शरण न मिली । मुजाउद्दौला अब इनकी सहायताके लिए

तैयार नहीं थे । चारों ओरसे अपनेको असहाय पाकर शाह आलमने अंगरेजोंसे सहायता माँगी । परन्तु इधर दिल्लीसे मीर जाफरके पास इस आशयका पत्र आया था कि शाह आलमको गिरफ्तार कर लें । ऐसी स्थितिमें क्लाइव शाहजादेको शरण न दे सके । हाँ, 'उन्होंने कुछ रुपया उनके पास भेज दिया जिससे वह कहीं भाग जायँ ।'

इसमें सन्देह नहीं कि मीर जाफरको समय समयपर किसी भयङ्कर स्थितिके उपस्थित हो जानेपर अंगरेजोंसे सहायता मिलती थी । परन्तु वह उनके हस्तक्षेपसे तङ्ग आ गये थे । वह इस बातका अनुभव कर रहे थे कि बङ्गालका नवाब होते हुए भी मैं अंगरेजोंकी इच्छाका दास हूँ । उन लोगोंकी इच्छाके विरुद्ध कोई काम करना उनकी शक्तिके बाहरकी बात थी । मीर जाफरको सर्वदा यह चिन्ता बनी रहती थी कि अंगरेजोंकी शक्तिका कैसे हास हो । इसी अभिप्रायसे उन्हाने डच लोगोंके साथ एक गुप्त मन्त्रणा भी की थी । दोनों ओरसे सन्धि हुई । यह निश्चित हुआ कि डच लोग बङ्गालपर हमला करेंगे । तदनुसार डच जहाज यथासमय चल खड़े हुए, युद्ध हुआ और उसमें डचोंकी गहरी हार हुई । लडाईमें अंगरेजोंका जो नुकसान हुआ था उसकी पूर्ति डच लोगोंको करनी पड़ी । मीर जाफरको बड़ी निराशा हुई । अंगरेज लोग भी अब मीर जाफरसे पहलेकी अपेक्षा अधिक सशङ्क रहने लगे ।

इस बीचमें यह पता लगा कि शाह आलम पुनः बिहार-पर आक्रमण करनेकी तैयारीमें लगे हैं । इस बार बहुतसे जमीन्दारोंने भी शाह आलमका पक्ष ग्रहण किया था । अंगरेज सेनापति कालियाड ५ माघ (१८ जनवरी) को

मुर्शिदाबादसे पटनेके लिए रवाना हुए । मीरन भी एक बड़ी सेनाके साथ थे । इन लोगोंका उद्देश्य शाहजादेकी गतिका अवरोध करना था । इधर शाहजादा जब बिहार पहुँचे तो इन्हें मालूम हुआ कि इनके पिताका स्वर्गवास हो गया । प्रधान मन्त्रीने उन्हें कैद कर रक्खा था और बादको मरवा डाला । अब शाहजादेने स्वयं बादशाह पदको धारण किया । पटना पहुँचनेके पहले ही अँगरेज सेनापति मि० कालियाडने पटनेके शासक रामनारायणको लिख भेजा था कि जबतक हमलोग न आ जायें शाह आलमपर आक्रमण न करना । परन्तु इन्होंने यह बात न मानी और हमला कर दिया । परिणाम यह हुआ कि इनकी पराजय हुई और इन्हें पुनः पटना लौट आना पडा, इस बीचमें कालियाडकी सेना भी पटना पहुँच गयी । इन्होंने आगे बढ़कर शाह आलमपर हमला किया और पूर्ण विजय प्राप्त हुई । कालियाडकी इच्छा थी कि बादशाहका पीछा करें । परन्तु मीरनने सहायता न पहुँचायी । कालियाडने कुछ सवार मॉगे लेकिन मीरनने देनेसे इनकार किया । तौ भी मि० कालियाडने बादशाहका पीछा किया । मार्गमें मीर जाफर भी मिल गये । परन्तु इन्होंने भी कुछ सहायता न पहुँचायी । बादशाह साफ निकल गये और पटना लौट आये । वहाँ मिस्टर लाने* भी इनका साथ दिया । पुनः लडनेकी तैयारीमें यह लोग सलग्न हो गये, परन्तु कुछ सफलता प्राप्त नहीं हुई । इसी बीचमें मीरनका मृत्युकाल उपस्थित हुआ । एक घार रातको बडी अॉधी आयी ।

* यह एक फ्रांसीसी अकसर था ।

मीरनके रोमेमें विजली गिरो और उसके आघातसे वह मर गये । मीरन और मीर जाफरने कालियाडका साथ शाह आलमके विरुद्ध क्यों नहीं दिया इस बातसे शङ्का हो सकती है । कुछ इतिहासकारोंका ख्याल है कि दोनों पिता पुत्र शाह आलमके साथ पत्र-व्यवहार कर रहे थे । इन दोनों की इच्छा थी कि शाह आलमके साथ मिलकर अंगरेजोंकी शक्तिको चूर्ण करें । यह लोग चाहते थे कि बङ्गालसे अंगरेजोंका आधिपत्य नष्ट कर दिया जाय । खैर, जैसा कि पहलेही बतला दिया गया है, बादशाहको अपने उद्देश्यमें सफलता न हुई । बरसात आ गयी थी, अतः अंगरेज भी इस समय इनके विरुद्ध कुछ कर न सके । कुछ दिनोंके लिए यह लोग निश्चेष्ट बैठे रहे ।

मीर जाफरके लिए उनका पुत्र मीरन बड़ा भारी सहारा था परन्तु अब वह भी न रहा । मीरनकी मृत्युके पश्चात् मीर जाफरको अपनी अशक्तताका पूर्णरूपसे अनुभव हुआ । अपने पैरोंपर खड़ा होनेकी सामर्थ्य उनमें नहीं थी । मीरनके मरनेके बाद सेनामें बड़ी गडबडी फैली । सिपाहियोंका असन्तोष जो बहुत दिनोंसे जोर पकड़ रहा था अब उबल पडा । उन लोगोंने शाही महलोंको घेर लिया और मीर जाफरको मार डालनेकी धमकी-दी । नवाबकी जान सङ्कटमें पड गयी । उस समय मीर जाफरके दामाद मीर कासिमने उनकी जान बचायी । उन्होंने अपने पाससे थोडासा रुपया देकर और जिम्मेदारी स्वयं लेकर सिपाहियोंको शान्त किया ।

३—मीर कासिमका राज्याभिषेक

मीर कासिमके पूर्वजोंका इतिहास विशेष रूपसे मालूम नहीं है। केवल इतना ही ज्ञात है कि इनके पिताका नाम सैयद श्रीजी जा था। इनके दादा इमतियाज जा फारस-निवासी थे। यह अजीमावादमें दीवानी पदपर कार्यरत कर चुके थे। इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी चढ़ी थी अतएव मीर जाफरने अपनी पुत्रीका विवाह इनके-पोते मीर कासिमके साथ बड़ी प्रसन्नतासे कर दिया। परन्तु इस सम्बन्धसे आनन्दकी वृद्धि नहीं हुई, प्रत्युत पारस्परिक वैमनस्य और कलहका प्रादुर्भाव हुआ। मीरनकी दुष्ट प्रकृतिने अन्तिमें घृतका काम किया। मीर-जाफर अपने दामादसे बहुत जलते थे। दो बार तो पितापुत्रने मीर कासिमको मार डालनेका भी यत्न किया, परन्तु फल कुछ भी न हुआ।

मीरनकी मृत्युने नवाबका काया पलट कर दिया। अब उनमें शक्ति न रही कि वह राज्य-प्रबन्धका उचित रूपसे सम्पादन करें। मीरनसे राज्य कार्यमें उन्हें बहुत सहायता मिलती थी, किन्तु अब वह नि सहाय हो गये। ऐसी ही दृश्यामें मीर कासिमने एक बार सिपाहियोंसे नवाबकी रक्षा भी की। तबसे मीर जाफरका मन मीर कासिमकी ओर विशेष रूपसे आकृष्ट हो गया था। मीरनकी मृत्युके पश्चात् उन्हें अब एक नया अग्रलम्ब मिल गया। अब

अपने दामादको प्रसन्न रखना उन्हें आवश्यक प्रतीत हुआ । तदनुसार मीर कासिम पुरनिया और रगपुरके शासक नियुक्त किये गये । इसी समय कलकत्ता कौन्सिलके साथ एक विशेष मामला तै करनेकी आवश्यकता पड़ी । मीर जाफरको इस कार्यके लिए मीर कासिमसे अधिक योग्य व्यक्ति दिखलाई न पडा । तदनुसार यह कलकत्ता भेजे गये । वहाँ जाकर इन्होंने इतनी योग्यताके साथ अपना कार्य पूरा किया कि यह मीर जाफरके कृपापात्र बन गये । इस समयतक क्लाइव अपने देशको लौट गये थे । जाते समय वह मिस्टर वानसीटार्टको अपना उत्तराधिकारी नियत करते गये । उनके आनेतक वह कुल काम हालवेलको सौंपते गये । हालवेलने प्रत्यक्ष देखा लिया था कि अवस्था कैसी शोचनीय हो रही है । नवाब मीर जाफरको फजूल-खर्चीके कारण खजाना खाली हो रहा था । सेनाको तनख्वाह कई महीनोंसे नहीं मिली थी । इधर सन्धिकारूपया न मिलनेके कारण अंगरेजोंका कारोबार रुका हुआ था । हालवेलको यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि सूबेदारीमें कुछ आवश्यक परिवर्तन किया जाय । उनकी इच्छा थी कि मीर जाफरको पदच्युत करके कोई दूसरा योग्य व्यक्ति उनके स्थानपर नियुक्त किया जाय । वानसीटार्टके आ जानेपर जब हालवेल चार्ज देकर अपने देशको जानेके लिए तैयार हुए तो उन्होंने कौन्सिलके सामने उस समयकी सारी दुर्दशाका एक चित्र खींचा और उसको दूर करनेका उपाय बतलाया । आरम्भमें तो मिस्टर वानसीटार्टने वर्तमान अवस्थाका ही समर्थन किया परन्तु कुछ ही दिनोंमें उन्हें अपनी भूल मालूम हुई । अब उन्हें भी यह अनुभव

होने लगा कि वर्तमान शासन प्रणालीको बदलना आवश्यक है । पहले उन्होंने इस बातपर जोर दिया कि दिल्लीश्वरसे सन्धि कर ली जाय और नवाब मीर जाफर मुगल सरकारके मातहत होकर रहें, साथ ही वह इस बातके लिए मजबूर किये जायँ कि वह कुछ जिले सन्धिके रुपयोंके बदलेमें अंगरेजोंको दें, तथा अपने प्रबन्धमें सुधार और खर्चमें कमी करें ।

जिस समय इस विषयपर वाद विवाद हो रहा था उसी समय मीर जाफरकी ओरसे मीर कासिम नये गवर्नर को बधाई देनेके लिए तथा कुछ अन्य आवश्यक कार्यावश दूसरी बार फलकत्ते आये । मीर कासिम बड़े चतुर व्यक्ति थे * । वह थोड़ी ही देरमें अंगरेजोंकी वास्तविक अवस्था ताड गये । वह भली भाँति समझ गये कि अंगरेजोंको इस समय रुपयेका जरूरत है, इन्हें अपनी ओर मिला लेना कोई बड़ी बात नहीं है । बात ही बातमें उन्होंने वानसी-स्टार्टको राज्यकी तमाम बुराहया बतलायाँ, मीर जाफरके दोष दिखलाये, उनके मन्त्री चुक्रीलाल और मन्नालालकी शिकायत की, सेनाको दुरवस्थाका वर्णन किया, तथा इमारतोंके बनवानेमें जो अपज्यय हुआ था उसकी शिकायत की । मीर

* Meer Kassim being a man of very considerable ability and shrewdness well acquainted with the state of affairs and the opinions and views of the English he played his cards with such skill acknowledging the existance of the evils, of the administration pointing out their causes and the means of improvement and the obstacles to reform that he was looked upon as the fittest person to restore the efficiency of the government

कासिमने वे उपाय भी बतलाये जिनके द्वारा उचित रूपसे राज्य-प्रबन्ध किया जा सकता था । मिस्टर वानसीदाई पर इन बातोंका काफी प्रभाव पड़ा । उनको यह उचित जान पड़ा कि मीर कासिम अपने श्वशुर मीर जाफरके सहायक बनाये जायँ परन्तु तमाम अधिकार मीर कासिमके ही हाथमें रहे । उन्होंने अपनी इच्छा सिलेक्ट कमेटीके मेम्बरोंके सामने प्रगट की और उनकी राय पूछी । सिलेक्ट कमेटीके तमाम सदस्योंने एक मतसे उनका समर्थन किया । ११ आश्विन सवत् १२१७ (२७ सितम्बर १७६० ई०) को, सिलेक्ट कमेटीके साथ मीर कासिमकी सन्धि हुई । तदनुसार यह निश्चित हुआ कि 'मीर कासिम नवाब मीर जाफरके सहायक नियत हों और राज्यका समस्त प्रबन्ध उन्हींके हाथमें रहे । परन्तु जबतक मीर जाफर जीवित रहें तब तक नवाब कहलानेका गौरव मीर जाफरका ही प्राप्त रहे और उनके जीवन निर्वाहके लिए मीर कासिम उन्हें समुचित द्रव्य दिया करें । सन्धिके जो कुछ रुपया अंगरेजोंको मीर जाफरसे पाना था उसे मीर कासिम चुका दें । कम्पनी को नवाबकी रक्षाके लिए जो सेना रखनी पड़ती है उसके खर्चके लिए बर्दवान, मिदनापुर और चटगाँवके जिले उन्हें दे दिये जायँ । सिलहटमें जो चूना उत्पन्न होता है उसका आधा भाग बिना कर दिये कम्पनी खरीद सके । बादशाहके साथ दोनों दलोंकी रायके बिना कोई सन्धि न हो ।' और भी कई बातें तै हुई जिनका उल्लेख सन्धिपत्रमें नहीं किया गया, परन्तु वे भी मान्य समझी गयीं—नवाबको सेना, घटायी जाय और उसका नये सिरेसे सघटन हो, तथा मीर जाफरके मन्त्री सुशीलाल और मन्त्रीलाल जिन्होंने कर

वसुलीका तमाम प्रबन्ध अपने हाथमें ले लिया था, पदच्युत किये जायें । विलेन्ट कमेटीके सदस्योंके लिए भी पुरस्कार नियत हुए ।* वानसीटार्टको ५ लाख, हालवेलको २ लाख ७० हजार, समनरका २ लाख ५५ हजार, मेकगायरको २ लाख ५५ हजार, कालियाडको २ लाख, स्मिथका १ लाख ३४ हजार देनेकी प्रतिज्ञा मीर कासिमको करनी पड़ी । इसके पश्चात् मिस्टर वानसीटार्टने यह प्रस्ताव पेश किया कि मिस्टर हालवेल उन शर्तोंको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए कालियाडके साथ मुर्शिदाबाद जायें । यदि मीर जाफर शान्तिके साथ सुलहकी शर्त न मानें तो आवश्यकता पडनेपर बलप्रयोग भी करें और नवाब मीर जाफरको उन नियमोंको माननेके लिए बाध्य करें । हालवेलने मुर्शिदाबाद जानेसे इनकार किया । उनका कहना था कि अब मैंने स्वदेश लौटनेका निश्चय कर लिया है, इसके अतिरिक्त मिस्टर कालियाडकी अधीनतामें मुर्शिदाबाद जाने में मेरी अप्रतिष्ठा है । हालवेलके इनकार कर देनेपर वान-

*Nor were the personal interests of the members of the select committee forgotten though no precise stipulations appeared to have been made liberal presents were promised by Meer Kassim and notwithstanding an affection of reluctance in accepting them at his installation when in fact he was unable to provide the means they were considered as sums which he was pledged to pay when able and which before very long were actually paid These sums were as follows —

Vansittart	5 lacs	Holwell	2 lacs 70 thous.
Sumner	2 „ 55 thous	Mc guire	2 , 55 thous.
Calliaud	2 lacs	Smith	1 , 34 thous
Yorke	1 lac 34 thous		

सीटार्ट स्वयं मुर्शिदाबाद जानेको तैयार हो गये । ११ आश्विनको रात्रिके समय एक सभा हुई और उसमें मीर कासिमने सन्धिपर हस्ताक्षर किये । १३ आश्विनको मिस्टर वानसीटार्ट मुर्शिदाबादके लिए चल पड़े । २८ आश्विन (१४ अक्टूबर) को यह लोग मुर्शिदाबादके निकट पहुँच गये और मुरादबागमें इनका रोमा पड़ा । दूसरे दिन मीर जाफर इनसे मिलने आये । उस दिन कुछ विशेष कार्य न हो सका । कुछ देर बाद मीर जाफर लौट आये । ३० आश्विनको वानसीटार्ट भी नवाबसे जाकर मिल आये । दो दिन बाद नवाब स्वयं राज्यप्रबन्ध सम्बन्धी बातें करनेके लिए मुरादबागको गये । बातचीतमें पहले ही वानसीटार्टने नवाबके मन्त्रियोंके कुप्रबन्ध तथा राज्यमें अराजकताके प्रादुर्भावके सम्बन्धमें चर्चा की । फिर उन्होंने तीन पत्र नवाबको दिये और उनके द्वारा राज्यके तमाम दोषोंको प्रगट किया तथा उनके दूर करनेके साधन बतलाये । पहले पत्र का यह आशय था—

“पटनेकी अँगरेजी सेनाका चेतन कई माससे नहीं मिला है । तनख्वाह ही न मिलनेके कारण आपकी सेना भी असन्तुष्ट है । परमात्मा जानता है कि उस समय मुझे कितना दुःख हुआ था जब कि आपके महलोंको सिपाहियोंने घेर लिया था और आपका जीवन सङ्कटमें पड़ गया था । मैंने यह बात साफ देख ली कि अपना स्वार्थ साधनेके लिए मन्त्री लोग न्यायसे हाथ धो बैठे हैं । भोली भाली प्रजा अन्यायसे पीड़ित हो रही है । अन्न इतना महँगा हो गया है कि लोग दानोंको तरस रहे हैं । शाह आलमका फसाद अब तक समाप्त नहीं हुआ । आपके

हाथमें पटनेके किलेके अतिरिक्त बिहार प्रान्तका कोई भी भाग नहीं है । मैं यहा इस बातको प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि इन तमाम दोषोंको दूर करूँगा ।”

दूसरे तथा तीसरे पत्रोंमें निम्नलिखित विषयोंकी ओर मीर जाफरका ध्यान आकर्षित किया गया था—

“जब तक देशमें शान्ति स्थापित नहीं हो जाती तबतक आप कम्पनीका कर्ज नहीं चुका सकते । अंगरेजी सेनाको केवल एक लाख रुपया दिया जाता है । यह रुपया सेनाके खर्चके लिए यथेष्ट नहीं है । अतएव रुपयेकी तादाद बढ़ानी चाहिये । यह आवश्यक जान पडता है कि कुछ जमीन आप कम्पनीको सेनाके खर्चके लिए दे दें । यदि आप स्वयं अपना सारा काम नहीं सम्हाल सकते तो राज्यका सारा प्रबन्ध किसी और योग्य व्यक्तिको सौंप दीजिये और आप तमाम चिन्ताओंसे मुक्त होकर शान्तिके साथ जीवन व्यतीत कीजिये ।”

इन पत्रोंको पढकर मार जाफर बडे चिन्तित हुए । राज्यप्रबन्धके दोषोंको दूर करनेकी चिन्ता तो न मालूम थोडी देरके लिए कहीं चली गयी । उन्होंने अधिवेशन वही समाप्त कर देनेका यत्न किया और तुरन्त चलनेके लिए तैयार हो गये । परन्तु मिस्टर वानसीदाटके प्रार्थना करने पर वहीं भोजन भोगवानेके लिए विवश हुए । थोडी देरके बाद पुन दोनोंमें घातचीत शुरू हुई । मार जाफरने यह बात मान ली कि “अब मे वृद्धा हो गया हूँ । पुत्रके मर जानेके शोकसे मुझमें और भी असमर्थता आ गयी है । मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि अकेले तमाम कठिनाइयोंका सामना कर सकूँ ।”

धानसीटार्टने सम्मति दी कि आप अपने किसी सम्बन्धीसे सहायता लें तो अच्छा है । मीर जाफरने कई आदमियोंका नाम लिया जिनमें मीर कासिमका भी नाम था । गवर्नर वानसीटार्टने पूछा "आप इनमें सबसे अधिक योग्य किसको समझते हैं ?" नवाबने मीर कासिमको सबसे अधिक योग्य बतलाया । वानसीटार्ट तो नवाबसे यह कहना ही चाहते थे । उन्होंने मीर कासिमको बुलवानेके लिए मीर जाफरसे कहा । परन्तु वह इसके लिए अभी तैयार नहीं थे । उन्होंने कहा कि पहले मैं अपने मन्त्रियोंसे राय ले लेना चाहता हूँ । परन्तु वानसीटार्टने उन्हें मीर कासिमको बुलवानेके लिए धाध्य किया । अतः मीर कासिम बुलवाये गये । किन्तु उनके आनेके पहलेही मीर जाफर इतने परेशान हो गये कि वह ठहर न सके और वहाँसे चल दिये ।

जब मीर जाफर अपनी राजधानीको लौट रहे थे तब उन्होंने मार्गमें अपनी ही नावपर मीर कासिमको नदी पार करते देखा । उस समय मीर कासिम मुरादवागको जा रहे थे । मीर जाफरने इशारेसे उन्हें लौटनेको कहा । परन्तु उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया । सुनेको अनसुना कर दिया । मुरादवाग पहुँचनेपर वानसीटार्टने मीर जाफरके साथ जो कुछ बातचीत हुई थी सब मीर कासिमको कह सुनाई । मीर कासिमने कहा "अवस्था बड़ी शोचनीय हो रही है । नवाब अब मुझे चैन न लेने देंगे ।" वानसीटार्टने उत्तर दिया "मैं लाचार हूँ । अब कुछ नहीं कर सकता ।" इस प्रकार वानसीटार्टने मीर कासिमके साथ जो सन्धि हुई थी उससे उलट जाना चाहा । मीर कासिमको ठहरनेका

आदेश कर स्वयं भोजन करने चले गये । मीर कासिम पासके दूसरे कमरेमें चले गये । वहाँ उनके मित्र अली इब्राहिमहाँ बैठे हुए थे । उनके साथ उन्होंने परामर्श किया कि भविष्यमें क्या करना चाहिये । अली ईशा हमने सलाह दी कि "धानसीटार्टसे जो कुछ कहना है तुम कह डालो । यदि वह इसे स्वीकार न करें तो तुम बिना घर लौटे तमाम सेना और ड्रव्यादि यहीं मँगवा लो और गीरभूम चले जाओ । वहाँ जाकर तुम विद्रोह कर दो । सेनाका बहुत अधिक भाग तुम्हारे पक्षमें देखकर शाह और कमरतों भी तुम्हारा साथ देंगे । अतएव सम्भव है कि इस तरह भी तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हो जाय ।" * मीर कासिमने यह सलाह पसन्द की ।

भोजन करनेके उपरान्त गज़नूर धानसीटार्टने मीर कासिमको पुनः बुलवाया । मीर कासिमने धानसीटार्टको वास्तविक अवस्था बतलाई और कहा कि मेरा जीवन सङ्कटमें है । यदि पूर्व निर्धारित उपायका अवलम्बन न किया गया तो घुराइयोंके उत्पन्न होनेका भय है । धानसीटार्ट अलग कमरेमें जाकर कालियाड योर्क आदिसे बहुत देरतक परामर्श करते रहे । अन्तर्म यही निश्चित रहा

* All Ibrahim answered ' Tell Vansittart whatever is the matter and whatever you have to say If he does not consent then without going home again send for your troops and money hither and taking your departure from this place march towards Birbhoom and caution yourself there and act as one revolted As most of the troops are attached to you the emperor and Camcar Khan shall favour your views It is probable that even in this way your scheme may chance to succeed—Sayer Mutakherin Vol. II P 382-83

कि पूर्व निश्चित युक्तिके अनुसार ही कार्य किया जाय । मीर जाफरको एक रोजका समय और दिया गया कि पत्रोंपर विचार कर उसका उचित उत्तर दें । परन्तु मीर जाफरने कुछ भी जवाब नहीं दिया । वानसीटार्टको कुछ बलप्रयोग आवश्यक प्रतीत हुआ । यह तै हुआ कि ३ कार्तिक (२० अक्टूबर) को सूर्योदयके पहिले सेनाके साथ नवाबका महल घेर लिया जाय । मीर कासिमसे भी ससैन्य आनेको कहा गया । वानसीटार्टने कालियाडको एक पत्र भी मीर जाफरके लिए दिया । उसी समय किन्दूराम, मणिलालको एकडनेका भी प्रबन्ध किया गया । निर्दिष्ट समयपर कालियाडने सेनाके साथ आकर नवाबका महल घेर लिया । मीर कासिम वहाँ पहिलेसे ही उपस्थित थे । कालियाडने वानसीटार्टके पत्रको पहले नवाबके पास भिजवाया । मीर जाफर बहुत रष्ट हुए और लडनेको धमकियाँ देने लगे । समझानेका बहुत कुछ यत्न किया गया परन्तु फल कुछ भी न हुआ । अन्तमें अंगरेजों सेनाने जाकर फाटकपर धारूदकी आवाजें कीं । फाटकके भीतर जो सेना थी वह बन्दूककी आवाज सुनकर भाग खड़ी हुई । मीर जाफर उस समय निर-धलम्ब थे । 'उस समय उन्हें तीन वर्ष पहिलेका दिन याद आया होगा जब कि इन्ही अंगरेजोंके साथ मिलकर उन्होंने अपने अन्नदाता और सम्बन्धोंके विरुद्ध पड्यन्त्र करके सिंहासन प्राप्त किया था । उसी सिंहासनको आज उनका दूसरा सम्बन्धी उनसे छीननेका यत्न कर रहा था । पिछले तीन वर्षोंके कष्टोंके सामने शेष पचास वर्षोंके तमाम दुःख ठेके पड गये । अवश्य ही वह अपनी वर्तमान अवस्थाका

उस जमानेसे मुकाबला कर रहे होंगे जब कि पलासी युद्धमें सिराजुद्दौलाका साथ देकर वह यश प्राप्त कर सकते थे । जिन अंगरेजोंने कई बार उनके साथ निष्ठुरताका व्यवहार किया था और जो आज उन्हें पदच्युत करनेकी धमकियाँ दे रहे थे उन लोगोंके विनाशमें यदि वह सहायक हुए होते तो आज उन्हें वास्तविक शक्ति प्राप्त होती, उनका नाम आदरणीय होता और उनका देश स्वतन्त्र रहता । आज जब मीर जाफरने पलक उठाकर देखा तो उनके सामने अंगरेज सैनिक महल घेरे खड़े थे । जितना सौजन्य उन्होंने सिराजुद्दौलाके साथ दिखलाया था क्या उससे अधिक सौजन्य या सहानुभूतिकी आशा आज वह मीर कासिमसे कर सकते थे ?* नवाब मीर जाफरको अब भली भाँति विदित हो गया कि समय हमारे अनुकूल नहीं है । वह नाममात्रको नवाब रहना नहीं चाहते थे । मीर कासिमके पास उन्होंने लिख भेजा कि मे मुहर और राज्यके अन्य समस्त चिह्न तुम्हारे पास भेज रहा हूँ । परन्तु राज्यका तमाम भार तुम्हें अपने ही ऊपर लेना होगा । तुम्हें ही सेनाकी शेष तन्त्राह देनी पड़ेगी । मेरी जान और सम्मानकी रक्षा भी तुम्हें करनी होगी, और, इसके अलावा, मेरे निर्वाहके लिए यथेष्ट प्रवन्ध भी करना पड़ेगा । मीर कासिमने ये सब बातें मान लीं । मीर जाफर महलसे बाहर निकल आये । सेनाने तमाम फाटकोंपर कब्जा कर लिया । गवर्नरको जब यह समाचार मिला तो वह भी घटनास्थलपर आ पहुँचे । मीर जाफरने कहा "मुर्शिदाबादमें मे अब क्षण भर भी नहीं ठहर सकता ।

मेरा जीवन यहाँ सङ्कटमें रहेगा । मैं कलकत्ता जाना चाहता हूँ ।” रात भर भी वह मुर्शिदाबाद न उठ सका । मीर कासिमने नावोंका समुचित प्रबन्ध करा दिया । मीर जाफर बहुत दिनोंसे इकट्ठा किया हुआ अपना सारा धन साथ लेते गये । वानसीटार्टने उनकी रक्षाके लिए उनके साथ कुछ अंगरेज और देशी सिपाही कर दिये । रात्रिको वह नावपर मुगदवागके पास ही रहे और तीसरे दिन कलकत्तेके लिए रवाना हो गये ।


३ कार्तिक (२० अक्तूबर) को यह विचित्र परिवर्तन घटित हुआ । मीर कासिम मसनदपर बैठाये गये । वानसीटार्टने सम्मान प्रदर्शित किया और भेंटादि प्रदान की । शहरके तमाम प्रतिष्ठित व्यक्तियोंने आकर मीर कासिमकी अधीनता स्वीकार की । ‘सन्ध्यातक ऐसी शान्ति हो गयी मानो अवस्था पूर्ववत् ही रही हो और किसी प्रकारका कोई परिवर्तन हुआ ही न हो ।’ †



* Mir Jafar assembled leisurely those treasures and inestimable gems and jewels that had been hoarded up for ages together by several ancient families and princes Sayer Mutakherin Vol I P 386

† In the evening everything was as perfectly quiet as if there had been no change —Extracts from Mr Vansittart's letter to the Select Committee, 21st October, 1760

४—कलकत्ता-कौंसिलमें मतभेद ।


 थ बंगालके नवाब पदसे मीर जाफर हटा
 दिये गये और उनके स्थानपर मीर फासि
 मका राज्याभिषेक हो गया, तब गवर्नर
 वानसीटार्टने निम्नलिखित आशयका एक
 घोषणा पत्र प्रकाशित किया—

“मीर जाफर बड़े ही निर्दयी और लोभी थे । साथ
 ही वह आलसी भी पहले दर्जेके थे । उनके स्वार्थान्ध मन्त्री
 आपलस थे । इनके कारण उनकी दुर्बलताकी और भी वृद्धि
 होती गयी । इन दुष्टोंके रहते राज्य प्रबन्धमें किसी प्रकार
 का सुधार होनेकी सभावना न थी । मीर जाफर समझते
 थे कि पड़्यन्त्रके द्वारा हत्याका सहारा लेकर मैं अपना
 राज्यकार्य उचित रूपसे सम्पादन कर सकूंगा । इसके
 अनेक प्रमाण हैं । उन्होंने कूरताके साथ घुतुतोंका खून
 किया । उनमें कुछ प्रधान नामोंका यहाँ उल्लेख किया
 जाता है । (१) मीर फासिम—यह बरशी थे । मीरनने
 इन्हें अपने घर निमन्त्रित कर मरवा डाला । (२) अब्दुल
 घहाब याँ नवाबकी आज्ञासे सवत् १८१६ के चैत्र
 (१७६० के मार्च) महीनेमें मार डाले गये । (३) यार-
 मुहम्मद—यह सिराजके मित्र थे । सवत् १८१७ के वैशाखमें
 मीरनके सामने इनका वध किया गया । इनके अतिरिक्त
 घसीटी वेगम, मुरादुहौला, लतीफुन्निसा वेगम और उसको
 पुत्रीका भी वध किया गया । इस प्रकारके अन्याययुक्त

वर्धोसे तमाम प्रतिष्ठित पुरुष मीर जाफरसे घृणा करने लगे थे । नीच प्रकृतिके मनुष्योंने देखा कि इस तरहकी सरकार बहुत दिनोंतक स्थिर नहीं रह संकती । अतएव वे लोग ग़रीब प्रजापर अत्याचार कर धन सग्रह करने लगे । बहुत अधिक कर लगा देनेके कारण अन्नादि वस्तुएँ बहुत ही महँगी हो गयीं । इस दुरवस्थाके मुख्य कारण मुन्नीलाल और चुन्नीलाल हैं । इन्हीं लोगोंके कारण मीर जाफर व्यर्थके आमोद प्रमोदमें पड़े रहें । राजानेमें रुपया बिलकुल नहीं आया । सेनाका वेतन तक नहीं दिया गया । एक बार सैनिकोंने महलोंको घेर लिया था और मीर जाफरको मार डालनेकी धमकियाँ भी देने लगे थे । मीर कासिमने उस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व लिया और अपने पाससे रुपया देकर उन्हें शान्त किया । परन्तु मीर जाफरके आचार-व्यवहारमें इस घटनासे भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ । वह उसी तरह आलसी बने रहे और आमोद-प्रमोदमें लिप्त रहे । ऐसी दुर्घटना पुनः एक बार हुई । मीर जाफरको इसकी आशङ्का पहलेसे ही थी । परन्तु उनमें शक्ति न थी कि उसको रोक सकें ।

“मीर जाफरके समयमें, सारे राज्यमें अराजकता फैली रही । युद्ध-क्षेत्रमें जो दो सेनाएँ थीं वे शाहजादेका साथ देनेका सुअवसर ढूँढ रही थीं । वीरभूमका राजा इस तैयारीमें था कि मुर्शिदाबादपर हमला करें । विष्णुनपुर, रामगढ़ और अन्य प्रदेशोंके राजा भी अपनेको नवाबसे स्वतन्त्र करनेपर तुले हुए थे । उन्होंने वीरभूमके राजाको यथाशक्ति सहायता की । तमाम राज्यमें शीघ्र विद्रोह होनेकी आशङ्का थी । इन विद्रोहियोंको दवानेमें केवल सेना

ही संमर्थ हो सकती थी परन्तु उसे तो वेतन ही न मिला था अतएव उससे किसी प्रकारकी आशा करना फजूल था ।

“बंगालका प्रत्येक व्यक्ति, जो यहाँके राज्य सम्बन्धी विषयोंसे परिचित है, स्वीकार करेगा कि मैं यह तमाम बातें अक्षरशः सत्य कह रहा हूँ । मने पहले यत्न किया कि ये दुष्ट मन्त्री बरखास्त दिये जायें परन्तु जब मैंने देखा कि नवाब ऐसा करनेको तैयार नहीं है तब मुझे इस बातके लिए विवश होना पडा कि किसी अन्य योग्य व्यक्तिको नवाब पदपर प्रतिष्ठित करूँ ।”

उक्त घोषणासे शीघ्र ही सबको मालूम हो गया कि अब मीर कासिम बंगालके नवाब हैं । साधारणतः बंगालकी जनताको इस परिवर्तनसे आनन्द हुआ । कष्टसे पीडित प्रजाको शान्ति और सुखकी आशा बँधी । हाँ, कलकत्ता-कांसिलके कुछ सदस्योंको यह बात अवश्य बुरी मालूम हुई । कलकत्ता कांसिलमें मिस्टर आमियाट नामके एक सदस्य थे जिनका पद क्लाइवके वाद सबसे बडा था । उन्हें आशा थी कि क्लाइवके वाद में ही बंगालका गवर्नर होऊँगा । परन्तु उनकी आशा पूर्ण नहीं हुई । उनके रहते हुए मद्राससे वानसीटार्टको बुलाकर वह पद दिया गया । आमियाटको यह बात बहुत बुरी मालूम हुई । तबसे उन्होंने हर उचित या अनुचित मामलेमें वानसीटार्टका विरोध करनेका निश्चय कर लिया । इस अभिप्राय से उन्होंने अपना एक अलग दल ही संघटित कर लिया । इस दलके सदस्योंका उद्देश्य यही था कि वानसीटार्टके हर कार्यमें अडचन डाली जाय । यही कारण है कि जब मीर कासिमको नवाब पद दिया गया तो उन्होंने इसका विरोध

किया । इस दलके प्रधान सदस्य मिस्टर एलिस, स्मिथ, वेरेलस्ट, आदि थे । इन लोगोंने एक विज्ञप्ति प्रकाशित करायी । उसमें यह दर्शाया गया कि “नवाब मीर जाफरके पदच्युत करनेके सम्बन्धमें सिलेकृ कमेटीकी काररवाई बोर्डकी रायके बिना हुई है । सिलेकृ कमेटीके लिए इस तरहका मनमाना काम करना अनुचित है । नवाबको राज्य-प्रबन्धसे अलग कर हम लोगोंने उस सन्धिको तोड़ डाला जो उनके साथ हुई थी । इस तरहके विश्वासघातसे हम लोग बदनाम होंगे और हमारा प्रभुत्व इस देशसे नष्ट हो जायगा ।”

यथासमय मिस्टर वानसोटार्टने इस विज्ञप्तिका उत्तर प्रकाशित कराया । स्मिथ और वेरेलस्टके निराधार दोषा-रोपणपर इन्होंने आश्चर्य प्रगट किया । बोर्डकी राय न लेनेके सम्बन्धमें जो दोष इनके मत्थे मढ़ा गया था उसके विषयमें इन्होंने लिखा कि बोर्डकी राय इस कारणसे न ली गयी कि इस विषयको गुप्त रखना ही श्रेयस्कर समझा गया । अगर यह बात प्रगट हो जाती तो सफलताकी सम्भावना न थी । सिलेकृ कमेटी ऐसे ही अवसरोंके लिए बनायी गयी है ।

मिस्टर वानसोटार्टकी विज्ञप्तिके उत्तरमें मिस्टर आम्बियाटने एक अलग वक्तव्य प्रकाशित कराया जिसका आशय यह था—“घोषणा-पत्रमें मीर जाफरको पदच्युत करनेके सम्बन्धमें जो कारण बताये गये हैं वे यथेष्ट नहीं हैं । मीर जाफर द्वारा कुछ अनुचित कार्य अत्रश्य हुए हैं परन्तु जहाँ एक-व्यक्ति-प्रधान शासन है वहाँ ऐसे दोष अनिवार्य हुआ करते हैं । हम लोगोंको इस बातपर विचार करना

चाहिये था कि दिल्लीश्वरने मीर जाफरको नवाब मान लिया था । परन्तु मीर कासिमके लिए स्वीकृति मिलनेमें कठिनता होगी और खर्च भी बहुत होगा । घोषणापत्रमें यह भी दर्शाया गया है कि आरम्भमें हम लोग मीर कासिमको मीर जाफरका केवल सहायक बनाना चाहते थे । यह भी मिथ्या है । सन्धि-पत्रसे विदित होता है कि मीर कासिम नवाब बनना चाहते थे । यह इसीसे स्पष्ट है कि मीर कासिमने कम्पनीको तीग जिले देनेका वादा किया था । भला नायब होते हुए उनको ऐसा करनेका क्या अधिकार था ? इसके अतिरिक्त मीर कासिम जत्र अपने श्वशुरके वफादार न हो सके तो हम लोग उनसे क्या आशा रख सकते हैं ?”

वानसीटार्ट, कालियाड तथा सिलेकू कमेटीके अन्य सदस्योंने जिनकी रायसे मीर कासिम नवाब बनाये गये थे आमियाटकी इस विवक्षितिका भी यथोचित उत्तर दिया । उनके उत्तरका सारांश यह है—

“यदि आमियाटकी विवक्षितिकी ध्यानपूर्वक समालोचना की जाय तो सत्सरको हमारे कार्यसे भ्रममें पड जानेकी सम्भावना है । अगस्त तथा सितम्बरके मासमें जब सिलेकू कमेटी देशको विपत्तिजनक अवस्थापर विचार कर रही थी उसी समय मीर जाफरके विरुद्ध काफी प्रमाण मौजूद थे जिनके आधारपर वह अपने पदसे हटाये जा सकते थे । मीर जाफरके साथ जो सन्धि हुई थी उसके द्वारा यह भी तै हुआ था कि हमारे शत्रु उनके भी शत्रु हैं । परन्तु उन्होंने डच लोगोंको हमारे विरुद्ध आक्रमण करनेके लिए प्रोत्साहित किया । उस समय यदि हम लोग भी उनसे

अपना सम्बन्ध त्याग देते तो उनका नाश अनिवार्य था । मीरनकी मृत्युके पश्चात् एक मीर कासिम ही ऐसे रह गये थे जो राज्यका तमाम प्रबन्ध समुचित रूपसे कर सकते थे । परन्तु मीर जाफर इस बातके लिए तैयार ही न थे कि मीर कासिम उनकी ओरसे राज्य प्रबन्ध करें । अतएव ऐसी दशामें उनको राज्यच्युत करनेके अतिरिक्त और किया ही क्या जा सकता था ? मीर कासिम पहलेसे ही सूबेदार होना चाहते थे, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु मीर जाफरके जीवन कालमें नहीं । उस समय वह नायब बन कर रहनेमें ही सन्तुष्ट थे । हाँ, मीर जाफरकी मृत्युके पश्चात् उन्हें नवाब बननेकी आशा अवश्य थी । रह गया कम्पनीके लिए जिलोंके देनेका प्रश्न । सो, यदि मीर कासिम नायब भी रहते तो भी नवाबपर अपना प्रभाव डालकर कम्पनीके लिए उन जिलोंको दिला सकते थे । अब हमें देखना यह है कि मीर कासिमके नवाब होनेसे लाभ क्या हुआ । पटनेकी अंगरेजी सेनाके लिए यथेष्ट धनकी व्यवस्था हो गयी । पाँच लाख रुपयोंकी सहायता भी मिली । सबको मानना पड़ेगा कि पूर्व नवाब कम्पनीको इतना लाभ नहीं पहुँचा सकते थे । मुगल सम्राट्की स्वीकृति प्राप्ति की कठिनाईका वर्णन आमियाटने किया है । इसका विचार करना अब निरर्थक है । उक्त स्वीकृतिका अब कोई महत्व नहीं रहा । यह भी ठीक ठीक पता नहीं कि इस समय मुगल-सम्राट् कौन है और भविष्यमें कौन हागा ।”

इस प्रकार मीर कासिमके राज्याभिषेकके सम्बन्धमें कलकत्ता कौंसिलके सदस्योंके दरमियान कुछ दिनोंतक वाद-विवाद जारी रहा । आमियाटने अपने दल सहित

भरसक चेष्टा की कि वानसीटार्टकी बात न रहे । परन्तु इस समयतक वनसीटार्टका ही दल कौंसिलमें अधिक सरयामें मौजूद था अतएव ग्रामियाटके किये कुछ भी न हो सका । बहुमतने कलकत्ता-कौंसिलने सिलेकृ कमेटीके निश्चयका ही समर्थन किया ।

५—राजधानीमें शान्ति-स्थापना ।

मीर कासिम अंगरेजोंकी सहायतासे ही नवाब हुष इसमें सन्देह नहीं, परन्तु वह उन लोगोंके श्रेणी होना नहीं चाहते थे । उन लोगोंकी अधीनतामें रहना, उनके आज्ञानुसार चलना, उनके हाथोंका खिलौना बनना, उन्हें स्वीकार नहीं था । उनकी प्रकृति अपने स्वशुरसे बिलकुल भिन्न थी । नवाब होते ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अपने घरका स्वामी सत्य होकर रहूँगा । उन्हें अपने प्रबन्धमें अंगरेजोंका हस्तक्षेप पसन्द नहीं था । मीर जाफरकी तरह वह अंगरेजोंपर विश्वास करनेको भी तैयार नहीं थे । 'वास्तवमें वह बहुत शीघ्र उन लोगोंसे शृणा करने लगे । ऐसा करनेका उचित कारण भी था, क्योंकि जैसे व्यवहारका परिचय कलकत्तेकी अंगरेजी सरकारने मीर कासिमके समयमें दिया था । उससे घटकर नीच तथा निर्लज्ज व्यवहारका उल्लेख ससारके किसी भी राष्ट्रके इतिहासमें नहीं मिलता । इस जुद्ध व्यवहारका एक मात्र कारण धनकी कृष्णा थी । किसी भी नीचसे नीच

बुटियोंका पता लगानेके लिए सीतारामको नियुक्त किया । दीवानखानेका हिसाब जाँचनेपर बहुत रूपयोंका गबन निकला । इस बातका भी पता चला कि चुन्नीलाल और मुन्नीलाल प्रजाका धन खा खा कर मालामाल हो गये हैं । मीर कासिमके आदेशानुसार ये दोनों कैद कर लिये गये और जो कुछ धन जनतापर अत्याचार करके तथा चुराकर इन लोगोंने इकट्ठा किया था वह जप्त कर लिया गया । इस प्रकार नवाब मीर कासिमको यथेष्ट धनकी प्राप्ति हुई ।

बचपनसे ही नवाब अलीवर्दीके परिवारसे मीर कासिमका सम्बन्ध था । यह मीर जाफरके दामाद थे और मीर जाफरकी सौतेली बहिनका विवाह अलीवर्दीसे हुआ था । उसीकी सिफारिशसे मीर कासिमको सेनामें एक छोटी जगह मिल गयी थी । उसी समयसे तमाम दफ्तरोंमें जानेका अवसर मीर कासिमको प्राप्त होने लगा था । तभीसे वह अफसरोंके घरोंपर भी आया जाया करते थे । इन लोगोंसे मीर कासिमका विशेष रूपसे मेल-जोल हो गया था और इन लोगोंके स्वभावसे भी वह भली-भाँति परिचित हो गये थे । यही कारण है कि इन लोगोंकी चेह्रमानियोंका पता लगानेमें उन्हें विशेष कष्ट नहीं हुआ । इन लोगोंका हिसाब जाँचा गया और पापकी कुल कमाई जप्त कर ली गयी । दीवानखानेके वहाँ-खातोंसे मालूम हुआ कि अन्त-पुरमें काम करने वाली कुछ औरतोंके सिपुर्द बहुतसा, जवाहरात, सोना तथा अन्य सामान किया गया था । पहले तो इन स्त्रियोंने अपनी अनभिज्ञता प्रगट की परन्तु जब डरायी धमकायी गयीं तो ये सब राहपर आ गयीं । कुल सामान इन्हें लौटाना पडा ।

पुराने कर्मचारियोंमें एक राजा जगत्सिंह थे । इन्होंने बहुत कालतक जानकीराम और दुर्लभरामकी मातहतमें काम किया था । नौकरीके दिनोंमें इन्होंने बहुतसा धन उपार्जन किया था । वृद्ध होनेके कारण यह राज्य-कार्यसे अलग हो गये थे । जब इन्होंने देखा कि समय अनुकूल नहीं है तो अभी तक जो कुछ धन अनुचित उपायों द्वारा इन्होंने संग्रह किया था उस सबकी एक सूची तैयार की और कुल द्रव्य नवाबके पास भेज दिया । जगत्सिंहकी सच्चाईसे मीर कासिम बड़े प्रसन्न हुए और इन्हें वह सर्वदा सम्मानकी दृष्टिसे देखते रहे । जगत्सिंह द्वारा मीर कासिमको अच्छी रकम हाथ लगी ।

इधर नवाबने अपना निजी खर्च भी घटा दिया । बहुत सी फजूलपरिचर्या केवल प्रथाके कारण बहुत दिनोंसे चली आती थीं । भेट, बुलबुल, हिरन इत्यादि केवल तमाशेके लिए रक्षे जाते थे । नवाबने इन सबको ब्रेच डाला । इस ढंगसे भी यथेष्ट धनकी प्राप्ति हुई । सेनाकी जो तनख्वाह गेप रह गयी थी उन्होंने दे डाली । सन्धिके अनुसार श्रंगरेजोंको जो कुछ रुपया देना रह गया था उसका भी दो तिहाई उन्होंने तत्काल ही दे डाला । साथ ही सिलेकू कमेटीके सदस्योंका पुरस्कार भी दे डालनेके लिए वह तैयार थे । परन्तु उस समय उन लोगोंने छेनेसे इनकार किया और कहा कि राज्यकी व्यवस्था जब ठीक हो जायगी तब हम अपना पुरस्कार प्रसन्नतापूर्वक ले लेंगे । यह धन नवाबने थोड़े ही दिनों बाद उन्हें दे दिया ।*

* Notwithstanding the reluctance in accepting them at his instigation they were before very long actually paid — Broome

इस प्रकार हम देखते हैं कि थोड़े ही समयमें राजधानीका तमाम प्रबन्ध नवाब मीर कासिमने ठीक कर दिया । सैनिकोंका वेतन अब महीनों बाकी नहीं रहता था । हर महीने वे लोग अपना वेतन पा जाया करते थे । राज्यके तमाम मुहकमे यथोचित रूपसे कार्य करने लगे । राजधानीमें अब पूर्ण शान्तिका निवास था । मीर जाफरके समयमें राज्यके प्रजा-जन दुःखित थे । लालची मन्त्रियोंके अत्याचारोंसे उनका जीवन कष्टमय और असह्य हो गया था । अब वे सुख और शान्तिके साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे । किसीमें अब यह साहस न था कि उन्हें किसी प्रकारका कष्ट पहुँचा सके । चारों ओर शान्ति और सुखका साम्राज्य था ।

६-जमीन्दारोंका दमन ।



राजधानीमें तो शान्ति स्थापित हो गयी परन्तु राज्यके अन्य भागोंमें अभी तक गडबडी मची हुई थी । चारों ओर अराजकताका साम्राज्य था । बिहार प्रान्त तो केवल नाम मात्रके लिए नवाबके अधीन रह गया था । पटना दुर्ग और चहलसतूनके अतिरिक्त तमाम प्रान्त उनके हाथसे निकल चुका था । कमकर खाँ दिल्लीश्वरके साथ मिल कर उत्पात मचा रहे थे । अबसर पाकर यहाँके जमीन्दार भी प्रबल हो उठे थे । सरकारी खजानेमें मालगुजारी देना

इन लोगोंने एकदम वन्द कर दिया था । साथ ही लूटपाट मचाना भी आरम्भ कर दिया था । यही हाल बगालका भी था । मीर जाफरकी अव्यवस्थासे लाभ उठा कर यहाँके जर्मीन्दारोंने भी अपना सर ऊँचा किया और शक्तिशाली बन बैठे । चारों ओर अशान्तिका प्रकोप हो उठा था । जब नवाय मीर कासिमने राजधानीमें अमन और शान्ति पूर्ण रूपसे कायम कर ली तो उनका ध्यान इस ओर भी आकर्षित हुआ । पहले उन्होंने यही निश्चय किया कि जर्मीन्दारोंकी शक्तिको चूर्ण करें और उन्हें अपने बसमें करें ।

इन दिनों बगालमें सबसे प्रबल जर्मीन्दार बोरभूमके राजा थे । इनके पास एक बड़ी सेना थी । यह स्वयं भी अपनी शरताके लिए प्रख्यात थे । पहले बोरभूमके जर्मीन्दार वदीउज्जमा खाँ थे । यौवन कालमें अपने समय का अधिकांश इन्होंने भोगविलासमें ही व्यतीत किया था । इसीसे अपनी रियासतका सारा प्रबन्ध इन्होंने अपने पुत्र अलीनकी खाँके जिम्मे कर रखा था । अलीनकी खाँ अभी पूर्ण यौवनको प्राप्त ही हुए थे कि शीघ्र ही वह इस सत्तारसे चल बसे । इस असामयिक दुर्घटनासे वदीउज्जमाके शोकका धारपार न रहा । राज्य का सारा प्रबन्ध अपने दूसरे पुत्र वासिदजमा खाँको सौंप वह स्वयं फकीर हो गये । इन्हीं दिनोंमें मीर कासिमको बगालकी सूबेदारी मिली । नवायको इस समय रुपयेकी बड़ी आवश्यकता थी । अतएव उन्होंने वासिदजमा खाँसे मालगुजारीके अतिरिक्त और भी कुछ रुपया माँगा । परन्तु वासिदने रुपया देनेसे इनकार किया । इसी बहानेसे मीर कासिमने बोरभूमपर चढ़ाई की ।

नवाबने मुर्शिदाबादसे दस कोसकी दूरीपर बदायूँ नामक स्थानपर पडाव डाला । यहाँसे रवाजा मुहम्मदी खाँको वीरभूमके राजाके विरुद्ध सेना लेकर आगे भेजा । मेजर योर्कको अधीनतामें एक अँगरेजी सेना भी वहाँ भेजी गयी । रवाजा मुहम्मदीको यह आज्ञा थी कि वह सेना लेकर आगे बढ़े और यदि संभव हो तो अँगरेजोंके पहुँचनेके पहले ही युद्ध समाप्त कर दे । उधर वासिदजमाँ खाँने अपने पिताको राजधानीका कारोबार देखनेके लिए छोड़ दिया और स्वयं पाँच हजार घोड़सवार और बीस हजार पैदल सेना लेकर आगे बढ़े । करीआ नामके स्थान पर उन्होंने अपना पडाव डाला और आस पासके रास्ते, घाटियों और पहाड़ियोंमें शत्रुओंकी बाढको रोकनेके लिए सेना तैनात कर दी ।

नवाबकी जो सेना रवाजा मुहम्मदीके अधीन भेजी गयी थी उसने उनके आदेशका पालन नहीं किया । वह आगे बढ़कर शत्रुके मुकाबलेमें लड़ी न रह सकी । अँगरेजी सेनाने वासिदकी फौजपर आक्रमण किया । लड़ाई बहुत देरतक न हुई । थोड़ी ही देरमें अँगरेजोंने शत्रुदलके बहुतसे आदमियोंको मार गिराया । इस प्रकार वासिद जमाँकी सेनाकी हार हुई । मीर कासिम विजयी हुए परन्तु इसी युद्धसे उन्हें अपनी कमजोरी भी विदित हो गयी । उनकी एक बड़ी सेना खड़ी खड़ी मुँह देखती रही और केवल थोड़ेसे अँगरेज सिपाहियोंने उनका पक्ष ग्रहण कर वासिदके सिपाहियोंको नीचा दिखाया । मीर कासिम ने इसी समय यह अनुभव किया कि हमें भी अपनी सेना को अँगरेजी ढगपर सवटित करनेकी आवश्यकता है ।

घोरभूमके राजाको परास्त करनेके पश्चात् नवाबका ध्यान कुछ अन्य आवश्यक कार्योंकी ओर आकर्षित हुआ । सम्राट्के साथ युद्ध समाप्त हो चुका था और सन्धिकी बातचीत हो रही थी । नवाबको अजीमाबाद जाना पडा और वहाँ उन्हे कुछ दिनोंतक रुकना पडा । जब सम्राट् विहार प्रान्तसे चले गये और विहारमें शान्ति स्थापनके लक्षण दिखाई देने लगे तो उन्होंने वहाँके जमींदारोंकी भी परवर लेनी चाही । उन्होंने दरवारमें प्रान्तके मुख्य मुख्य जमींदारोंको बुलवाया । कमरुखान्को जय सरकारी परवाना मिला तो वह बड़े भयभीत हुए । उन्होंने बहुत दिनोंसे मालगुजारीका रुपया नहीं चुकाया था । इसके अतिरिक्त नवाबके पिलाफ उन्होंने दिल्लीश्वरका साथ दिया था । उन्हें भय था कि दरवारमें उपस्थित होनेपर कहीं हमारी खबर न ली जाय । इसी डरसे उन्होंने सरकारी आक्षेपी श्रवहेलना की । वह अपनी सेनाके साथारामगढ की पहाडियोंको चले गये और वहाँ छिप रहे । कमरुखके अतिरिक्त दो मुख्य जमींदार बुनियादसिंह और फतहसिंह थे । इन लोगोंने सरकारी आक्षाका पालन किया । ये तुरन्त अजीमाबादके लिए चल खडे हुए और वहाँ पहुँचने पर गिरफ्तार कर लिये गये । फुलबनसिंह आदि शाहाबादके जमीन्दारोंकी भी दरवारमें तलबी थी । इन लोगोंने राज्यमें बड़े उत्पात मचाये थे और प्रजापर बहुत अत्याचार किये थे । अतएव इन्हें दरवारमें आनेका साहस नहीं हुआ । मोर कासिमने पहले तो अपने भतीजे अलीखान्को कमरुखान्का प्रदेश अधिकारमें करनेके लिए भेजा । तत्पश्चात् फुलबनसिंह आदि जमींदारोंको दण्ड देनेके लिए

सहसराम और शाहाबाद जानेके लिए स्वयं प्रस्तुत हो गये । फुलवनसिंह आदि जमींदारोंका मीर कासिमके विरुद्ध बहुत देरतक ठहरना असम्भव था । इन लोगोंने गङ्गा नदी पार की और गाजीपुर शुजाउद्दौलाके राज्यमें भाग गये । नवाबने इन लोगोंकी जमींदारियोंपर अधिकार कर लिया और अपने तहसीलदार और फौजदार उनकी देखरेखके लिए मुकर्रर कर दिये ।

इस प्रकार नवाब मीर कासिमने जमींदारोंकी शक्ति बहुत कुछ चूर्ण कर दी । मीर कासिम अपने मनमें जमींदारोंसे बहुत कुढ़ते थे । मालूम होता है कि इस समय इन लोगोंके प्रति आमतौरसे घृणाके भाव लोगोंमें मौजूद थे । सैर उल मुताप्परीनके लेखक सैयद गुलाम हुसैनने एक जगह इन लोगोंकी बड़ी निन्दा की है । वह एक जगह लिखते हैं—“जमींदार बड़े विश्वासघाती, अदूरदर्शी और नमकहराम होते हैं । जरा भी घात लगी कि ये लोग अपने स्वामीको पीठ दिखाने और उत्पात मचानेके लिए तैयार हो जाते हैं ।” जो हो उस समय तो जरूर ही ये लोग शासनकी निर्बलता और अराजकतासे लाभ उठा कर बड़े शक्तिशाली बन बैठे थे । इनके उत्पातसे राज्यके लिए शान्ति असम्भव सी हो गयी थी । मीर कासिमने इन लोगोंको नीचा दिखाया । इन लोगोंने कई छोटेमोटे किले भी बनवा डाले थे । उन सबको नवाबने धराशायी करवा डाला ।

७—शाह आलमसे सन्धि ।



म द्वितीय अध्यायमें लिख चुके हैं कि वर्षा ऋतुका आरम्भ हो जानेके कारण अंगरेजी सेना पटनेमें कुछ दिनोंके लिए निश्चेष्ट पडी रही । दिल्लीश्वर और मिस्टर लाके विरुद्ध वह कोई भी कार-रवाई न कर सकी । जब वर्षा समाप्त हो गयी तो, अंगरेजी सेना शहरके बाहर आयी । यह निश्चय हुआ कि मिस्टर ला और कमकरणाके साथ मिल कर शाह आलम जो उत्पात मचाये हुए हैं वे शान्त किये जायें । शहरके बाहर जाफरखां बागमें इनका पडाव पडा । सेनापति मिस्टर चारनाकने रामनारायण तथा राजवल्लभके पास समाचार भेजा कि वे भी अपनी फौजोंके साथ आकर सम्मिलित हों । परन्तु इन दोनोंने चारनाकका साथ नहीं दिया और टालमटोल करते रहे । अतएव अंगरेजी सेना अकेले ही आगे बढ़नेके लिए प्रस्तुत हुई । चारनाकने नवाबके पास एक आदमी बदायूँको भेज दिया जहाँ वह इस समय बीरभूमके राजासे लडनेमें व्यस्त थे ।

इस समय बादशाह शाह आलम गयामानपुरमें थे । वहाँ चारनाक अपनी सेनाके साथ पहुँच गये । दोनों दलों में युद्ध हुआ । मिस्टर ला अपनी थोडी सी सेना और तोपोंके सहारे अंगरेजोंके साथ बडी बहादुरीसे लडते रहे । परन्तु विजयलक्ष्मी अंगरेजोंसे ही प्रसन्न थी । कमकरखाँ

तो मैदानसे भाग पड़े हुए । चादशाहको भी जब कुछ होते दिखाई नहीं दिया तो वह भी चल पड़े हुए । यह हाल देखकर मिस्टर लाके साथ जो थोड़ी सी सेना बची थी वह भी भाग पड़ी हुई । ला इस समय युद्धक्षेत्र में श्रकेले थे, परन्तु लडनेसे उन्होंने मुँह नहीं मोडा । वीर ताके साथ वह डटे ही रहे । मेजर चारनाकको जब यह हाल मालूम हुआ तो वह अपनी रक्षाका कुछ प्रबन्ध किये बिना ही अपने सेनानायकोंके साथ उस शोर बढे । मिस्टर लाके निकट पहुँच कर सब लोगोंने सिरसे टोप उतार लिया और उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया । मिस्टर लाने भी उसी भाँति टोप उतार कर सलामका उत्तर दिया । इसके बाद मिस्टर चारनाकने लाकी बहादुरी, उनके साहस और दृढताकी प्रशंसा की और कहा “एक वीर मनुष्यसे जो कुछ आशा की जा सकती थी वह सब आपने कर दिखाया । इतिहासमें आपका नाम अमर हो कर रहेगा । अब कृपया मियानमें अपनी तलवार रख लीजिये । हम लोगोंने सम्मिलित हो जाइये और अंगरेजों के साथ लडनेका विचार छोड दीजिये ।” *

मिस्टर लाने उत्तर दिया “यदि आप यह बात स्वीकार करें कि मे जिस अवस्थामें हूँ उसीमें आत्म समर्पण करूँ तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु शत्रुहीन होकर आत्म समर्पण करनेको मैं तैयार नहीं हूँ ।

* You have done everything that could be expected from a brave man and your name shall undoubtedly be transmitted to posterity by the pen of history now loosen your sword from your loins come amongst us and abandon all thoughts of contending with the English, Sayer ul Mutakherin, Vol II 401

इस प्रकारकी आत्मग्लानि सहन करनेमें मैं असमर्थ हूँ ।” मेजर चारनाकने यह स्वीकार कर लिया । इसके बाद मिस्टर लाने आत्मसमर्पण किया । मेजर चारनाकने अपने अन्य अफसरोंके साथ मिस्टर लासे हाथ मिलाया । विचारे ला अग्र कर ही फ्या सकते थे । यथाशक्ति वह अंगरेजोंका मूलोच्छेद करनेके निमित्त निरन्तर चेष्टा करते रहे । समय समयपर उन्होंने अपनी वीरताका अलौकिक परिचय दिया । परन्तु अब वह निराश्रय थे, अतः अब अधिक कुछ करनेमें असमर्थ थे ।

युद्ध समाप्त होनेके पश्चात् चारनाकने शिताबराय द्वारा दिल्लीश्वरके पास यह सन्देश भेजा कि हम आपके साथ शान्ति स्थापित करना चाहते हैं और आपने मिलनेकी भी इच्छा रखते हैं । परन्तु शाह आलमने हमी नहीं भरी । उन्हें अभी कमरलोंकी आशा बनी हुई थी । वह समझते थे कि उनकी सहायतासे घणिकोंको हम उनकी उद्वेगिताका मजा चखायेंगे । उन्हें पता नहीं था कि इस समय अंगरेजोंका काफी सघटन है और हमारा मददगार इस अवसरपर वास्तवमें कोई नहीं है । ऐसी अवस्थामें अंगरेजोंको नीचा दिखाना टेढ़ी खीर है । विचारे शाह आलम को यह कहीं मालूम था कि वह दिन अब बहुत दूर नहीं है जब मुगल साम्राज्यका जर्जरित दुर्ग भूतलशायी हो जायगा और यही वरिष्क जाति समस्त भारतवर्षकी अधी-

*The other answered that if they would accept of his surrendering himself just as he was he had no objection but that as to surrendering himself with the disgrace of being without his sword it was a shame he would never submit to

श्वर घन बैठेगी । उन्होंने शिताबरायसे साफ साफ कह दिया कि हमें सन्धि स्वीकार नहीं है । उक्त उत्तर देते समय बादशाहने शायद यह सोचा होगा कि बादशाह और साधारण प्रजामें सन्धि कैसी, सन्धि तो बराबरोके आदमियोंमें होती है । शिताबरायने विदा होते समय यह भविष्यद्वाणी की थी कि “जिस सुलहको आज आप ठुकरा रहे हैं उसीके लिए आप एक दिन स्वयं प्रार्थना करेंगे, पर वह न मिलेगी और यदि अंगरेज सुलहके लिए तत्पर हुए भी, तो वे उतनी रियायत करनेके लिए तैयार न होंगे जितनीके लिए वे आज तैयार हैं ।” बादशाहके हृदयपर इन बातोंका तनिक भी प्रभाव न पडा । शिताबराय अपने कार्म्यमें असफल होकर लौट आये ।

इसी समय दिल्लीमें एक विचित्र परिवर्तन हुआ । शाही किलेपर मराठोंका अधिकार हो गया और उन लोगोंने शाहजहाँ नामक एक बालकको, जिसे वर्जार उमाद उल-मुल्कने गद्दीपर बैठाया था, कैद कर लिया । मराठे चाहते थे कि दिल्लीपर अपनी विजयपताका फहरा कर हम अवध आदि प्रदेशोंको भी विजय करें और फिर बगालमें आकर अंगरेजोंसे टक्कर लें । वे चाहते थे कि हम समस्त भारत-वर्षके एकमात्र शासक हों । इसी दरमियानमें अहमदशाह अब्दालीने भारतपर आक्रमण किया । पानीपतके मैदानमें घमासान युद्ध हुआ । सुजाउद्दौला, नजीबउद्दौला, हाफिज रहमत खॉ आदि समस्त मुसलमान सरदारोंने अब्दालीका साथ दिया । मराठोंकी गहरी हार हुई । नौ महीनेतक दिल्लीमें रहकर अहमद शाह अपनी राजधानीको लौट गया । विदा होते समय वह सुजाउद्दौला तथा अन्य मुस-

लमान सरदारोंको यह ताकीद करता गया कि शाह आलमको राजगद्दी देना और उन्हें अपना सम्राट् स्वीकार करना । तदनुसार शाह आलमको लानेके लिए शुजाउ-दौला घगालकी सीमा तक गये । वहाँसे इन्होंने शाह आलमके पास पत्र भेजा और दिल्ली लौटनेकी प्रार्थना की । यह पत्र बादशाह शाह आलमको इन्हीं दिनोंमें मिला । दिल्ली लौटना उनके लिए परम आवश्यक था । वह अधिक दिनों तक नहीं ठहर सकते थे । यद्यपि उन्होंने शितायरायको लौटा दिया था परन्तु थोड़ी ही देर बाद उन्हें अपनी भूल मालूम हुई । उन्हें यह बात भी मालूम हो गयी कि कमकरखॉसे सहायताकी आशा रखना बेकार है । अतएव उन्होंने एक पत्र लिख कर फिर शितायरायको बुलवाया । शितायराय मेजर चारनाकसे आशा लेकर बादशाहके पडावको फिर वापस आये । वहाँ यह निश्चित हुआ कि मेजर चारनाक बादशाहसे आकर मिलें ।

शितायरायके लौटनेके पश्चात् बादशाहने अंगरेजी सेनाके पास ही अपना पडाव डाला । अगला दिन अंगरेजी सेनापतिसे भेंटके लिए निश्चित हुआ । हाथीपर सवार होकर बादशाह आगे बढ़े । उधरसे मेजर चारनाक अन्य सेनापतियोंके साथ आध कोसकी दूरीपर आते दिखाई दिये । वहाँसे मेजर अपने घोड़ेसे उतर पडे । उन्होंने अपना टोप माथेसे अलग कर लिया और उसी अवस्थामें पैदल ही बादशाहकी ओर बढे । दिल्लीश्वरने अंगरेजी सेनापति चारनाकको घोड़ेपर सवार होनेकी आज्ञा दी । तदनुसार मेजर अपने घोड़ेपर सवार हो गये और बादशाहके साथ साथ चले । गयासे टेढ कोसकी दूरीपर

जमुनी नदीके किनारे इन लोगोंने अपना पडाव डाला । मेजरकी प्रार्थनासे शाह आलम कुछ और आगे बढ़े और गया शहरके निकटवर्ती एक बागमें ठहरे । कुछ ही देरमें मेजर चारनाक अपने सेनानायकोंको लिये हुए रामनारायण, राजवल्लभ और अन्य कर्मचारियोंके साथ बादशाहके खेमेमें आये । सब सम्राट्के सामने ताजीम बजा लाये और नजराना दिया । दूसरे दिन बादशाहने गयामें पडाव डाला । दो दिन विश्राम करनेके पश्चात् सब लोग अजीमा बादकी ओर बढ़े । सम्राट् दक्षिणकी ओर मतीपुरकी भीलके पास ठहरे । अंगरेजोंका पडाव बाँकीपुरमें पडा । रामनारायण शहरको गये और राजवल्लभने जाफरखॉके बागमें डेरा डाला ।

बादशाहके साथ अंगरेजोंकी सन्धि हो गयी, इसका समाचार नवाब मीर कासिमको भी बहुत शीघ्र मिल गया । बदगाँवमें अब वह अधिक न ठहर सके । उन्हें अजीमाबाद आना पडा । शहरके पास ही सेनाके साथ उन्होंने पडाव डाला । नवाबके आगमनकी सूचना जब रामनारायण और राजवल्लभको मिली तो वे लोग तत्काल उनसे मिलने आये और सम्मान प्रगट किया । थोड़ी देर बाद रामनारायण तो दुर्गको लौट गये परन्तु राजवल्लभने वहीं अपना पडाव डाल दिया । उपयुक्त समय पाकर अंगरेज सेनापति चारनाक भी नवाब मीर कासिमसे मिले । चारनाककी इच्छा थी कि नवाब और बादशाह दोनोंका परस्पर साक्षात्कार होजाय । परन्तु नवाब बादशाहके पडावमें जाकर उनसे मिलनेके लिए तैयार नहीं हुए । अन्तमें यह निश्चित हुआ कि अंगरेजी फौजमें बादशाहका दरवार हो और वहीं

मीर कासिम आकर बादशाहकी ताजीम बजा लायँ और उनकी अधीनता स्वीकार करें ।



नियत दिनको अंगरेजोंने अपना फैकुरी सजायी । छोटी मोटी चेश्मोंको जोड़जाड़ कर तख्त बनाया गया । वही आकर बादशाहने आसन जमाया । तख्तकी बाई और दाहिनी ओर अंगरेज पड़े थे ।

बादशाहने मेजर चारनाकको बैठ जानेकी आज्ञा दी । मेजरने सलाम कर उक्त आदेशका पालन किया । घण्टे भर बाद नवाब मीर कासिम भी उपस्थित हुए । उन्होंने बड़े सम्मानके साथ तीन बार झुककर सलाम किया और एक हजार एक अशकियाँ भेंट कीं । बादशाहने नजर स्वीकार की । तत्पश्चात् नवाबको उन्होंने खिलत दिया । खिलत लेकर नवाबने तीन बार पुन सलाम किया और दूसरे कमरेको चले गये । वहाँपर अंगरेज अफसरोंके साथ बादशाहको सालाना मालगुजारी देनेके सम्बन्धमें वादविवाद हुआ । अन्तमें यह निश्चित हुआ कि नवाब मीर कासिम बादशाहको चौबीस लाख रुपया मालगुजारी सालाना दिया करेंगे । अंगरेजोंसे सलाम कर बादशाहने यह मालगुजारी स्वीकार कर ली । फिर दरबार घरखास्त हुआ ।

कुछ दिनोत्तर बादशाह पठनेमें ही ठहरे रहे, फिर दिल्लीके लिए रवाना हुए । करमनासा नदी पार करते ही गुजाउदालासे मुलाकात हुई । वह वहाँ पहुँचेसे ही बादशाहके आगमनकी राह देख रहा था । वहाँसे दोनों आगे बढ़े । यथासमय बादशाह अपनी राजधानी पहुँच गये ।



८—रामनारायणको दण्ड ।


 दि
 
 दीश्वरके चले जानेके बाद नवाब मीर कासिमका ध्यान रामनारायणकी ओर आकर्षित हुआ । नवाब अलीवदीके समयमें जैनउद्दीन पटनाके शासक थे । राम नारायण इन्हींके नायब थे । बादको विद्रोही अफगानों द्वारा जैनउद्दीन मार डाले गये । तबसे राम नारायणको ही पटना प्रान्तका शासन-भार सौंपा गया । जब मीर जाफर नवाब हुए तो इन्होंने तमाम हिन्दुओंको कुचल डालनेका निश्चय किया । रामनारायणको भी राज्य प्रबन्धसे अलग करनेकी इनकी इच्छा थी । परन्तु क्लाइवने रामनारायणका पक्ष ग्रहण किया, अतः वह अपने पद-पर ही स्थित रहे और अंगरेजोंके भरोसे धीरे धीरे राज्यका कार्य स्वच्छन्दतापूर्वक करने लगे । अन्तमें एक प्रकारसे वह स्वतन्त्र ही हो गये ।

नवाब मीर कासिमने तो नवाब होते ही यह निश्चय कर लिया था कि अपने राज्यमें मैं शान्तिकी स्थापना करूँगा । अपने किसी भी अफसरकी उच्छृङ्खलता और कुप्रबन्धको सहन करनेके लिए वह तैयार नहीं थे । ज्योंही दिल्लीश्वरसे उन्हें छुट्टी मिली रामनारायणकी खबर लेनेका उन्होंने निश्चय किया । उन्होंने तत्काल कलकत्ता कौंसिलको एक पत्र लिखा और प्रार्थना की कि रामनारायणसे पिछले वर्षोंका हिसाब लेनेकी आज्ञा दी जाय ।

नवाबने आज्ञा प्राप्तिके लिए अपने प्रतिनिधि स्वरूप* सैयद गुलाम हुसैनको कलकत्ता भेजा । यह तो पहले ही बतला दिया गया है कि वानसीटार्टके आनेके पश्चात् कलकत्ता कौंसिलमें दो दल हो गये थे । वानसीटार्टके प्रत्येक कार्यका विरोध करना मि० आमियाटने अपना कर्तव्य समझ रक्ता था । यह देखकर कि वानसीटार्टने नवाब मोर कासिमका पक्ष लिया है, आमियाटको नवाबके विरुद्ध रामनारायणका पक्ष लेना आवश्यक प्रतीत हुआ । सैयद गुलाम हुसैन जब कलकत्ता पहुँचे और मि० आमियाटसे अपने आनेका उद्देश्य प्रकट किया तो उन्होंने जवाब दिया —“यह आपको भली भाँति मालूम है कि रामनारायणके साथ मेरी घनिष्टता नहीं है, उनके हानि लाभकी मुझे तनिक भी परवा नहीं है, परन्तु वानसीटार्टसे मेरी अनघन है और उन्होंने मोर कासिमका पक्ष ग्रहण किया है, अतएव मेरे लिए यही उचित है कि उनके विरोधमें मैं राम नारायणका साथ दूँ ।” † आपसकी इस तनातनीके कारण कुछ दिनोंतक नवाबको रामनारायणके विरुद्ध किसी तरहकी कार्रवाई करनेकी आज्ञा प्राप्त न हुई ।

इन्हीं दिनोंमें जनगल कूट पटनेमें अंगरेजी सेनाके सेनापति होकर आये थे । इन्होंने ही क्लाइवकी आज्ञासे

* Sayed Ghulam Hussain the author of Sayer Mutakherin

† He (Amjatt) spoke to me one day You know very well that I had never any particular attachment to Ramnarayan but as Mr Vansittart promoted Mir Kassim and has declared himself his protector so it behoves me in consequence of that settled jealousy that subsists between us to side with Ramnarayan Sayer Mutakherin Vol II 416

मिस्टर लाजा बम्सरतक पीछा किया था । बादको यह अपने देशको चले गये थे । इस वार फिर हिन्दुस्तानमें अंगरेजी सेनाके अध्यक्ष पद पर नियुक्त होकर लौटे थे । ७ वैशाख (२२ अप्रैल) को मिस्टर कूट पटनेके लिए रवाना हुए । चलते समय सिलेकू कमेटीकी तरफसे इन्हें निम्नलिखित आदेश दिये गये थे—

(१) नवाबकी सरकारसे हम लोगोंका जो कुछ पावना रह गया है उसे प्राप्त करनेका यत्न कीजिये ।

(२) नवाबको हर तरहकी उचित सहायता देते रहिये ।

(३) नवाब और रामनारायणके पारस्परिक कलहको दूर करनेकी कोशिश कीजिये और रामनारायणका नवाबके द्वारा कोई अनिष्ट न हो इसका ख्याल रखिये ।

रामनारायण समयपर चूकनेवाले मनुष्य नहीं थे । अवसर पाकर मिस्टर कूटको उन्होंने अपने पक्षमें मिला लिया । नवाबकी तरफसे उनके हृदयमें बुरे बुरे विचार उत्पन्न कर दिये । वानसीटार्टने नवाबको पहले ही लिख दिया था कि आप मिस्टर कूटके साथ मित्रताका व्यवहार करें । नवाबने उक्त आदेशका पूर्ण रूपसे पालन किया, परन्तु कूटने सर्वदा इसके विपरीत आचरणका अवलम्बन किया । वह नवाबके साथ किसी भी उचित कार्यमें सहयोग करनेको तैयार नहीं थे, वरन् नवाबका अनिष्ट करनेपर ही वह तुले हुए थे । हर तरहसे वह नवाबको नीचा दिखाना चाहते थे । शहरके फाटकोंपर अंगरेजी सिपाहियोंका पहरा बैठा दिया गया और नवाबके आदिमियोंको भीतर बाहर आने जानेकी मनाही हो गयी ।

नवाबने कूटके पास एक पत्र लिख कर निवेदन किया कि सिपाही फाटकोंसे हटा लिये जायें परन्तु मिस्टर कूटने इसपर ध्यान न दिया, उल्टे विगड पड़े हुए और कहा कि मैं नवाबसे अब किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखूँगा, फाटकसे सिपाही नहीं हटाये जा सकते, नवाबको मेरी आज्ञाओंका पालन करना पड़ेगा ।

मिस्टर कूटका सहारा पाकर रामनारायणका दिमाग और भी बढ गया था । नवाबको अब अधिक फठिनाई पडी । उन्होंने कलकत्ता कांसिलको रामनारायण और कूट दोनोंकी शिकायत लिख भेजी । रामनारायणके सम्बन्धमें उन्होंने लिखा कि इसकी शरारत नित्य प्रति बढती जा रही है और मेरे कारोबारका सत्यानाश हो रहा है । कलकत्ता कांसिलने कूटको आदेश किया कि आप राम नारायण और नवाबका झगडा पञ्चायतसे तै कर दें । कूटने कांसिलकी आज्ञाओंका पालन नहीं किया, वहाने आदि में ही तमाम समय ढाल दिया । नवाबने यह इच्छा प्रगट की कि रामनारायण हिसाब ठीक होनेतक मुञ्चल रहे । उसे पदच्युत करनेकी बात तो दूर रही, कूट इसके लिए भी तैयार न थे कि हिसाब किताब साफ हो । इस प्रकार समय व्यतीत होता गया । नवाबके लिए सुख स्वप्न सा हो गया ।

रामनारायणको सर्वदा यहाँ चिन्ता रहती थी कि किस तरहसे नवाबका सर्वनाश हो । झूठी झूठी खबरोंसे वह सर्वदा नवाबके विरुद्ध मिस्टर कूटके कान भरता था । एक दिन उसने मिस्टर कूटका यह खबर दी कि कलकत्तेके नवाब अंगरेजी सेनापर हमला करेंगे । मिस्टर कूटने

मिस्टर लाका बम्सरतक पीछा किया था । बादको यह अपने देशको चले गये थे । इस वार फिर हिन्दुस्तानमें अंगरेजी सेनाके अध्यक्ष पद पर नियुक्त होकर लौटे थे । ७ वैशाख (२२ अप्रैल) को मिस्टर कूट पटनेके लिए रवाना हुए । चलते समय सिलेकू कमेटीकी तरफसे इन्हें निम्नलिखित आदेश दिये गये थे —

(१) नवाबकी सरकारसे हम लोगोंका जो कुछ पावना रह गया है उसे प्राप्त करनेका यत्न कीजिये ।

(२) नवाबको हर तरहकी उचित सहायता देते रहिये ।

(३) नवाब और रामनारायणके पारस्परिक कलहको दूर करनेकी कोशिश कीजिये और रामनारायणका नवाबके द्वारा कोई अनिष्ट न हो इसका ख्याल रखिये ।

रामनारायण समयपर चूकनेवाले मनुष्य नहीं थे । अबसर पाकर मिस्टर कूटको उन्होंने अपने पक्षमें मिला लिया । नवाबकी तरफसे उनके हृदयमें बुरे बुरे विचार उत्पन्न कर दिये । वानसीटार्टने नवाबको पहले ही लिख दिया था कि आप मिस्टर कूटके साथ मित्रताका व्यवहार करें । नवाबने उक्त आदेशका पूर्ण रूपसे पालन किया, परन्तु कूटने सर्वदा इसके विपरीत आचरणका अवलम्बन किया । वह नवाबके साथ किसी भी उचित कार्यमें सहयोग करनेको तैयार नहीं थे, वरन् नवाबका अनिष्ट करनेपर ही वह तुले हुए थे । हर तरहसे वह नवाबको नीचा दिखाना चाहते थे । शहरके फाटकोंपर अंगरेजी सिपाहियोंका पहरा बैठा दिया गया और नवाबके आदिमियोंको भीतर बाहर आने जानेकी मनाही हो गयी ।

नवाबने कूटके पास एक पत्र लिख कर निवेदन किया कि सिपाही फाटकसे हटा लिये जायँ परन्तु मिस्टर कूटने इसपर ध्यान न दिया, उल्टे बिगड खडे हुए और कहा कि मैं नवाबसे अब किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखूँगा, फाटकसे सिपाही नहीं हटाये जा सकते, नवाबको मेरी आज्ञाओंका पालन करना पडेगा ।

मिस्टर कूटका सहारा पाकर रामनारायणका दिमाग और भी बढ गया था । नवाबको अब अधिक कठिनाई पडी । उन्होंने कलकत्ता कांसिलको रामनारायण और कूट दोनोंकी शिकायत लिख भेजी । रामनारायणके सम्बन्धमें उन्होंने लिखा कि इसकी शरारत नित्य प्रति बढती जा रही है और मेरे कारोबारका सत्यानाश हो रहा है । कलकत्ता कांसिलने कूटको आदेश किया कि आप राम नारायण और नवाबका झगडा पञ्चायतसे तै कर दें । कूटने कांसिलकी आज्ञाओंका पालन नहीं किया, वहाने आदि में ही तमाम समय टाल दिया । नवाबने यह इच्छा प्रगट की कि रामनारायण हिसाब ठीक होनेतक मुअ्तल रहे । उसे पदच्युत करनेकी बात तो दूर रही, कूट इसके लिए भी तैयार न थे कि हिसाब किताब साफ हो । इस प्रकार समय व्यतीत होता गया । नवाबके लिए सुप स्वप्न सा हो गया ।

रामनारायणको सर्वदा यही चिन्ता रहती थी कि किस तरहसे नवाबका सर्वनाश हो । झूठी झूठी खबरोंसे वह सर्वदा नवाबके विरुद्ध मिस्टर कूटके कान भरता था । एक दिन उसने मिस्टर कूटका यह खबर दी कि कलकत्तेके नवाब अंगरेजी सेनापर हमला करेंगे । मिस्टर कूटने

तत्काल सबको सचेत हो जानेकी आशा दी और रातके समय थोड़ेसे सिपाहियोंको लेकर नवाबके पडावपर आ पहुँचे । नवाबके हरकारोंने उन्हे खबर दी परन्तु नवाबने अंगरेजी सेनाकी उच्छृंखलताका उत्तर नहीं दिया । इधर मिस्टर वाट्स नवाबके निवासस्थानमे घुस गये और जोर जोरसे पुकारने लगे “नवाब कहाँ है” ? “नवाब कहाँ है ?” इसके पश्चात् बड़े क्रोधके साथ मिस्टर कूट भी अपनी सेना सहित आ पहुँचे । अन्तपुरमे जाकर इन लोगोंने शोरगुल मचाया । परन्तु नवाबकी ओर तो युद्धकी कोई तैयारी थी ही नहीं । नवाब अंगरेजोंपर आक्रमण करेंगे, यह समाचार-विलकुल निर्मूल प्रमाणित हुआ । अतएव ये लोग वापस लौट आये ।

मीर कासिमने दूसरे ही दिन कलकत्तेको वानसीटार्टके पास पत्र लिखा । उसमें इन कुल घटनाओंका उल्लेख किया । अन्तमें लिखा कि “जब मेरे नौकर, मेरी सेना और मेरे अफसर यह बात सुनेंगे तो वे मेरे विषयमें क्या सोचेंगे, यह आप स्वयं विचार सकते हैं । उन्हें मालूम हो जायगा कि अंगरेज ही सब कुछ हैं और मैं तुच्छ हूँ । उनको दृष्टिमें मैं गिर जाऊँगा ।” नवाबने एक और भी पत्र वानसीटार्टके पास लिखा था उससे पता चलता है कि उन्हें इस समय कितनी परेशानी थी । वह लिखते हैं कि—“आठ महीनेसे एक दिन भी मैं चैनसे नहीं बैठ सका । मैं हर प्रकारके सङ्कटसे घिरा हूँ । सेना वेतनके लिए शोर मचा रही है । रामनारायणके कारण भगडे तथा फसाद और भी बढ़ रहे हैं । मेरा जीवन खतरेमें है । ईश्वरके लिए मुझे निस्तहाय न छोड़िये वरन्

मेरी सहायता कीजिये । मेरी तमाम आशाएँ आपपर ही निर्भर हैं । मुझे डर है कि सेना मोर जाफरकी तरह मेरे घरको भी घेर लेगी । उस समय मेरी इज्जत मिट्टीमें मिल जायगी ।”

इन दिनों मिस्टर मेरूगायर भी पटनेमें ही थे । उन्होंने भी एक पत्र वानसीटार्टके पास लिखा । पूर्वोक्त रात्रिकी सारी घटनाओंका उल्लेख करते हुए अन्तमें पत्रको यों समाप्त किया—“अपने सेनापतिको इतने अधिक अधिकार देनेमें क्या हानि है, यह मैंने प्रत्यक्ष देख लिया । नवाबको सर्वदा अपने ही आदमियोंसे डर रहता है । यदि आप नवाबको सहायता करनेमें असमर्थ हैं तो रामनारायणको ही सूत्रधार बना दें जिससे इन दुष्टित महापुरुषको यह अवसर मिल जाय कि यह मुर्शिदाबाद जाकर एक दिन शान्तिसे बिता सकें जो इनके लिए अभी तक तो स्वप्न ही रही है” ।

वानसीटार्टने इस मामलेको कोसिलमें पेश करते हुए कहा कि “नवाबको अनेक अनुचित कष्ट दिये गये हैं । उनका हम लोगोंमें विश्वास है, उनमें इन्साफ और नम्रता है । यदि उनके स्थानपर कोई और पुरुष होता तो अभी-तक हम लोगोंसे झगडा अवश्य छिड जाता ।” वानसी टार्टने अपनी यह राय प्रगट की कि मिस्टर क्रू२ वहाँसे जुला

* If you find yourself unable to carry the Navab through his present difficulties let the Rajah be declared Subah and let this miserable great man return unglorious disgraced and despised to Murshidabad to enjoy a single day of quiet to which he has been an entire stranger ever since his arrival here

M' guires letter to Mr Vansittart 17th June 1761

लिये जायँ और कोई अन्य आदमी उनके स्थानपर भेजा जाय जो हम लोगोंके आदेशका पालन करे । नवाबको यह अधिकार दे दिया जाय कि वह अपने आश्रितोंके साथ जिस तरहका व्यवहार उचित समझें करें । गवर्नरकी सलाह कौंसिलने मान ली । मिस्टर कूट बुला लिये गये और नवाबको यह अधिकार दे दिया गया कि रामनारायणका हिसाब कितना वह देखभाल सकते हैं ।

कलकत्ता कौंसिलसे जब रामनारायणके साथ यथोचित व्यवहार करनेको आज्ञा नवाब मीर कासिमको मिल गयी तो उन्होंने रामनारायणको बुलवाया और आज्ञा दी कि दरवारमें तुम्हें अपने ही अफसरोंके सामने अपने प्रान्तकी मालगुजारीके रुपयेका हिसाब देना होगा और तमाम रसीदें भी पेश करनी होंगी । परन्तु रामनारायण हिसाब दे ही क्या सकता था ? यदि ईमानदारीसे उसने अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो हिसाब कभीका दे दिया गया होता । उसके हिसाब कितानमें तो धूर्तता, चालबाजी, और वेईमानी भरी हुई थी ।

जब हिसाब देनेकी बारी आयी तो रामनारायण बड़ा ही चिन्तित-दुःखी । उसका विश्वास था कि जबतक मिस्टर आमियाट कौंसिलमें है तबतक मेरा कोई कुछ विगाड नहीं सकता । परन्तु अब उसकी तमाम आशाओंपर पानी फिर गया । उसको यह बात अच्छी तरहसे मालूम होगयी, कि अब चालाकी चल नहीं सकती । इसपर भी आरम्भमें उसने अपने आदमियोंको वहीजाते लेकर चम्पल हो जानेका आदेश किया, परन्तु नवाबके आदमियों की आँसोंको ये धोखा न दे सके । इनका पता लग

गया और ये गिरफ्तार कर लिये गये । पहले सुन्दरसिंह पकड़ा गया और कारावासमें बन्द कर दिया गया । इसको सेनाका हिसाब सोपा गया था । उसमें बहुत सी भूलोंका पता लगा । बहुत कुछ रुपया सुन्दरसिंह हजम कर गया था । इसकी तमाम जायदाद जन्त कर ली गयी । मनसाराम और गगाविशुन नामके दो व्यक्तियोंपर यह अभियोग लगाया गया कि सुन्दरसिंहका बहुत कुछ धन इन लोगोंने चुरा रखा है । इस अपराधमें इनका धन भी जन्त कर लिया गया । मुहमद अफाक और राजा मुरलीधर रामनारायणके साथी थे । प्रजापर मनमाना अत्याचार कर इन लोगोंने बहुतसा रुपया इकट्ठा किया था । इन लोगोंको भी कारावासकी हवा चानी पटी । इनकी सारी जायदाद मीर कासिमको प्राप्त हुई ।

रामनारायणने जब अपने साथियोंकी यह दुर्दशा देखी तो उसका कलुषित हृदय कॉप उठा । उसको मालूम हो गया कि अर नवाबके क्रोधसे बचना असम्भव है । उसने नवाबकी दयापर ही अपनेको छोड़ देना उचित समझा । नवाबने रामनारायणको गिरफ्तार कर लिया । उसका सब कुछ जन्त कर लिया गया । कुछ दिनोंतक तो वह अजी-माघादमें ही कैद रखा गया लेकिन बादको अपने सम्यन्धियोंके साथ मुर्शिदाबाद भेज दिया गया ।

नवाब मीर कासिमने रामनारायणको दण्ड देकर अपने कर्तव्यका पालन किया, यह बात बहुतसे इतिहासज्ञ नहीं मानते । ये नवाब मीर कासिमको रामनारायणके प्रति उक्त व्यवहारके कारण दोषी ठहराते हैं और इस कार्यको अक्षम्य निर्दयता समझते हैं । साथ ही नवाबको कलकत्ता-

कौंसिलने अपने एक आश्रितके साथ यथोचित व्यवहार करनेकी आज्ञा दे दी, इसलिए कलकत्ता-कौंसिलपर भी कुछ इतिहास लेखकोंने क्रोध प्रगट किया है । थोरगटन साहय लिखते हैं “ब्रिटिश सरकारने रामनारायणकी रक्षा पहले कई वर्षोंतक की थी, उससे सहसा पराङ्मुख होकर कौंसिलने बड़ी गलती की ।” * अब देखना यह है कि उक्त कार्योंके लिए नवाब मीर कासिम कहांतक दोषी है । क्या सचमुच नवाबने अपने कर्तव्यके विपरीत आचरण किया ?


रामनारायण पटनेका नायब था । उसकी नियुक्ति नवाबकी ओरसे हुई थी । वह स्वतन्त्र नहीं था, नवाबका आश्रित मात्र था । परन्तु उसने अपने कर्तव्यका पालन नहीं किया । वह तो अपना स्वार्थ साधनेमें ही लगा रहा । हर तरहकी बेइमानी द्वारा उसने अपने धनकी वृद्धि की । अपने अन्नदाताके साथ उसने विश्वास-घात किया, नवाबके विरुद्ध उसने विद्रोह किया । हर प्रकारसे अपने मालिक का अनिष्ट करनेपर उसने कमर कस ली थी । कई बार तो उनकी जान लेनेका भी उसने यत्न किया । १८ वीं शताब्दीका जमाना आज नहीं है, परन्तु इस १२० वीं शताब्दीमें भी इतने बड़े अपराधका दण्ड मृत्यु है । नवाबने इस बड़े अपराधके लिए उस समय रामनारायणकी जान नहीं ली केवल कैदमें रक्खा और उसकी जायदाद

* The governor and the Council erred no less grossly and still more fatally in withdrawing from the person of Ramnarayan that protection which the continued countenance of the British government for several years entitled him to expect

जघ्त कर ली । यदि निष्पक्ष भावसे विचार किया जाय तो कहना होगा कि इससे कम टण्ड इतने बड़े अपराधीके लिए नहीं हो सकता था । नवाबने वही किया जो एक न्यायी शासकको करना चाहिये था ।



६—सैनिक सङ्घटन ।

 व नवाब मोर कासिमने जमोन्दारोंकी शक्ति पूर्णत विच्छिन्न कर दी और रामनारायणको भी पदच्युत कर दिया तब धीरे धीरे तमाम राज्यमें शान्तिकी स्थापना हो गयी । कर-वसूलीकी व्यवस्था भी घडे ही अच्छे ढङ्गपर कर दी गयी जिससे आमदनी बहुत अधिक बढ़ गयी ।

अब नवाबका ध्यान सैनिक सङ्घटनकी ओर आकर्षित हुआ ।

नवाब मोर कासिमकी यह प्रथम इच्छा थी कि अंगरेजोंसे हम पूर्णत स्वतन्त्र होकर रहें, हमारे शासन प्रबन्ध में ये लोग किसी प्रकारका भी हस्तक्षेप न कर सकें । उन्हें डर था कि सिराजुद्दौला और मीर जाफरके विरुद्ध जिस कुटिल नीतिका अवलम्बन किया गया, या कहीं मैं भी उसी नीतिका शिकार न बनूँ । अंगरेजोंपर उनका तनिक भी विश्वास नहीं था और सम्भवत वे विश्वास के पात्र थे भी नहीं । अतएव नवाबने अपनी रक्षाका प्रबन्ध करना परम आवश्यक समझा । अपनी सैनिक शक्तिकी दुर्बलताका अनुभव पहले पहल उन्हें बदायूँनमें हुआ था । बीरभूमके राजाके विरुद्ध लडाईमें नवाबकी

इनकी भेंट हुई । नवाबने इन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया । इनके द्वारा अपनी सैनिक-शक्ति दृढ़ करनेमें नवाबको यथेष्ट सहायता मिली । मारकर नामके एक अन्य व्यक्तिको भी नवाबने अपनी सेनामें स्थान दिया था । इस प्रकार उन्होंने कई योग्य सेनापतियोंको चुन चुनकर सेना-सञ्चालनके कार्यपर नियुक्त किया ।

नवाब मीर कासिमने बन्दूक, गोले, चारूद, पिस्तौल और युद्धकी अन्य आवश्यक सामग्रोंका संग्रह करना तथा तैयार कराना भी आरम्भ कर दिया था । नवाबके यहाँ जो गोले तैयार होते थे वे बहुत अच्छे होते थे । विलायतसे जो अँगरेजो गोले कम्पनीके प्रयागके लिए मँगारे जाते थे वे भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे । फलकत्ता कौंसिलके आदेशानुसार कुछ अफसर इस बातका जाँचके लिए नियुक्त हुए थे । उनकी भी यही राय थी कि नवाबके गोले और पिस्तौल आदि कम्पनीके गोलों आदिसे अच्छे हैं ।

१०—गुप्तचर-विभाग ।



य प्रबन्धका कार्य उचित रूपसे सम्पादित करनेके लिए तथा अपना शक्ति स्थायी बनाये रखनेके लिए यह आवश्यक होता है कि गुप्तचर विभाग भी शासनकी ओरसे कायम किया जाय । नवाब मोर कासिमके लिए तो यह बहुत ही आवश्यक था । सिराजुद्दौलाको पदच्युत करनेके लिए पड्यन्त्र रचा जा चुका था । मोर जाफर भी बहुत दिनों तक शान्तिसे राज्य न कर पाये थे । अब मोर कासिम नयाब हुए । इन्हें भी शत्रुओंसे आशङ्का बनी रहती थी । बिहारमें विशेषतः शाहाबादकी ओर तो बिलकुल नये सिरसे इनकी शक्ति स्थापित हुई थी । यहाँ पहले जर्मींदारोंको तृप्तो बोलती थी । नयाबने उनकी शक्तिका पूर्णतया विच्छेद किया था । नयाबका दबदबा यहाँ एकदम नया था । अतः उन्हें सर्वदा यह भय बना रहता था कि भागे हुए जर्मींदार कोई पड्यन्त्र न रचें, कोई नया उत्पात न पडा करें । इन्हीं कारणोंसे नयाबने गुप्तचर विभागकी स्थापना की । राजा सुप्रलाल नयाबके प्रधान गुप्तचर थे । इनके अतिरिक्त दो और मुख्य गुप्तचर थे । इनमेंसे प्रत्येकके अधीन लगभग दस सौ आदमी नियत थे । इन्हीं गुप्तचरों द्वारा हर प्रकारके समाचार प्रधान गुप्तचरोंको मिलते थे । जो जो बातें इन्हें मालूम होती थीं, उन्हें ये लोग नयाबके कानोंतक पहुँचा देते थे ।

गुप्तचर-विभागके कारण राज्यप्रबन्धमें नवाबको बड़ी सुविधा हुई । उन्हें बहुतसी ऐसी गुप्त बातोंका पता लगता रहता था जिन्हें न जाननेसे शासन-कार्यमें विशेष हानिकी सम्भावना थी ।

कल्ल अलीखॉ और हैदर अली खॉ भागलपुरके फौजदारके पुत्र थे । ये लोग गोरखपुरके राजाके साथ नवाब की इच्छाके विरुद्ध पत्रव्यवहार कर रहे थे । नन्मूल नामके गुप्तचरने इस बातका पता लगाया । दोनों भाई कैद कर लिये गये ।

राजा सीताराम नवाबके मन्त्रियोंमेंसे थे । इनके द्वारा शाहाबादकी ओर नवाबके बहुतसे आवश्यक कार्य सम्पादित होते थे । इन्होंने अत्याचारपर कमर कस ली थी और रिश्वत लेनेमें भी यह कोई सकोच न करते थे । जिन लोगोंका इनसे काम पड जाता या उनसे मनमाना रुपया वसूल करते थे । धिचारे असहाय प्रजा जन निरर्थक सताये जाते थे और रुपयेवाले रुपया देकर छुटकारा पा जाते थे । इस प्रकार प्रायः न्यायका गला घोंटा जाता था । नवाबके राज्यसे गाजीपुरमें भागे हुए कुछ जर्मीदारोंके साथ यह पत्र-व्यवहार भी कर रहे थे ।^७ नवाबने इन्हें भी कैद करनेकी आशा दी ।

^७ सीतारामने निम्नलिखित आशयका पत्र फुलवनसिंहको लिखा था —

मैं आपको देखनेकी बहुत इच्छा रखता हूँ । ईश्वर करे आप अपने देशको तुरन्त लौट आवें । ओर ऐसा होनेकी बहुत सम्भावना भी है, क्योंकि नवाब और अँगरेजोंमें अनबन है । गुरगीनखॉ और एलिसमें भी दुश्मनी है । एलिसने मुगेरके किरेपर दखल

इन लोगोंके अतिरिक्त सैदुल्ला भी नवाबके क्रोधके शिकार हुए । गाजीपुरमें भागे हुए जर्मीदारोंके साथ यह भी पत्र व्यवहार कर रहे थे । गुप्तचरोंने इनके पत्रोंका पता लगाया और नवाबके सामने उन्हें पेश किया । यह भी गिरफ्तार कर लिये गये ।

११—मुद्देरको राजधानी बनाना ।

हावादके जर्मीदारोंकी शक्ति चूर्ण कर नवाब कुछ दिनोंतक सहसराममें ठहरे रहे । वहाँसे वह रोहतासगढ़को देखभालके लिए रवाना हुए । अपने आनेका समाचार नवाबने रोहतासगढ़के गवर्नर नासिर अलीखॉ और उनके नायब शाहमलको पहलेसे ही भेज दिया था । रोहतासगढ़में पहुँच कर नवाबने किलेका परिक्रमा की । वहाँ दो एक दिन रहकर वह सहसरामको लौट आये । नवाबके आज्ञानुसार शाहमल गिरफ्तार कर लिये गये । मीर मेहँदीखॉ शाहावादके गवर्नर नियुक्त हुए । इन्हींके अधीन रोहतासगढ़का किला भी रखा गया । इनकी सहायताके लिए शाह मुहम्मद

करनेके लिए सेना भी भेजी है । ऐसी अवस्थामें नवाब यहाँ नहीं रह सकते । शायद वह दिल्ली जायेंगे । शुजाउद्दौला उस सूबेका मालिक हो जायगा और आपको अपनी जमीन्दारी वापिस मिल जायगी ।—‘नैरेटिव भाक दानसीटाट’से अनुवादित ।

अकबर खॉ नियत किये गये । इन्हें शाहाबादकी सीमा परके जमींदारोंपर कड़ी निगाह रखनेका आदेश दिया गया था । समरूको थोड़ीसी सेनाके साथ बकसरमें रहनेकी आज्ञा दी गयी ।

शाहबादमें शान्तिकी व्यवस्था कर नवाब अजीमाबादके लिए रवाना हुए । जानेके पहले उन्होंने राजवल्लभको बुलवाया और उन्हें कैद कर लिया । उनके स्थानपर राजा नौबतराय अजीमाबादके नायब मुकर्रर हुए । तत्पश्चात् बड़ीही धूमधामसे नवाब अजीमाबादमें दाखिल हुए । उन्होंने आज्ञा दी कि किला और शहरकी दीवारें मजबूत की जायें । अजीमाबादके शासनका उचित प्रबन्ध करनेके बाद नवाब मुगेरको चल दिये ।

इसके पश्चात् प्रधानतया अंगरेजोंके हस्तक्षेपसे बचनेके उद्देश्यसे नवाबने मुर्शिदाबादसे हटाकर मुगेरमें अपनी राजधानी स्थापित की । मुंगेर कलकत्तेसे बहुत दूरीपर था । वहाँ रहकर नवाब स्वतन्त्रताके साथ अपना शासन प्रबन्ध कर सकते थे । इसके अतिरिक्त मुगेरकी स्थिति भी ऐसी थी कि नवाब वहाँ अपनी रक्षाके विषयमें बहुत कुछ निश्चिन्त रह सकते थे । मुगेर आकर वह बड़े ही उत्साहके साथ राज्य-प्रबन्धमें प्रवृत्त हो गये ।



१२—नवाबकी शिकायत ।



वाव मीर कासिम अंगरेजोंसे डरते थे, यह बात नहीं थी। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि नवाबका सैनिक सप्टन अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी वह अपनेको इस योग्य नहीं समझते थे कि अंगरेजोंसे युद्ध ठान सकें। परन्तु वास्तविक बात यह थी कि वह शान्तिसे काम निकालना चाहते थे। उन्होंने गवर्नर वानसीटार्टके पास एक पत्र लिखा जिसका आशय इस प्रकार है—

“जिस दिनसे मेरे और आपके बीच सन्धि हुई और मैं बंगालसे विहार प्रान्तको आया उस दिनसे आजतक सन्धिके अन्तर्गत पालन किया। मैंने न तो आपका किसी भी आदमीको तग किया, न आपके व्यापारमें ही अडचन डाली और न मैंने उन प्रान्तोंमें एक भी आदमी मालगुजारी वसूल करनेके निमित्त भेजा जो सन्धिके द्वारा मैंने कम्पनीको दे दिये हैं। मेरी तरफसे कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे यह प्रमाणित हो कि मेरा कोई भी आदमी हम लोगोंके बीच अविश्वास उत्पन्न करना चाहता है।

“अब आप कृपा कर अपने लोगोंके कारनामे भी सुन लीजिये। वे लोग हर जगह उत्पात मचाते हैं और प्रजाको लूटते हैं। वे हमारे नौकरोंकी बेइज्जती करते हैं और इस बातपर तुल्य हुए हैं कि तमाम भारतवर्षमें मेरे प्रति घृणाका भाव लोगोंमें उत्पन्न हो। हर गाँव और परगनेमें दस

दस पन्द्रह पन्द्रह फैक्टरियों उन लोगोंने बना ली हैं और अंगरेजी भण्डे तथा कम्पनीके दस्तकके बलपर हर प्रकारसे देशी व्यापारियों और असहाय प्रजापर अत्याचार करते हैं ।

“आपने मुझे एक दस्तक दिया था जिसके द्वारा मुझे यह अधिकार प्राप्त है कि मैं नावोंकी तलाशी ले सकता हूँ । उक्त दस्तकको अपने अफसरोंके पास हर चौकीपर मैंने भेज दिया । परन्तु अंगरेजी व्यापारी उस दस्तककी अवहेलना करते हैं । मना करनेपर मेरे अफसरोंको गालियाँ देते हैं और उनके लिए अपमानजनक शब्दोंका प्रयोग करते हैं । वे लोग इस प्रकारका व्यापार करने लगे हैं जो कम्पनीने आजतक नहीं किया । हर स्थानपर वे नमक, पान, घाँ, चावल, मांस, मछली, तम्बाकू इत्यादि वस्तुओंका व्यापार करते हैं । चौथाई मूल्य देकर लोगोंसे सामान खरोदते हैं और जबर्दस्ती बेच कर पँचगुना कांमत घसूल करते हैं । हर साल मुझे २५ लाख रुपयेका घाटा है । गुमाश्तेको यह अधिकार प्राप्त है कि वह हमारे कल कृशोंको कैद कर सकता है ।

“मैं आशा करता हूँ कि खरोद और विक्रीके इन घृणित ढँगोंको रोकनेका प्रयत्न आप करेंगे । ईश्वरकी कृपासे मैंने सन्धिकी कोई भी शर्त आजतक नहीं तोड़ी, न तोड़ता हूँ और न आगे तोड़ूँगा । तब क्या कारण है कि अंगरेज लोग मुझे हानि पहुँचानेपर तुले हैं ? कृपया बिना विलम्ब इन बातोंपर विचार कीजिये, क्योंकि इन दोषोंके कारण प्रजामें मेरे शासनकी ओरसे घृणा-भावकी वृद्धि हो रही है ।”

जब गवर्नर वानसीटार्टको नगरका यह पत्र मिला तो उन्होंने बोर्डकी एक बैठक करवायी और पत्र वहाँ पेश किया । यह तै हुआ कि गवर्नर मुंगेर भेजे जायँ और इनके साथ मिस्टर हेस्टिंज भी जायँ । ये भगडोंके मूल कारणोंका पता लगावें और उन्हें दूर करनेका प्रबन्ध करें ।

~~~~~

### १३—मुंगेरका निश्चय ।



सिलके निर्णयानुसार गवर्नर वानसीटार्ट और मिस्टर हेस्टिंजने नवाबसे मिलने के निमित्त कलकत्तेसे प्रस्थान किया । यथासमय कासिम बाजार, मुर्शिदाबाद और वर्दवान होते हुए ये लाग मुंगेर पहुँचे । नवाब राजधानी छोड़ कर तीन

कोस आगे इनके स्वागतार्थ पहिलेसे ही आये हुए थे । वहाँसे तीनोंने साथ साथ चल कर शहरमें प्रवेश किया । गवर्नर और हेस्टिंजके ठहरनेका प्रबन्ध सीताकुण्डके पास किया गया । अतिथि सकारका भार गुरगीन खाँके सिपुर्द हुआ । अतिथियोंके सुविधार्थ हर प्रकारका उचित प्रबन्ध कर नवाब अपने डेरेकी लौट आये । दूसरे दिन वानसीटार्ट नवाबसे भेंट करने गये । नवाबने उनका बड़ा आदर किया । अपने मसनदपर उन्हें बिठाया और बहुत सी मृत्यवान् वस्तुएँ उन्हें भेंट कीं । दो दिन बाद नवाब भी गवर्नरके पडावमें गये । चलते समय वानसी टार्टने चीन और विलायतके बने हुए बहुतसे घड़ूमूल्य

पदार्थ भेंटमें दिये । चौथे दिन नवाबने गवर्नरको तोपघर, बन्दूक, पिस्तौल, गोले, बारूद इत्यादि दिखाये और उनके सामने गोलन्दाज सेनाकी कवायद करवायी ।

गवर्नर वानसीटार्टने जब ये तैयारियाँ देखी तो उन्हें इसका अर्थ समझनेमें देर न लगी । उनका माथा ठनका और उन्होंने नवाबको निम्नलिखित उपदेश दिया—“मैंने आपकी सेना देखी और मैं इस बातको स्वीकार करता हूँ कि आपने इसे बड़े अच्छे ढंगपर सघटित किया है । परन्तु इसका प्रयोग हिन्दुस्थानियोंके ही विरुद्ध हो सकता है । इस सेनाके भरोसे अंगरेजोंसे युद्ध करनेका विचार आप कभी न करना । नहीं तो आप पछुतायेंगे । व्यर्थ ही आपके देशके सम्मानपर बट्टा लग जायगा क्योंकि यदि आप अपनी सर्वोत्तम सेना सहित पराजित हुए तो यूरोप-वाले अन्य सभी हिन्दुस्थानियोंको तुच्छ दृष्टिसे देखने लगेंगे । यदि हम लोगोंसे लड़ना है तो दलीलोंसे लड़िये और रुपयेसे काम लांजिये । इस प्रकारकी तैयारियाँ त्याग दीजिये क्योंकि यदि लड़ाई हो गयी तो आपके नाशके साथ साथ असख्य आदमियोंका नाश होगा ।”\*

मिस्टर वानसीटार्टकी शिक्षासे क्या अर्थ निकलता है, यह पाठक भली प्रकार समझ सकते हैं । यद्यपि उन्होंने बनावटी तौरपर कह दिया कि तुम्हारी सेना अंगरेजोंके साथ लड़कर सफलता प्राप्त नहीं कर सकती पर वास्तवमें उनके पेटमें खलबली मची हुई थी । अभीतक तो वह यही समझे हुए थे कि नवाब असहाय है, कंचल हमारी कृपाके भिखारी है । परन्तु आज उन्हें पहले पहल मालूम

मुआ कि नवाब अभीतक बैठे नहीं थे । अर केवल  
भेक्षाका ही अवलम्ब उन्हें न था । वह दृढ तैयारियोंमें  
तगे हैं । यदि अंगरेज सीधे तौरसे न माने तो वह  
भवत अपने बाहुबलसे इन्हें ठीक करनेका उद्योग करेंगे ।

यथासमय व्यापार सम्बन्धी कुरीतियोंपर नवाबके  
साथ गवर्नर और मिस्टर हेस्टिंग्सकी बातें हुई । नवाबका  
कहना था कि "अंगरेजोंको बंगाल प्रान्तके भीतर निशुल्क  
व्यापार करनेका अधिकार फरमानके द्वारा प्राप्त नहीं है ।  
फरमानका आशय केवल यही है कि बंगालसे जो वस्तुएँ  
बिदेश जायँ या विदेशसे जो चीजें यहाँ आवें उनका  
निशुल्क व्यापार अंगरेज कर सकते हैं । इस प्रकारके  
व्यापारसे भारतवर्षका भी फायदा है और अंगरेजोंका भी ।  
इस प्रान्तके भीतर यहाँकी वस्तुओंमें ही यदि अंगरेज  
निशुल्क व्यापार करेंगे तो वह इस देशके लिए लाभदायक  
होईगा । यहाँकी प्रजाको उससे क्षति पहुँचेगी और  
उससे अंगरेज ही नफा उठायेंगे ।" गवर्नर और हेस्टिंग्सने  
व्यापकी बातोंका समर्थन किया । बंगालके भीतर व्यापार  
सम्बन्धी कुरीतियोंको रोकनेके लिए उन्होंने निम्नलिखित  
नियम नवाबके सामने पेश किये और इसकी सूचना कल  
कत्ता कौन्सिलको भी दी—

(१) विदेशसे आयी हुई तथा वहाँ जानेवाली चीजों-  
के दस्तक न रहेगा और वे चीजें बिना शुल्क दिये  
ही आसानीसे जा सकेंगी ।

(२) यहाँकी वस्तुओंपर भीतरी व्यापारके निमित्त  
दस्तक न दिया जायगा । ऐसी वस्तुओंके लिए  
आवश्यकता होगी ।

(३) दस्तक प्राप्त करते समय और माल भेजनेके पहले शुल्क देना पड़ेगा ।

(४) एक धार इस प्रकार शुल्क दे देनेके पश्चात् किसी चौकीपर फिर सरकारी अफसरोंको शुल्क माँगनेका अधिकार नहीं होगा ।

(५) जिन वस्तुओंके लिए सरकारी या कम्पनीका दस्तक होगा उनके सम्बन्धमें किसी प्रकारकी रुकावट न होगी । चौकियोंके पहरेदारोंको केवल दस्तक देखनेका अधिकार होगा । परन्तु यदि नावोंमें दस्तकके आशयसे अधिक पदार्थ हों अथवा दस्तकमें जो चीजें लिखी हैं उनके अतिरिक्त अन्य प्रकारका माल हो तो उस हालतमें पहरेदारोंका यह काम होगा कि इसकी खबर वे निकटस्थ अंगरेजी फैक्टरी और सरकारी अफसरको दें ताकि उक्त वस्तुओंकी अच्छी तरह जाँच की जाय ।

(६) यदि कोई मनुष्य कम्पनीके या सरकारी दस्तक के बिना सामान ले जाना चाहता है या उसके पास बङ्गालमें उत्पन्न चीजोंके लिए कम्पनीका दस्तक है तो ऐसी चीजें रोक ली जायँगी और जन्त कर ली जायँगी । चौकियोंके पहरेदारोंका यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसी वस्तुओंको रोक लें और इसकी सूचना पासकी अंगरेजी फैक्टरी और सरकारी अफसरको दें ।

(७) हर स्थानपर गुमाश्ते वतौर व्यापारीके तिजारत कर सकेंगे । परन्तु उनको यह अधिकार कदापि न होगा कि वे खरीद और बिक्रीमें बलप्रयोग करें । यदि उनके व्यापारमें किसी प्रकारकी रुकावट होती है तो गुमाश्तेको अपनी शिकायत उस स्थानके फौजदार या अन्य सरकारी

अफसरके सामने पेश करनी होगी । वह उसे तै करेगा । उसी प्रकार यदि कोई अंगरेजी गुमाशतीके अत्याचारसे पीडित होगा तो वह निकटस्थ सरकारों अफसरसे शिकायत करेगा । समन भेजनेपर गुमाशतेको सरकारी अफसरके सम्मुख जाना होगा और जो दोष उसपर आरोपित होंगे उनका जवाब देना होगा ।

( ८ ) फोजदार या अन्य सरकारी अफसरको मुद्दमेकी पूरी कारवाई नयावके पास भेजनी होगी और एक प्रति गुमाशतेको भी देनी पड़ेगी । यदि गुमाशता समझता है कि हमारे साथ अन्याय किया गया है तो वह मुद्दमेकी तमाम कार्रवाई अपने मालिकके पास भेज देगा और वह मालिक प्रेसीडेण्टके पास उसे भेज सकता है । यदि प्रेसीडेण्ट समझे कि सचमुच फोजदारने अन्याय किया है तो वह इसकी सूचना नयावको देगा । यदि किसी फोजदारपर इस तरहका दोष प्रमाणित हो जाय तो नयाव उसको काफा दण्ड देंगे ।

पहले तो नयाव मोर कासिम इन नियमोंको स्वीकार करनेके लिए तैयार न हुए । वे समझते थे कि प्रचलित कुरीतियोंको रोकनेके लिए ये काफा नहीं ह । किन्तु जब घानसीटार्टने यह विश्वास दिलाया कि भविष्यमें किसी प्रकारकी गडबडीकी आशङ्का नहीं है, तब नयावने इन नियमोंको स्वीकार किया । परन्तु यह बात उन्होंने साफ साफ कह दी कि यदि भविष्यमें व्यापार सम्बन्धी कुरीतियाँ पुनः प्रचलित रहें तो मे तमाम व्यापार निशुद्ध कर दूंगा । उसके बाद नयावने गवर्नरसे पत्र लिख कर निम्नलिखित बातोंकी स्मरुति चाही ।

“हमारे राज्यमें बहुतसे स्थानोंमें अँगरेजी गुमाश्ते और अन्य नौकर अत्याचार करते हैं । आप हर फैक्ट्रीके सरदारके पास लिख भेजें कि किसी भी गुमाश्ते को दस्तक न दें और कम्पनीके व्यापारी जहाजोंके अतिरिक्त और किसी को अँगरेजी झण्डेका प्रयोग न करने दें । इस देशको जो चीजें खरीद कर वे यहाँ व्यापार करना चाहें उसपर नौ फीसदी शुल्क दें । रैयतों या सौदागरोंके घरों और गोलोंपर अधिकार न करें । सनद्वीपमें अँगरेजी गुमाश्ते नमक तैयार करते हैं । उन्हें लिखिये कि भविष्यमें वे ऐसा न करें । कलकत्तेके सिवाय और कहीं रुपया न ढाला जाय । इससे मेरी आमदनीमें फर्क पडता है । दो वर्ष पूर्व आसामसे मुझे पचास हजारकी वार्षिक आमदनी थी । सरकारी आदमियोंको छोड कर वहाँवालोंसे किसीको भी व्यापार करनेका अधिकार नहीं था । दो वर्ष हुए वहाँ मिस्टर शिवालीयर गये और सरकारी व्यापारको एकदम रोक कर स्वयं व्यापार करने लगे । मुझे इससे बहुत घाटा हो रहा है । यह ताल्लुकेदारों और रैयतको जबर दस्ती पकड कर उनसे लकड़ी कटवाते हैं । चावल थोडासी कीमत देकर खरादते और अधिक मूल्य लेकर बलपूर्वक बेचते हैं । प्रजा बहुत कष्टमें है ।”


गवर्नरने नवाबके पत्रका जो उत्तर दिया उसका आशय इस प्रकार है—“अपनी फैक्ट्रियोंको मैं लिख दूंगा कि भीतरी व्यापारके लिए दस्तक न दिया जाय । इस प्रकारके व्यापारमें आपको नौ प्रति सैकडा शुल्क मिलेगा । गुमाश्ते अत्याचार, बलात्कार और बेईमानी नहीं कर सकेंगे । हर फैक्ट्रीके सरदारके पास यह सूचना भेज दी

जायगी कि वह सरकारी प्रबन्धमें बाधा न होने दें । भविष्यमें यदि ऐसा हुआ तो आप जो मुनासिब समझें कर सकते हैं । आपसे भी मेरा सविनय निवेदन है कि फौजदार और अन्य अफसरोंको लिख दें कि अंगरेजी गुमाशतोंके भूगडोंको तै करनेमें पक्षपात न करें । इसलामाबाद और लखीपुरके सरदारोंको लिख दिया गया है कि भविष्यमें वे नमक तैयार न करें । तमाम फैक्टूरियोंके सरदारों और नौकरोंके पास यह सूचना भेज दी जायगी कि वे जमीन न खरीदें और खेती न करें । यदि उनके पास जमीन है तो उसको छोड़ दें । आप भी उन्हें यह अधिकार दे दें कि जो जमीन वे खरीद चुके हों उसे वे बेच सकें । कई स्थानोंसे यह खबर आयी है कि सरकारी अफसर पिछले शुल्कके लिए तंग करते हैं । यह अनुचित है । आप यह आज्ञा दें कि पुराना हिसाब न मॉगा जाय और यदि कुछ घसूल किया गया हो तो लौटा दिया जाय । आप एक परवाना इस आशयका प्रकाशित करें कि हमारे सिक्कोंपर बट्टा न लगे और यदि कोई बट्टा मॉगे तो उसको दण्ड दिया जाय । आसामके अंगरेजी अफसरको यह सूचना भेज दी जायगी कि वह वहाँवालोंसे व्यापार न करें । जो कुछ खरीदना या बेचना हो वह वहाँके सरकारी अफसरके द्वारा करें ।”

इस प्रकार गवर्नर वानसीटार्टने व्यापार सम्बन्धी दोषोंको रोकनेके निमित्त नवाबके साथ मिलकर नियम बनाये । नवाबने इन नियमोंकी एक एक प्रति हर जगह अपने अफसरोंके पास भेज दी और उनसे ताकीद कर दी कि वे इन्हीं नियमोंके अनुसार कार्य करें ।



## १४—कौन्सिलका विचित्र निर्णय ।


**व्या**
 पार सम्यन्धी कुरीतियोंको रोकनेके लिए गवर्नर वानसीटार्टने नवाबके साथ जो नियम निर्धारित किये थे उनकी सचना यथासमय कलकत्ता भी पहुँची । उक्त नियमोंपर विचार करनेके लिए बोर्डकी बैठक हुई और निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुए—

( १ ) प्रेसाडेण्टने नवाबके साथ मिलकर जो नियम बनाये हैं वे हम लोगोंके लिए (वहैसियत अँगरेज होनेके) लज्जाजनक हैं । इनका अनिवार्य परिणाम यही होगा कि हर प्रकारका अँगरेजी व्यापार नष्ट हो जायगा ।

( २ ) हम लोगोंकी सम्मति लिये बिना उक्त नियम बनाकर प्रेसाडेण्टने हम लोगोंके अधिकारकी अवहेलना की है ।

( ३ ) पटना और चटगाँव बहुत दूर हैं, अतएव इन स्थानोंके अतिरिक्त और हर स्थानसे बोर्डके तमाम सदस्य बुलाये जायँ और अँगरेजी व्यापारकी रक्षा तथा सुसञ्चालन के सम्यन्धमें विचार कर नियम बनाये जायँ ।

वानसीटार्टका सारा परिश्रम धूलमें मिल गया । कलकत्ता-कौन्सिलने प्रेसाडेण्ट द्वारा निर्धारित नियमोंको अँगरेजी राष्ट्रके लिए लज्जाजनक समझा । आश्चर्य तो इस घातका है कि कौन्सिलने 'लज्जा' शब्दका भी अर्थ न समझा । उसने निर्लज्जता और नोचताको ही अपने राष्ट्र

का सम्मान समझा । उसके सदस्योंकी समझमें शायद अंगरेजी राष्ट्रका गौरव असहायोंपर अत्याचार करने, गरीबोंका गला घोटने तथा कुटिल नीतिके अनुसरण करनेमें ही था । तब भला इन लागोंको गवर्नर द्वारा बनाये गये न्याययुक्त नियम कैसे स्वीकार हो सकते थे ? न्यायसे तो इनके राष्ट्रीय गौरवमें बड़ा लगता था । इतिहास लेखकोंने फ्लकत्ता कौन्सिलके इस विचित्र निर्णयपर आश्चर्य प्रकट किया है । ग्लॉग लिखते हैं "यह समझमें नहीं आता कि किस सिद्धान्तपर बोर्डने इन नियमोंको अस्वीकार किया । वे तो सबके लिए सन्तोषजनक थे । विशेषतः अंगरेजोंको तो उनसे बड़ा लाभ था । अधिक आश्चर्य तो इस बातका है कि बोर्डके सदस्योंने इन नियमोंको अपने राष्ट्रके लिए लज्जास्पद समझा और वे उन्हीं अधिकारोंको प्राप्त करनेपर तुल गये जिनका अनिवार्य परिणाम देशी व्यापारियोंका सत्यानाश था ।"\*

मेलिसन लिखते हैं 'उक्त नियम अंगरेजोंके लिए विशेष रूपसे ही नहीं बरन् अनुचित नीतिसे लाभदायक थे' † । मिलने भी लिखा है कि "संसारके इतिहासमें अन्याय

---

\* It seems difficult to understand upon what principle propositions fair to all parties and at the same time so advantageous to the English should have been rejected. Rejected however they were. The majority in the Council denounced the governor's plan as insulting to the honour of the English name and insisted upon their own rights and the rights of their servants to trade upon terms which must bring ruin upon all the native merchants.

Extracts from the Memoirs of the Life of Warren Hastings by Gleig

† The compromise contained provisions not only greatly but unceasingly favourable to the English—Malleon

सेनापतियोंके साथ गुप्त सन्धि की है । नवाबको यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ । नित्य सन्ध्या समय गुरगीन खाँ नवाबसे मिलने आया करते थे । उस दिन शामको जब वह आये तो नवाबने गुरगीनसे यह बात कही और साथ ही साथ कई प्रश्न भी किये । गुरगीन खाँने उत्तर दिया कि “हम लोगोंने सन्धि अवश्य की है । परन्तु किस उद्देश्यसे ? यह कार्य हम लोगोंने केवल आपकी रक्षाके लिए किया है । जिसने हमारी तरफसे आपके हृदयमें बुरा भाव उत्पन्न किया है वह आपका शत्रु है और वह आपकी शक्तिको नष्ट करना चाहता है ।” ऐसा सन्देह हुआ कि यह जगतसेठकी कारसाजी है । उसीके इशारेसे शाह अब्दुल्ला नवाब और उनके सेनापतियोंमें द्वेष पैदाकर सेनामें विद्रोह उत्पन्न करना चाहते थे । नवाबने मुहम्मद अली, बरकत अली और फरहाद अली तीनोंको बुलवाया और कहा कि जब तुम पहले पहल आये थे तो तुम्हारे तख्तर गुदड़ी भी नहीं थी । हमारी ही कृपासे अब तुम लोग सेनापति हो गये हो । गुरगीन खाँ भी पहले कपडा बेचनेवाला व्यापारी था परन्तु हमारी दयासे वह प्रधान सेनापति हो गया है । किस उद्देश्यसे तुम लोगोंने उसके साथ गुप्त सन्धि की है ?

नवाब के प्रश्नका तीनोंने यह जवाब दिया, “जो कुछ हुआ कह रहे हैं ठीक है । परन्तु हम लोग अपने कर्तव्यसे विमुख नहीं हुए । केवल आपकी रक्षाके लिए यह सन्धि हम लोगोंने की थी । यदि हम लोग दोषी प्रमाणित हों तो हमें दण्ड दिया जाय” । नवाबने तब शाहअबदुलाको बुलवाया और कहा कि “तुमने मुझसे इन लोगोंके विरुद्ध जो कुछ

कहा है उसका प्रमाण पेश करो । यदि तुम ऐसा न कर सकोगे तो तुम्हें दण्ड दिया जायगा क्योंकि तब यह समझा जायगा कि तुम मेरे और मेरे सेनापतियोंके बीच झगडा कराना चाहते थे ।" शाह अन्दलाने देखा कि कलाई खुल गयी । गवाह भी पेश करना बेकार है । उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया । केवल झुककर सलाम किया । नवाबके आक्षानुसार शाह अन्दल्ला कैद कर लिये गये और पुर्निया भेज दिये गये ।

दूसरा व्यक्ति, जिसकी शरारतका पता नवाब मीर कासिमको लगा, चिन्तामणिदास था । यह पहले शाहाबाद जिलेके अन्तर्गत भोजपुरमें, मुहरिर था । इसकी योग्यता देखकर नवाबने इसे उस स्थानके तहसीलदारके पदपर नियुक्त कर दिया था । यह शाहाबादसे भागे हुए जमीन्दारोंके साथ पत्र व्यवहार कर रहा था । पत्र पकडे गये । चिन्तामणि गिरफ्तार होकर नवाबके सामने पेश किया गया । इसका कहना था कि पत्र जाली है । परन्तु अपने कथनकी सत्यता यह प्रमाणित न कर सका । नवाबने कहा कि लिखावट तुम्हारी है और तुम्हारी मुहर भी लगी हुई है । जिन लोगोंका तुमसे सम्बन्ध नहीं, और न कोई शत्रुता है, उन लोगोंने देखभाल कर यह तै किया है कि ये पत्र तुम्हारे हाथके लिये है । चिन्तामणि अपनेको निर्दोष प्रमाणित न कर सका, अतः उसे मृत्युदण्ड हुआ ।

तीसरा आदमी, जो नवाबकी क्रोधाग्निका शिकार हुआ, रहोमउल्ला खाँ था । यह पञ्जाबका रहनेवाला था । तीर चलानेकी प्रियामें इसने निपुणता प्राप्त का थी । रहोमउल्लाका बङ्गालकी एक प्रधान स्त्रीसे सम्बन्ध था ।

उस खोने रहीमउल्लासे तीन हजार रुपयेका एक घोडा खरीदनेको कहा था । इसके अतिरिक्त रहीमउल्लाका शुकरुल्ला जोसे बहुत प्रेम था । शुकरुल्ला जहाँगीरनगरमें नवाबकी आज्ञासे कैद किया गया था । कारागारसे मुक्त होनेके निमित्त वह अपने आदमियो द्वारा नवाबके पास दरखास्त भेजा करता था । रहीमउल्लाने एक बार शुकरुल्लाके आदमीको अपने यहाँ ठहरा लिया । इससे रुष्ट होकर नवाबने उसकी गिरफ्तारीकी आज्ञा दी । जब वह नवाबके सामने पेश किया गया तब नवाबने उससे पूछा “तुम्हारा उस खोसे क्या सम्बन्ध है ? यदि तुम्हारा उसके साथ कुछ सम्बन्ध नहीं है तो तुम उसके लिए तीन हजार रुपयेका घोडा क्यों खरीदते हो ? तुम्हारा वेतन केवल डेढ़ सौ रुपया है, फिर तुम इतना रुपया कहाँसे लाये ?” रहीमउल्ला कोई उचित उत्तर न दे सका । नवाबने फिर दूसरा प्रश्न किया, “यह जानते हुए कि शुकरुल्ला मेरा शत्रु है, तुमने उसके नौकरको अपने यहाँ क्यों ठहरने दिया ?” नवाबने इस प्रश्नका भी कोई सन्तोषपूर्ण उत्तर नहीं पाया । उसको राज्य-निष्कासनका दण्ड दिया गया । इसके पूर्व उसकी नाक काट ली गयी और वह गधेपर चढा कर सारे शहरमें शुमाया गया ।

मीर कासिम अपने शत्रुओंकी ओरसे हमेशा सावधान रहते थे । जहाँ किसीने इनके विरुद्ध सिर उठाया कि उसको दवानेमें यह तनिक भी विलम्ब न करते थे-। इस कारण किसीको यह साहस नहीं होता था कि नवाबकी इच्छाके विरुद्ध कुछ कर सके । पिछले नवाबोंके समयमें जो-पड्यन्त्र हुए थे उन्हें देखकर यह सम्हल गये थे ।

गुप्तचर-विभाग द्वारा इन्हें छोटी छोटी बातों तकका पता लग जाता था । जहाँ कहीं किसीपर कुछ भी सन्देह हुआ कि उसको दशानेमें यह तत्पर हो जाते थे ।

## १६—मुंगेरके किलेकी तलाशी ।



इसके स्पदेश लौटनेके कुछ ही दिन पूर्व कलकत्ता कांसिलने एक पत्र डाइरेक्ट्रोंके पास इंग्लैण्ड भेजा था । इसमें कांसिलने उस पत्रके सम्बन्धमें अपना असन्तोष प्रगट किया था जिसके द्वारा डाइरेक्ट्रोंने कांसिलके कुछ कार्योंकी निन्दा की थी ।

उक्त पत्रपर क्लाइवके अतिरिक्त हालवेल, शेडल, समनर और गायरके हस्ताक्षर थे । पत्रमें कुछ कड़े शब्दोंका प्रयोग भी किया गया था । रुष्ट होकर डाइरेक्ट्रोंने हस्ताक्षर करनेवालोंको वरत्वास्त कर दिया । क्लाइव पहले ही लौट गये थे और हालवेल भी पदत्याग कर चुके थे । घरत्वास्तगोकी आज्ञा आनेपर शेष तीन व्यक्तियोंको भी नौकरी छोड़ देनी पड़ी । ये तमाम मेम्बर गवर्नर वानसी टार्टकी नीतिके समर्थक थे । अतः इस परिवर्तनका भविष्यमें बहुत बुरा परिणाम हुआ । खाली स्थानोंको पूरा करनेके लिए जिन लोगोंकी नियुक्ति हुई उनके आनेसे गवर्नरके विरोधियोंकी सख्या घट गयी । परिस्थिति ऐसी हो गयी कि गवर्नरके लिए कोई भी कार्य करना प्रायः असंभव हो गया । इनके विरोधी दलकी यह नीति थी कि कांसिलमें

गवर्नरके प्रत्येक प्रस्तावका—चाहे वह अच्छा हो या बुरा—विरोध किया जाय । वे लोग जो चाहते थे बहुमतसे क बैठते थे ।

जो लोग नियुक्त हुए थे उनमें मिस्टर एलिस भी थे यह पटनेके अँगरेजी शासकके पदपर नियुक्त हुए थे एलिस गवर्नरके कट्टर विरोधियोंमें थे । इनके कारण आ चलकर बहुतसे बसेडे हुए । जानबूझ कर यह ऐसे काम करनेपर तुले हुए थे, जिनसे नवाबके शासनकार्यमें विघ्न हो और उन्हें नीचा देखना पड़े । एक अँगरेज इतिहास-लेखकने इनके विषयमें लिखा है कि "यह मूल और मोटी अक्लके आदमी थे । इनका कोई भी निश्चित सिद्धान्त नहीं था । यह बडे ही दुर्भाग्यका विषय था कि पटनेके शासनकार्यपर इनकी नियुक्ति हुई ।"\*

पटना पहुँचनेके कुछ ही दिनों बाद एलिसने नवाबके साथ छेड़खानी शुरू कर दी । इन्हें पता लगा कि दो अँगरेजों भागकर मुगेरके किलेमें शरण ली है । एसिलने पटनेमें स्थित नवाबके नायबको पत्र लिखा कि तलाशीके निमित्त किलेके अफसरके नाम परवाना दिया जाय । नायबने इस बातसे इनकार किया । सिपाहियोंकी तीन कम्पनियोंके लेकर मिस्टर एलिस मुगेर पहुँचे और वहाँ शहरसे बाहर ही पडाव डाला । वहाँसे उन्होंने एक घुडसवार किलेके तलाशीके लिए भेजा । जो अफसर किलेकी रक्षा थोडेसे सिपाहियोंके साथ कर रहा था उसने घुडसवारको आगे

\* Mr Ellis was headstrong and foolish as well as unprincipled. It was a great misfortune that owing to the dismissal of Mr. McGuire by the Company for joining in an insubordinate letter to them Mr. Ellis became the chief of Patna.—Beveridge<sup>o</sup>

बढ़नेसे रोका । उसके न माननेपर उसने घोड़ेकी लगाम पकड़ ली । इसपर घुड़सवारने तलवार खींची । दुर्गरक्षकने उसके हाथसे तलवार छीन ली । जब एलिसको उक्त घटनाका पता लगा तो उन्होंने दुर्गरक्षककी गिरफ्तारीके लिए थोड़ेसे सिपाहियोंको भेजा । नवाब मीर कासिमके दीवान राज-दुर्लभने जब यह सुना तो उसने दुर्गरक्षकको और गिरफ्तारीके लिए आये हुए सिपाहियोंको अपने पास बुलाया और मधुर भाषण द्वारा उन्हें शान्त करनेका यत्न किया । परन्तु सिपाही सन्तुष्ट नहीं हुए । फाटकपर बैठनेका तो आशा मिली नहीं, अतः वे राहमें ही घेरा डाले रहे । एलिसको समझानेका बहुत यत्न किया गया, परन्तु वह तो फसाद उड़ा करना चाहते ही थे । उन्होंने जवाब दिया "जब तक दुर्गरक्षक न लाया जायगा मैं सिपाहियोंको वापस न बुलाऊंगा" । लेकिन नवाब अपने निर्दोष और कर्तव्य परायण नौकरको एलिसके चंगुलमें क्यों छोड़ते ! इधर एलिस भी भगड़ा मोल लेनेपर तुल गये ।

नवाब मीर कासिमको एलिसका यह हस्तक्षेप बहुत बुरा लगा । गवर्नरको उन्होंने एक पत्र लिखा और मिस्टर एलिसके कार्यपर असन्तोष प्रगट किया । पत्रका आशय इस प्रकार है—“एलिसने बहुतसे सिपाहियों को लाकर मुग़ेरके किलेपर आक्रमण करना निश्चय किया है । जो सन्धि हम लोगोंके बीच स्थापित हुई थी, हमने सर्वदा उसके अनुसार ही कार्य करनेकी चेष्टा की है । परन्तु मालूम नहीं क्यों आप लोग हमारे किलों और नौकरोंके विरुद्ध ज्यादती करनेपर तुले हुए हैं । हमारे विरुद्ध सेना भेजनेकी क्या जरूरत थी ? एलिसके द्वारा




हमारा हुकूमतपर जो धर्या पहुँचा है उसका चर करना असम्भव है ।” इसी भांति तीन महीनेत आपसमें वादविवाद चलता रहा । इस बीचमें एलिस किलेकी तलाशीकी आज्ञा नहीं मिली परन्तु वह इन ती महीने सेनाके साथ मुगेरमें पड़े रहे ।

अन्तमें यह तै हुआ कि किलेकी तलाशी हो, पर सिपाहियोंको किलेमें जानेकी आज्ञा न मिल सकी । गवर्नर मिस्टर आइरनसाइडको\* उक्त कार्यके लिए नियुक्त किया आइरनसाइडने ऐसे एक सारजण्ट और दो सिपाहियों अपने साथ लेलिया जो किलेके कोने कोनेसं परिचित थे इन लोगोंने चारों तरफ छानवीन की, परन्तु कहीं कुछ मिला । आइरनसाइडने इस तलाशीका वर्णन स्वयं कि है । उन्होंने एक पत्र गवर्नरके पास मुगेरसे लिखा थ जिसमें तलाशका पूरा व्यौरा दिया था । उन्हाके शब्दों जाँचका विवरण यहाँपर दिया जाता है । वह लिखते कि “हम लोगोंने तमाम किला छान डाला लेकिन कहीं कु न मिल सका । केवल एक फ्रासीसी देखनेमें आया उसके पैर टूटे हुए थे । फ्रासीसी छ माससे उस किले चन्द या । भागे हुए दोनों अंगरेजोंके सम्बन्धमें मे उससे बहुत पूँछपाछ की, इनाम देनेका भी वादा किय परन्तु उसने साफ साफ कहा कि मैं जगसे यहाँ आया मेने किसीको नहीं देखा है ।”

कुछ इतिहासलेखकोंने एलिसको निर्दोष प्रमाण करनेका यत्न किया है । थोरण्टन लिखते हैं कि सभ तौन मासतक जब मिस्टर एलिस मुंगेरमे बेकार बैठे हु

थे, तब उन दोनों अंगरेजोंको भागनेका मौका मिल गया हो । \* किन्तु यदि ऐसा होता तो उस फ्रांसीसी कैदीको जो वहाँ छः माससे बन्द था इस बातका पता अवश्य होता । मिस्टर आइरनसाइड लिखते हैं “वह मनुष्य अपने छुटकारेके लिए बहुत चिन्तित है । मैंने छुटकारा दिलाने तथा धन देनेका भी वादा किया । यदि सचमुच कोई अंगरेज यहाँ छिपे रहते तो रिहाई और धनके प्रलोभनसे वह वास्तविक बातें अवश्य बतला देता” । आइरनसाइडके इस कथनसे मिस्टर थोरण्टनका उक्त सन्देह निर्मूल प्रमाणित होता है ।

### १७—अंगरेजोंके व्यापारका एक दृश्य ।

 म पहिले बतला हो चुके हैं कि कम्पनीको बङ्गालमें निशुल्क व्यापार करनेके निमित्त जो शाही फरमान प्राप्त हुआ था उसका आशय केवल यही था कि बङ्गालसे जो चीजें कम्पनी विदेश भेजे या विदेशसे जो वस्तुएँ यहाँ आवें उनपर उससे शुल्क न लिया जाय । फरमानका मतलब यह कदापि न था कि बङ्गाल प्रान्तके भीतर यहाँकी ही चीजोंमें कम्पनी निशुल्क व्यापार कर सके । विदेशसे भी व्यवसाय करनेका अधिकार केवल कम्पनीको ही था, हर अंगरेजको निजी ढङ्गपर तिजारत

करनेका अधिकार नहीं था । कम्पनीके मालके साथ कलकत्तेके प्रेसीडेण्ट द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एक दस्तक सर्वदा रहता था । उसे ही दिखाकर कम्पनीका माल आता जाता था । बहुत दिनोंतक उस नियमका पालन होता रहा किन्तु नवाब अलीवर्दीके समयमें लुक-छिप कर अंगरेजोंने फरमानका अनुचित लाभ उठाना आरम्भ कर दिया । दस्तक दिखाकर, कम्पनीका नाम लेकर, ये लोग निजी तौरपर भी तिजारत करने लगे । पर सिराजुद्दौलाके समयमें इनकी दाल न गली । वह इनकी धूर्तताको भली-भाँति पहचानते थे । यही कारण है कि सिराज इनकी आँखोंके कण्टक घने हुए थे । जब वभी नवाब सिराजुद्दौलाको मालूम होता कि अंगरेज बनिये फरमानका दुरुपयोग कर रहे हैं तो वह उन्हें उपयुक्त दण्ड देते थे । उन्हें सर्वदा इस बातका ख्याल रहता था कि नियमके प्रतिकूल कोई कार्रवाई न हो ।

पलासी-पड्यन्नने अवस्थामें एक विचित्र उलट-फेर उत्पन्न कर दिया । ईस्ट इण्डिया कम्पनीके नौकरोंने निजी ढङ्गपर बङ्गाल प्रान्तके भीतर भी निःशुल्क व्यापार करना आरम्भ कर दिया । सिराजुद्दौलाके पश्चात् मीर जाफर एक अयोग्य शासक हुए । इनके रास्तेमें कोई रुकावट न रही । अंगरेज बगाल प्रान्तके भीतर निःशुल्क व्यापार करना अपना अधिकार समझने लगे । वास्तवमें मीर जाफरके साथ अंगरेजोंकी जो सन्धि हुई उससे व्यापारके सम्बन्धमें उन्हें कोई नया अधिकार नहीं मिला था । परन्तु इस समय बगालमें उनकी धाक जम गयी थी । वे अब अपनी बढ़ती हुई शक्तिका दुरुपयोग करने लगे । वे उन

वस्तुओंका भी व्यापार करने लगे जिनका व्यापार करनेकी पहले उन्हें मनाही थी ।” ❀

अंगरेजोंने हर जगह अपने गुमाश्ते नियत कर दिये थे । इन्हीं लोगोंके द्वारा उनका व्यापार होता था । ये गुमाश्ते प्रजापर मनमाना अत्याचार करते थे । हर ग्राम और परगनेमें ये लोग नमक, पान, धी, चावल, घाँस मछली, चीनी, तम्बाकू, अफीम इत्यादि बहुत सी चीजें खरीदते तथा बेचते थे । ये बलपूर्वक केवल चौथाई मूल्य देकर तमाम वस्तुएँ ले लेते और पाँचगुना मूल्य वसूल करते थे । जो लोग इनसे खरीदना अथवा इनके हाथ बेचना नहीं चाहते थे उन्हें ये कोड़ोंसे मारते थे और कैद भी कर लेते थे । इन गुमाशतोंके दलाल होते थे । दलालोंके द्वारा ये लोग हर गाँवके जुलाहोंको बुलाते थे । उनसे जबरदस्ती शर्तनामा लिखवा कर मन माने मूल्यपर कपडा लिया जाता था । यदि वे शर्तनामा लिखनेमें तनिक भी आनाकानी करते तो उन्हें रस्सीसे बाँध कर कोड़ोंकी मार दी जाती थी । जुलाहोंका एक रजिस्ट्रर रहता था । ये अंगरेजोंके सिवा और किसीके हाथ कपडा नहीं बेच सकते थे । और स्थानोंमें जिस भाव कपडा विकता था उससे आधे दामपर इन्हें गुमाशतोंके हाथ बेचना पडता था । इस प्रकार विचारे जुलाहोंका भी सत्यानाश हो गया । अत्याचारोंसे पीडित-

\*With respect to trade no new privileges were asked of Mir Jafer. However our influence over the country was no sooner felt than many innovations were practised by the Company's servants. They began to trade in articles which were before prohibited—Narrative of Vansittar

होकर शहरोंको छोड़ छोड़ कर ये लोग भागने लगे । जिन शहरोंमें पहले कलाकौशल उन्नत अवस्थापर था वे निर्जन हो चले । पहले न्यायके लिए कचहरियाँ थीं । परन्तु अब यही गुमाश्ते न्यायाधीश बना दिये गये । मि० वैरेलस्ट लिखते हैं "विना शुल्क व्यापार करना अंगरेजोंने शुरू कर दिया था । अगणित अत्याचार होने लगे थे । प्रजापर अत्याचार कर यदि गुमाश्तों या कपनोंके एजेण्टोंको सन्तोष न होता या तो वे नवाब के अफसरोंको भी कैद कर लेते थे ।"\*

केवल अंगरेज ही इस अनुचित ढंगसे व्यापार नहीं करते थे, कई देशों व्यापारी भी इन लोगोंसे मिल गये थे । ये लोग कपनोंके एजेण्टोंको रुपया दे देते थे । उसके बदलेमें उन्हें अंगरेजों दस्तक मिल जाता था । उन्हीं दस्तकोंको दिखाकर और अंगरेजों भंडोंको अपनी नावोंपर लगाकर ये लोग भी विना शुल्क व्यापार करने लगे थे । नवाबकी प्रति वर्ष पच्चीस लाख रुपयेंका घाटा होने लगा ।

अंगरेजोंकी इन मनमानी कार्रवाइयोंका बुरा प्रभाव खेतीपर भी पडा । सर्वसाधारण प्राय खेती भी किया करते थे और अन्य वस्तुएँ भी उत्पन्न करते थे । गुमाश्ते उन्हें तड़क करने लगे । अपनी इच्छाके विरुद्ध अब उन्हें अपना अधिकतर समय गुमाश्तोंकी जरूरतकी चीजे उत्पन्न

---

\* A trade was carried on without payment of duties in the prosecution of which infinite oppressions were committed English agents or Gumashtas not content with injuring the people trampled on the authority of the Government binding and punishing the Navabs officers—Verelst (from the Economic History of British India by Dutta P 20.)

करनेमें ही व्यतीत करना पडता था । इसलिये येतीकी हालत बिगडने लगी । लोग उसकी तरफ अधिक ध्यान न दे सके । जमीनसे मालगुजारी तकका मिलना कठिन हो गया । तहसीलदार यदि मालगुजारीके लिए तह करते तो इन्हें अपने बच्चोंको बेचकर उसे पूरा करना पडता था ।

अंगरेजोंकी स्वार्थपरता तथा उनके मनमाने अत्याचारका परिणाम बहुत घुरा हुआ । कलाकोशलका नाश हो गया । जुलाहोंने अपने प्राण बचानेके लिए अपनी अंगुलियाँ काट डालीं । देशी व्यापारी तबाह हो गये । एक तरफ तो अंगरेज कुछ भी शुल्क नहीं देते थे, दूसरी तरफ देशी व्यापारियोंको लगभग दस फी सदी कर देना पडता था । अत यह लोग अंगरेजोंके मुकाबलेमें नहीं ठहर सके । इन्हें व्यापार बन्द करना पडा । सैर उल मुताखरीनके लेखक सैयद गुलाम मुसैनने अंगरेजोंकी बड़ी तारीफ की है । परन्तु व्यापार सम्बन्धी उनके इस स्वार्थपूर्ण व्यवहारके सम्बन्धमें उसे भी विवश होकर यह लिखना पडा है कि 'बगालकी प्रजाकी भलाईकी तरफसे ये लोग इतने उदासीन है कि उनके प्रभावक्षेत्रके भीतर रहनेवाले लोग त्राहि त्राहि पुकार रहे हैं । प्रजा निर्धनतासे पीडित हो रही है । हे परमात्मा, आओ, और अपने सेवकोंकी रक्षा करो । उन्हें अन्यायियोंके पंजेसे छुटकारा दिलाओ" \*

---

\* *But such is the little regard which they show to the people of these kingdoms and such is their apathy and indifference to their welfare that the people under their dominion groan everywhere and are reduced to poverty and 'distress 'O God, come to the assistance of thy afflicted servants and deliver them from the oppressions they suffer ' Sayer ul Mutakherin.*

मिस्टर हेस्टिंग्जने बड़े मार्मिक शब्दोंमें उस समयकी अवस्थाका वर्णन किया है । वह लिखते हैं कि "जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ वहाँ अंगरेजी झण्डेको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । नदीमें मैंने कोई भी ऐसी नाव नहीं देखी जिसपर अंगरेजी झण्डा न फहराता हो । मेरी यह धारणा है कि इस तरहकी कार्रवाईसे नवाबकी आमदनीको कोई लाभ नहीं हो सकता । देशमें शान्ति भी नहीं रह सकती और इससे हमारे राष्ट्रकी इज्जत भी कायम नहीं रह सकती । इसके प्रतिकूल इससे तीनोंकी हानि ही होती है । राहमें कुछ अंगरेजी सिपाहियोंकी क्रूरता और अत्याचारपूर्ण व्यवहार देखकर मुझे मालूम हो गया कि इनपर कुछ दवाव न होनेसे ये किस तरहकी मनमानी कार्रवाई करते हैं । राहमें उनके विरुद्ध बहुतोंने शिकायत की । हम लोगोंके पहुँचने पर हमारी ओरसे अत्याचार होनेके भयसे, बहुतसी सरायें और शहर लोगोंके भाग जानेके कारण विल्कुल खाली हो गये" । \*

---

\* I have been surprised to meet with several English flags flying in places which I have passed and on the river I donot believe I passed a boat without one By whatever title they have been assumed I am sure their frequency can bode no good to the nobob's revenues, the quiet of the country or the honour of our nation, but evidently tends to lessen each of them A party of sepoys who were on the march before us afforded sufficient proof of the rapacious and insolent spirit of those people, where they are left to their own discretion Many complaints were made me on the road against them and most of the towns and serais were deserted at our approach and the shops shut up from the apprehension of the same treatment from us—Hastings's letter, dated 25th April 1762

श्रीरमेशचन्द्र दत्त लिखते हैं कि "बङ्गालकी जनतापर इससे भी पहले अत्याचार हुए थे । परन्तु उनपर इतना-अधिक व्यापक अत्याचार कभी भी नहीं किया गया था जिसका कुप्रभाव हर बाजार तथा हर जुलाहेपर पडा हो । उनके व्यापार, उद्योग और जीवनपर कभी कुठाराघात नहीं किया गया था । कलाकौशलका स्रोत ही बन्द कर दिया गया, उनके धनोत्पत्तिके साधन चूस लिये गये" ।\*

प्राय सभी अंगरेज इतिहास लेखकोंने अपने देशवासियोंके इस क्रूरतापूर्ण व्यवहारपर असन्तोष और लज्जा प्रगट की है । मैलिस्न लिखते हैं कि "१२० वर्ष पहले अंगरेजोंने एक देशी शासकके साथ जिस कुटिल नीतिका अवलम्बन किया था उसका हाल पढकर प्रत्येक सच्चे अंगरेजका मुख लज्जासे अवनत हो जायगा, । उस शासकका अपराध उनके सामने केवल यही था कि अंगरेजोंके अत्याचारसे वह अपनी प्रजाकी रक्षा करना चाहता था । किसी भी राष्ट्रके इतिहासमें ऐसे नीच, लज्जाजनक और अयोग्य व्यवहारका वर्णन नहीं मिलता ।"†

\* The people of Bengal had been used to tyranny but had never lived under an oppression so far reaching in its effects extending to every village market and every manufacturer's loom. They had never suffered from a system which touched their trades their occupations their lives so closely. The springs of their industry were stopped the sources of their wealth were dried up—R. C. Dutt's Early British Rule in India, p. 27

† "The cheek of every honest Englishman must burn with shame as he reads the account of the policy adopted by the leading men amongst their country men in India 120 years ago towards the native ruler. Malletson's Decisive Battles of India p. 136



इसके विपरीत कुछ सकुचित हृदय इतिहास लेखकोंने अंगरेज वणिकोंकी इस निर्लज्ज नीतिका समर्थन भी किया है । वहीलर साहयका कहना है कि "ये सन्धियाँ ऐसे समयमें हुई थीं जब कि देशमें एक बड़ी क्रान्ति मची हुई थी । अंगरेज सब कुछ माँग सकते थे और किसीको इनकार करनेका हक नहीं था । इतना समय ही नहीं था कि सन्धिकी हर शर्तकी व्याख्या हो सके । निशुल्क व्यापारका मतलब हर प्रकारके व्यापारसे था ।"\* किन्तु फिर भी जिन लोगोंने नवाबके साथ सन्धि की थी उनका कथन इस सम्बन्धमें अधिक विचारणीय है । मिस्टर हेस्टिंग्स और वानसाटार्टने मीर कासिमके साथ सन्धि करनेमें मुख्य भाग लिया था । उन्होंने साफ साफ कहा है कि सन्धिके द्वारा अंगरेजोंको व्यापारके सम्बन्धमें कोई नये अधिकार प्राप्त नहीं हुए । अपने देशवासियोंके अन्यायोंको छिपानेके अभिप्रायसे वहीलर महाशय जो चाहें कह सकते हैं परन्तु इतिहास तो यहाँ बतलाता है—और हेस्टिंग्स तथा वानसाटार्टके पत्र इस बातके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं—कि अंगरेज वणिकोंने जिस नीतिका अनुसरण किया वह सर्वथा निन्दनीय थी ।

---

\* The plain truth was that the so called treaties were mere agreements patched up on the eve of a revolution. The English were in a position to demand anything the expectant could refuse nothing. The term 'duty free' meant any thing and everything — Wheeler's Early Records of British India p 316

## १८—व्यापार सम्बन्धी भूगडोका सूत्रपात ।



स समय मीर कासिम नवाब पदपर अभिपिक हुए ये उसी समयसे उन्हें अंगरेज वणिगोंकी कुरीतियों और उनके मनमाने अत्याचारोंको देखनेका असर प्राप्त हो रहा था । मीर जाफरकी शिथिलतासे लाभ उठाकर बगालकी जनतापर अंगरेजोंने जो क्रूरताएँ की थीं, स्वार्थ-सिद्धिके विचारसे प्रेरित होकर सरकारी मालगुजारीको जो क्षति पहुँचाया थी, उनका मीर कासिमको प्रत्यक्ष ज्ञान होगया । वह तो बगालकी शोचनीय अवस्थाको सुधारनेके निमित्त ही नवाब हुए थे । अतः वह इस बातको चुपचाप कैसे देख सकते थे कि बाहरसे आये हुए व्यापारी अधिक सुविधाएँ प्राप्त कर इस देशके ही व्यापारियोंको व्यापारिक प्रतियोगितामें परास्त करें । मीर कासिम मीर जाफरकी तरह अंगरेजोंके इशारेपर नाचनेवाले न थे । वह पूरे स्वभिमानी थे । उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जिस तरह धन पड़ेगा उस तरह नगालमें बसे हुए अंगरेजोंके अत्याचारोंसे प्रजाकी रक्षा करूंगा ।

जबतक देशमें अराजकता रही मीर कासिम इस सम्बन्धमें कुछ भी न कर सके । जब बादशाह दिल्लीको चले गये, रामनारायणका मामला तै होगया और जमींदारोंकी शक्तिका पूर्णतः दमन होगया तो नवाबका ध्यान प्रजाके कष्टों और अंगरेज वणिगोंके कुव्यवहारोंकी ओर आकर्षित

हुआ । इस समय पटनेमें विहार प्रान्तके अंगरेजी शासक मिस्टर एलिस थे । नवाब मीर कासिमने सुना कि पुर्निया फैक्टरीके अंगरेजी एजेंट मिस्टर जार्ज ग्रेने बहुतसे सिपाहियोंको हर स्थानपर भेजा है कि वे फैक्ट्रिया स्थापित करें और लोगोंसे जबरदस्ती गल्ला खरीदें । इन सिपाहियोंने नवाबके एक पेशकार हीरामनको कैद भी कर लिया था । जब नवाबके कानोंमें यह बात पडी तो उन्होंने पत्र द्वारा मिस्टर एलिसको उक्त घटनाओंसे परिचित किया और लिखा कि जो सन्धि हम लोगोंके बीच हुई है, ये कार्रवाइयाँ उसके प्रतिकूल हैं ।

एलिसने उक्त पत्रका जो जवाब दिया उससे पता चलता है कि नवाबके प्रति उनके हृदयमें कितने अनादर और घृणाका भाव था । उनके पत्रका आशय यह है—“कम्पनीके गुमाशतोंको हर स्थानपर व्यापार करनेका अधिकार प्राप्त है । आप पुर्नियामें स्थित अपने अफसर शेरअलीको लिख भेजिये कि वह अंगरेजी गुमाशतोंकी कोई भी वस्तु कहीं न रोके । इसी आशयकी आज्ञा शेरअली अपने अधीन अन्य अफसरोंको भी दे दें ।” \* मिस्टर एलिसने जिस समय यह पत्र लिखा था, उस समय शायद वह भूल गये थे कि हम यह पत्र अपने शासक प्रान्तके नवाबको लिख रहे हैं । वह तो समझे बैठे थे कि नवाब अंगरेजोंके आश्रित, उनकी इच्छाओंको पूर्ण करनेके निमित्त, दलाल मात्र

\* The Company's Gumashtas have the free liberty of trading everywhere - - it is needless to enumerate particulars Write a Parwana to Sher Ali Khan to forbid his officers to stop any goods of the Gumashtas in Purneah'

' ' ' Extracts from Ellis's letter to the Navab Mir Kassim.

है । बिहार प्रान्तका अधीश्वर तो वह अपनेको ही समझ रहे थे ।

मिस्टर एलिस यह पत्र लिखकर ही सन्तुष्ट नहीं हुए । नवाबके आदेशानुसार, पुर्नियामें सिपाहियों द्वारा किये गये अत्याचारोंको रोकना तो दूर रहा, उन्होंने थोड़े ही दिनों बाद एक बार फिर अपने दुष्ट स्वभावका परिचय दिया । नवाबका एक अफसर कहीं शोरा परीदते पाया गया । एलिसने उसे तत्काल पकडवा भंगाया और पैरोंमें वेडियाँ डाल कर कलकत्ता भेज दिया । कलकत्ता कौंसिलकी बैठक हुई और इस विषयपर वादविवाद हुआ कि उक्त अफसरके साथ क्या व्यवहार किया जाय । कुछ लोगोंकी राय थी कि उसके कोड़ोंसे मारा जाय । जौनस्टन की इच्छा थी कि उसके कान काट डाले जायें । किन्तु कौंसिलके अन्य सदस्योंने थोड़ी बुद्धिमानीसे काम लिया । यह तै हुआ कि वह अफसर नवाबके पास मुगेर भेज दिया जाय और उनमे यह प्रार्थना की जाय कि उसे वह उचित दण्ड दें । इसके थोड़े दिन पश्चात् मिस्टर एलिस किलेकी तलाशीके निमित्त सेना लेकर मुगेर पहुचे जिसका पूरा विवरण पहिले दिया ही जा चुका है ।

नवाब मिस्टर एलिसके उत्पातोंसे तर्क आगये । कलकत्तेके गवर्नर मिस्टर वानसीटार्टके पास उन्होंने एक पत्र लिखा और एलिसके दुष्ट व्यवहारोंपर असन्तोष प्रगट किया । पत्रसे नवाबके हृदयकी उद्विग्नता साफ साफ प्रगट होती है । नवाब लिखते हैं कि “हम लोगोंके बीच जो सन्धि हुई थी मने सर्जदा उसका पालन किया है । परन्तु आप लोग सन्धिके विरुद्ध मेरे किलोंपर क्यों

‘तरहके निन्दित कार्य्य केवल हमारे ही आदमी नहीं करते’। अपनेको हम लोगोंका सिपाही या गुमास्ता बतला कर और भी बहुतेरे आदमी निःशुल्क व्यापार कर रहे हैं । × × मेरी धारणा है कि इस तरहकी कार्रवाइयोंसे देशमें शान्ति स्थापित नहीं हो सकती और न नवाबके शासन-प्रबन्धमें सुविधा हो सकती है । इससे हमारे राष्ट्रकी मर्यादाका भी घना रहना असम्भव है ।” \*

यह बात निःसकोच माननी पड़ेगी कि उस समय वानसीटार्टके अतिरिक्त केवल हेस्टिंग्ज ही कौंसिलके एक ऐसे सदस्य थे जिन्हें अपने कर्तव्यका कुछ खयाल था, जो आँखें खोल कर कुल बातें देखते थे और उचित कार्य्यका समर्थन तथा अनुचित कार्य्यका विरोध करनेके लिए तैयार रहते थे ।

नवाब मिस्टर हेस्टिंग्जसे सहसराममें मिले । नवाबने हर प्रकारसे उनका सत्कार किया, उनके आरामके लिए सब तरहकी सुविधाओंका प्रबन्ध किया । एलिस पन्द्रह मीलकी दूरीपर सिगिया नामके स्थानपर ठहरे हुए थे । वह हेस्टिंग्जसे मिलने नहीं आये । सहसराम पहुँच कर मिस्टर हेस्टिंग्जने एलिसको एक पत्र लिखा । पत्रका आशय इस प्रकार है—“आपको पढ़नेमें न देख कर मुझे बड़ी निराशा हुई । आप इस बातसे अनभिज्ञ नहीं रह सकते कि मैं कौंसिलकी तरफसे नवाब और कम्पनीके नौकरोंमें शान्ति स्थापनार्थ आया हुआ हूँ । मुझे आशा थी कि यहाँपर आपसे मिलकर मुझे उन सारी बातोंका ज्ञान होगा जिनके कारण आपके और नवाबके

\*Hasting's letter to Mr Vansittart dated 25th April, 1762

चीच भगडा है और हम दोनों मिलकर इसका कुछ उपाय सांचेंगे ।”

मिस्टर हेस्टिंग्स समझते थे कि इस पत्रको देख कर एलिस लज्जित हांगे और तत्काल आकर मिलेंगे । परन्तु एलिससे तो इस तरहकी आशा रखना ही बेकार था । इन्होंने साफ साफ लिख भेजा कि “इतनी गर्मीमें पन्द्रह मील जानेका कष्ट में सहन नहीं कर सकता ।”<sup>६</sup> एलिसकी गति देखकर हर निष्पक्ष इतिहासज्ञको यह मानना पड़ेगा कि यह भगडा करनेपर ही तुले हुए थे । शान्ति तो इन्हें स्वीकार ही न थी ।

यथासमय हेस्टिंग्सने नवाबसे पूछा कि आपको किन बातोंकी शिकायत है । नवाबने जो कुछ जवाब दिया उससे यह स्पष्ट है कि वह शान्तिके लिए बड़े उत्सुक थे । नवाबके कथनका सारांश यह है—“यदि यह बात प्रमाणित हो जाय कि हम लोगोंके बीच मेरे किसी नौकरने असन्तोष फैलानेका यत्न किया है तो मैं उसका सिर काटनेको तैयार हूँ । परन्तु यदि आपको अभी तक यह बात मालूम नहीं हुई कि आप लोगोंमें कौन ऐसा आदमी है जो भगडा पैदा करना चाहता है तो मैं उसका नाम बतलाना चाहता हूँ । वह मिस्टर एलिस ह । एलिसने हमारे नौकरोंपर जो जुल्म किया है और मेरे अधिकारपर जिस प्रकार यह कुठाराघात कर रहे ह उससे मेरे शत्रुओंका साहस बढ गया है । इनके कारण शुजाउद्दौलाके

---

He wrote that he could not be expected to pay him the complement of travelling such a distance in the hot weather

तरहके निन्दित कार्य केवल हमारे ही आदमी नहीं करते । अपनेको हम लोगोंका सिपाही या गुमास्ता बतला कर और भी बहुतेरे आदमी निःशुल्क व्यापार कर रहे हैं । × × मेरी धारणा है कि इस तरहकी कार्रवाइयोंसे देशमें शान्ति स्थापित नहीं हो सकती और न नवाबके शासन-प्रबन्धमें सुविधा हो सकती है । इससे हमारे राष्ट्रकी मर्यादाका भी बना रहना असम्भव है ।” \*

यह बात नि.सकोच माननी पड़ेगी कि उस समय घानसीटार्टके अतिरिक्त केवल हेस्टिंग्ज ही कौंसिलके एक ऐसे सदस्य थे जिन्हें अपने कर्तव्यका कुछ ख्याल था, जो अॉपें खोल कर कुल बातें देखते थे और उचित कार्यका समर्थन तथा अनुचित कार्यका विरोध करनेके लिए तैयार रहते थे ।

नवाब मिस्टर हेस्टिंग्जसे सहसराममें मिले । नवाबने हर प्रकारसे उनका सत्कार किया, उनके आरामके लिए सब तरहकी सुविधाओंका प्रबन्ध किया । एलिस पन्द्रह मीलकी दूरीपर सिंगिया नामके स्थानपर ठहरे हुए थे । वह हेस्टिंग्जसे मिलने नहीं आये । सहसराम पहुँच कर मिस्टर हेस्टिंग्जने एलिसको एक पत्र लिखा । पत्रका आशय इस प्रकार है— “आपको पटनेमें न देख कर मुझे बड़ी निराशा हुई । आप इस बातसे अनभिज्ञ नहीं रह सकते कि मैं कौंसिलकी तरफसे नवाब और कम्पनीके नौकरोंमें शान्ति स्थापनार्थ आया हुआ हूँ । मुझे आशा थी कि यहाँपर आपसे मिलकर मुझे उन बातोंका ज्ञान होगा जिनके कारण आपके और

धीच भगडा है और हम दोनों मिलकर इसका कुछ उपाय साचेंगे ।”

मिस्टर हेस्टिंग्स समझते थे कि इस पत्रको देख कर एलिस लज्जित होंगे और तत्काल आकर मिलेंगे । परन्तु एलिससे तो इस तरहकी आशा रखना ही बेकार था । इन्होंने साफ साफ लिख भेजा कि “इतनी गर्मीमें पन्द्रह मील जानेका कष्ट मैं सहन नहीं कर सकता ।”<sup>५</sup> एलिसकी गति देखकर हर निष्पक्ष इतिहासज्ञको यह मानना पड़ेगा कि यह भगडा करनेपर ही तुले हुए थे । शान्ति तो इन्हें स्वीकार ही न थी ।

यथासमय हेस्टिंग्सने नवाबसे पूछा कि आपको किन घातोंकी शिकायत है । नवाबने जो कुछ जवाब दिया उससे यह स्पष्ट है कि वह शान्तिके लिए बड़े उत्सुक थे । नवाबके कथनका सारांश यह है—“यदि यह बात प्रमाणित हो जाय कि हम लोगोंके बीच मेरे किसी नोकरने असन्तोष फैलानेका यत्न किया है तो मैं उसका सिर काटनेको तैयार हूँ । परन्तु यदि आपको अभी तक यह बात मालूम नहीं हुई कि आप लोगोंमें कोन ऐसा आदमी है जो भगडा पैदा करना चाहता है तो मैं उसका नाम बतलाना चाहता हूँ । वह मिस्टर एलिस है । एलिसने हमारे नौकरोंपर जो जुल्म किया है और मेरे अधिकारपर जिस प्रकार यह कुठाराघात कर रहे हैं उससे मेरे शत्रुओंका साहस बढ गया है । इनके कारण शुजाउद्दौलाके

---

He wrote that he could not be expected to pay him the complement of travelling such a distance in the hot weather



दरबारमें मेरे शासनके विरुद्ध ऐसी बातें फैल गयी हैं जो मेरे प्रबन्धके लिए बड़ी हानिकारक हैं ।”

कुछ ही दिनोंमें हेस्टिंग्सको भालूम हो गया कि जो बातें नवाबने उनसे कही थीं वे अक्षरशः सत्य हैं । गवर्नर वानसीटार्टको एक पत्रमें उन्होंने लिखा कि “ससार देख रहा है कि नवाबके अधिकारकी क्या भद्द हो रही है, उनके अफसर कैद कर लिये जाते हैं और उनके किलोंके विरुद्ध सिपाही भेजे जा रहे हैं । नवाबसे कहा जाता है कि बिहारका अंगरेजी अफसर एलिस उन्हें नवाब नहीं मानता । इसका परिणाम केवल युद्ध होगा ।” इसी आशापर नवाबके शत्रुओंको भी उत्तेजना मिलती है । नवाबपर एलिस द्वारा की गयी ज्यादतियोंको देखकर उनके सन्नपर हेस्टिंग्सको आश्चर्य हुआ था । वानसीटार्टको वह लिखते हैं कि “यदि मैं नवाबके स्थानपर होता तो इस बातके निश्चय करनेमें मुझे तनिक भी हिचकिचाहट न होती कि अत्याचारोंसे अपनी प्रजाकी किस प्रकार रक्षा करें ।” \*

गवर्नर वानसीटार्टके आदेशानुसार हेस्टिंग्सने व्यापार सम्बन्धी कठिनाइयोंको दूर करनेके निमित्त निम्नलिखित उपाय नवाबके सामने पेश किये—

( १ ) हर चौकीके दारोगाको यह आज्ञा भेजी जाय कि वह बिना दस्तक देये किसी भी अंगरेजी नावको न जाने दे ।

( २ ) जिन नावोंपर केवल अंगरेजी भण्डा हो परंतु दस्तक न हो वे रोक ली जायें । अगर सामान किसी अंगरेजका हो तो सबसे निकटकी अंगरेजी फैक्टरीके अफसरको

इसकी सूचना दी जाय । यदि सामान किसी सरकारी प्रजाका हो तो इस अवस्थामें नवाय जो चाहें कर सकते हैं ।

( ३ ) हर सरकारी अफसर और फौजदारको यह सूचना दी जाय कि अंगरेजी गुमाशतोंको अत्याचार करने तथा सरकारी प्रबन्धमें हस्तक्षेप करनेसे रोकें और यदि कोई गुमाशता आनाकानी करे तो उसके साथ बलका प्रयोग करें ।

( ४ ) कलकत्तेसे यह आज्ञा हर जगह भेजी गयी है कि अंगरेजी गुमाशते या फैक्टरीके नौकर नवायके शासन प्रबन्धमें बाधा न डालें । इसी प्रकार सरकारी अफसरोंको भी आज्ञा दी जाय कि वे कम्पनीके व्यापारमें विघ्न न डालें ।

( ५ ) कम्पनीके गुमाशतोंको बहादारा, खेत या किसी प्रकारकी सरकारी नौकरी न दी जाय ।

( ६ ) केवल कम्पनीके गुमाशतोंको अंगरेजी भाण्डे रखनेका अधिकार होगा ।

( ७ ) वार्डकी आज्ञाके बिना कोई यूरोपियन नौकर नहीं रखा जा सकेगा । नौकरी पानेके पहले हर यूरोपियनको इस बातकी जमानत देनी होगी कि किसी सरकारी प्रबन्धमें वह हस्तक्षेप न करेगा ।

नवायने ये बातें मान लीं । साथ ही उन्होंने यह शर्त भी जोड़नेकी इच्छा प्रगट की कि गुमाशतोंको सरकारी प्रजासे उनकी इच्छाके विरुद्ध कोई वस्तु परीदने या उनके हाथ बेचनेका अधिकार न होगा और प्रजा मात्रको यह स्वतन्त्रता रहेगी कि जो वस्तु जहाँसे चाहे खरीदे या जहाँ चाहे वहाँ बेचे ।

नवाबने हेस्टिंग्ससे प्रार्थना की कि इन हिदायतोंपर प्रेसीडेण्टका, और यदि समभव हो तो समूची कौंसिलका भी, हस्ताक्षर रहे । हेस्टिंग्सने गवर्नरको नवाबकी इच्छा लिख भेजी । वानसीशार्टने हेस्टिंग्सके पत्रका जो उत्तर दिया वह इस प्रकार है—“अन्य शासकोंकी भाँति नवाबको भी यह अधिकार है कि यदि उनकी प्रजा पर कोई किसी तरहका अत्याचार करता है तो वह उसे रोकें और यदि शान्तिसे काम नहीं निकलता तो बलप्रयोग भी करें । नवाबके इस अधिकारकी पुष्टि कानूनके द्वारा करना फजूल है । कोई भी मनुष्य क्यों न हो, यदि वह नियमके विरुद्ध कार्य करता है तो सरकारी अफसर उसको सीधे सादे ढंगसे रोक सकते हैं और यदि यों काम न निकले तो बलप्रयोग करनेका अधिकार भी उन्हें प्राप्त है । किसी भी निष्पक्ष मनुष्यको इस उचित बातके सम्बन्धमें शिकायत करनेका स्थान नहीं है ।” \*

यद्यपि प्रेसीडेण्टने हेस्टिंग्स द्वारा बताये गये उपायोंके पक्षमें ही अपनी राय दी, तो भी कलकत्ता कौंसिलके मेम्बरोंने उनका विरोध किया । वगाल जहन्नुममें चला जाय, इसकी इन्हें क्या परवाह थी ? इन्हें तो अपने लाभसे

---

\* It is a natural right which the Nabob has in common with all the governments to prevent by force if fair means fail any injury being done to his subjects by any other person. It would be almost absurd to give consent to this by any public act. Where ever unlawful attempts are made by our people officers of the government must prevent them by fair means if possible if not oppose them by force and it is what no reasonable man can complain—Extracts from Vansittart's speech in the meeting of the Calcutta Council

मतलब था । बंगालका शिल्पव्यवसाय भले ही नष्ट हो, जाय, बिचारी प्रजा भले ही नाना कष्ट उठाती रहे इनके लिए तो केवल एकही प्रश्न था । यह यह कि हमारे व्यापारकी किस प्रकार वृद्धि हो और हम किस तरह मजे उड़ावें ।

## २०—बरवना फाटकका बन्द होना ।

व्यापार सम्बन्धी नियमोंके निर्धारित करनेके पहले कलकत्ता नौसिलके सामने बरवना फाटक और युर्जकाश्रमामला आ पडा । पटना शहर नदीके किनारे किनारे पूरबसे पश्चिमतक दो मीलकी दूरीपर बसा था । दोनों तरफ दो फाटक थे । पश्चिमी फाटक और नदीके बीच बरवना फाटक था । वास्तवमें यह एक छोटी सी खिडकी थी जिससे होकर शहरको रास्ता था । अंगरेजों फौजरोसे यह खिडकी केवल दो या तीन सौ गजकी दूरीपर थी । अतएव इधरसे शहर जानेमें वहाँवालोंको सुविधा थी । मुख्य फाटक शहरसे आध मीलकी दूरीपर था । सन् १८१६ ( सन् १८६२ ) में कप्तान कारस्टेयरके अधीनस्थ कई आदमी काम छोडकर भाग गये । उस समय मिस्टर एलिसने राजवहलभक्तों लिये कि हमारे किसी भी सिपाहीको शहरमें न जाने दीजिये । राजवहलभने नवायको उक्त सूचनासे परिचित किया । नवाबने आज्ञा

दी कि पूरब और पश्चिमके दो मुख्य फाटकोंके अतिरिक्त और कुल रास्ते बन्द कर दिये जायँ ।

एलिसको जब यह घात मालूम हुई तो राजवल्लभके पास पत्र लिखकर उन्होंने इस आज्ञाका विरोध किया । बोर्डको भी पत्र लिखा कि बरवना फाटक बन्द किया जा रहा है । मुख्य फाटक फैकूरीसे आध मीलकी दूरीपर है । बरवना फाटकके बन्द होनेसे फैकूरीका सारा काम रुक जायगा । बोर्डने उस समय यह तै किया कि गवर्नर वानसीटार्ट नवाबको लिखें कि बरवना फाटक खोल दिया जाय । नवाबने उक्त आदेशका पालन किया, परन्तु बादको बरवना फाटकके खुलनेसे बड़ा उत्पात मचने लगा । फैकूरीके सिपाही इधरसे घुसकर शहरमें लूटपाट मचाते थे, शहरवालोंको तग करते थे, और फिर उधरसे ही शीघ्र निकल भागते थे । अतएव नवाबने बरवना फाटकको बन्द करवा दिया ।

पटना शहर एक दीवार और एक खाईसे घिरा था । केवल नदीकी तरफ कोई दीवार नहीं थी । पश्चिमोत्तर किनारेपर बुर्ज था । नदीसे उस बुर्ज होकर शहरको रास्ता था । नवाबके आज्ञानुसार राजवल्लभने बुर्जसे फैकूरी होते हुए नदीतक एक दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी थी । एलिसने बोर्डसे शिकायत की कि यदि यह दीवार खड़ी हो जायगी तो नावें फैकूरीके पास न लग सकेंगी, नदीके उस पारही उन्हें रखना होगा । बोर्डके निर्णयानुसार गवर्नर वानसीटार्टने नवाबको फिर लिखा कि दीवार न उठायी जाय । नवाबने इस आज्ञाका भी पालन किया । परन्तु बादको जब बरवना फाटककी तरह इस ओर होकर भी

फैकूरीके सिपाही शहरवालोंपर अत्याचार करने लगे तब नवाबने पुन दीवार उठानेका कार्य्य शुरू कर दिया ।

एलिसने कलकत्ता-कोसिलसे फिर शिकायत की । एलिसके पत्रपर विचार करनेके लिए ६ फाटगुन (१६ फरवरी) को बोर्डकी बैठक हुई । बोर्डके विचारार्थ जो प्रश्न उपस्थित किया गया वह यह था "क्या नवाबको घरवना फाटक और घुर्ज तथा नदीके बीचका रास्ता वन्द करनेकी आज्ञा दी जाय ?"

प्रेसीडेण्टने घुर्ज और नदीके बीचका रास्ता वन्द करनेके ही पक्षमें अपनी राय दी । उनका विचार था कि यद्यपि घरवना फाटकसे आने जानेमें फैकूरीके लोगोंको अधिक सुविधा थी तथापि उसके वन्द हो जानेसे कोई विशेष असुविधा भी नहीं है । कम्पनीके व्यापारको उक्त फाटकके वन्द होनेसे कोई हानि पहुँचनेकी सम्भावना नहीं है क्योंकि शहरमें तो कम्पनीका कुछ व्यापार होता ही नहीं है । घुर्ज और नदीका रास्ता खुला रखना तो उस मनुष्यके लिए असंभव है जिसके ऊपर शहरकी रक्षाका भार है । किसी शत्रुके लिए इस राहसे होकर शहरमें घुस जाना बड़ा ही आसान है । एलिसने लिखा है कि नावोंको फैकूरीके पास न लगा कर नदीके उस पार लगाना होगा, यह बात असत्य है । शहर नवाबके अधिकारमें है । शहरवालोंकी जान और मालकी रक्षाका भार उनके ऊपर है । उन्हें यह अधिकार है कि हर उपायसे शहरकी रक्षा करें ।

मिस्टर घाट्सने फाटक खोलने और घुर्जवाली दीवार गिरानेके पक्षमें राय दी । मेरीयाटने भी इस बातका सम-

र्थन किया । मिस्टर हेने यह सशोधन उपस्थित किया कि यदि नवाब हमारी बातोंको माननेके लिए तैयार न हों तो एलिसको बलपूर्वक ऐसा करनेका अधिकार दिया जाय । जौनस्टनने सशोधनका समर्थन किया । हेस्टिंग्सकी राय थी कि फाटक खोल दिया जाय परन्तु एलिसको बलप्रयोग करनेकी आज्ञा न दी जाय । मिस्टर कारस्टेयरने हेके सशोधनके पक्षमें अपनी राय दी । उनका कहना था कि नवाबका यह कार्य अंगरेज जातिको चिढ़ानेके अभिप्रायसे किया गया है । अन्तमें यह तै हुआ कि गवर्नर वानसीटार्ट नवाब मीर कासिमके पास निम्न-लिखित आशयका पत्र लिखें—

“पटना फैक्टरीके सरदार और कलकत्ता-कौंसिलने मुझसे यह शिकायत की है कि बरवना फाटकके बन्द हो जानेसे फैक्टरीके नौकरोंको बड़ी तकलीफ उठानी पडती है, कम्पनीके कारोबारमें रुकावट होती है । बुरजसे नदीतक दीवार खड़ी करनेसे भी हम लोगोंको हानि पहुँचती है । नार्वोंको नदीके दूसरी ओर लगाना पडता है । बीस वर्षसे हम लोग बरवना फाटकको खुला पाते आये हैं । एक बार जब शहरपर घेरा था तो इसी राहसे रसद पहुँचती थी । इस समय फाटकको बन्द करना उचित नहीं है । इससे लोगोंमें सन्देह पैदा होता है । वे समझते हैं कि अंगरेजोंके साथ नवाबकी मित्रता नहीं है । कौंसिलके आदेशानुसार मैं आपको सूचित करता हूँ कि आप पूर्ववत् फाटकको खुला रहने दें और बुरजसे नदीतक दीवार इस ढंगकी बनायी जाय कि नार्वोंको फैक्टरीके पास ठहरनेकी गुजाइश हो ।”

इस प्रस्तावको स्वीकार कर बोर्डने अपने अधिकारका दुरुपयोग किया, यह बात हर निष्पक्ष इतिहास लेखकको माननी पड़ेगी । मर्यादाकी सीमासे बाहर होकर उन्होंने नवाबके शासनकार्यमें बाधा पहुँचायी । नवाबके पास जो पत्र लिखनेका आदेश गवर्नरको किया गया था उसमें कहा गया है कि बीस वर्षसे यह फाटक बराबर खुला रहता है, अब कोई कारण नहीं कि बन्द कर दिया जाय । यदि बोर्डके सदस्य अपनी बुद्धिको तनिक भी कष्ट देते तो उन्हें मालूम हो जाता कि तब और आजके समयमें बहुत अन्तर है । सन् १८१४ (सन् १७५७ ई०) से पहले उनमें इतना साहस न था कि किसी नवाबको इस तरहकी आज्ञा दे सकते । इस समय उन्हें यह कहनेकी भी हिम्मत हो गयी कि यदि आवश्यकता पड़े तो घल पूर्वक फाटक खोल दिये जायँ । उस समय नवाबके सम्मुख जयान हिलानेकी भी शक्ति उनमें नहीं थी, तब वे नवाबकी कृपाके भिपारी थे, किन्तु अब वे अपनेको बगालका भाग्य विधाता समझते हैं । नवाब आज उनके आश्रित हैं । तब बरवना फाटकसे होकर शहरमें उत्पात मचानेका साहस एलिस और उनके अन्य सिपाहियोंको कदापि न होता । परन्तु आज उन्हें प्रजाकी लूटपाट और उनपर मनमाने अत्याचार करनेमें किसी प्रकारकी रुकावट नहीं है । इसी कारण नवाब आज बरवना फाटकको बन्द रखना चाहते हैं ।



## २१—निःशुल्क व्यापारका प्रश्न ।



गरेजोंके व्यापार सम्बन्धी स्वत्वोंकी रक्षाके निमित्त कलकत्ता-कोसिलका अधिवेशन १० फाल्गुन ( २२ फरवरी ) को हुआ । निम्न लिखित प्रश्न विचारार्थ उपस्थित थे ।

(१) फरमान तथा वादकी सन्धियों द्वारा क्या हम लोगोंको यह अधिकार प्राप्त है कि हम हर वस्तुका बगाल प्रान्तके भीतर या विदेशसे बिना शुल्क व्यापार कर सकें ?

(२) क्या नमक, पान, तम्बाकू या अन्य किसी वस्तु-पर हमें नवायको शुल्क देना चाहिये ?

(३) क्या इस प्रकारकी वस्तुओंके लिए भविष्यमें कम्पनीका दस्तक दिया जायगा ?

(४) क्या भविष्यमें कम्पनीके नौकरोंके अतिरिक्त अन्य किसीको सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिये ?

(५) क्या अंगरेजी गुमाश्ते किसी सीमातक सरकारी अफसरोंके अधीन रहेंगे ? अगर रहेंगे तो किस हदतक ?

(६) यदि नहीं तो हमारे गुमाशतों और सरकारी अफसरोंके भगडे किस प्रकार ते होंगे ?

वाट्सकी राय थी कि फरमानके द्वारा हम लोगोंको हर प्रकारका व्यापार बिना शुल्क करनेका अधिकार है । नमक, पान आदि हर वस्तुके लिए कम्पनीका दस्तक दिया जाना चाहिये । हम लोगोंके गुमाश्ते सरकारी अफसरोंके मातहत किसी प्रकार भी नहीं रये जा सकते । ऐसा करनेसे हमारे व्यापारको क्षति पहुँचेगी । मिस्टर

मेरीयाटने भी यही सम्मति प्रगट की। वह केवल नमकपर थोडासा शुल्क देनेके पक्षमें थे। इस बातको सहन करनेके लिए वह तैयार नहीं थे कि अंगरेजी गुमाश्ते किसी भी रूपमें सरकारी अफसरोंके अधीन रहें। अपने गुमाश्तोंको सरकारी अफसरोंके मातहत रखना वह अंगरेज जातिके लिए लज्जाजनक समझते थे। हेने भी वाट्सका समर्थन किया।

यद्यपि कारस्टेयरका भी क्याल यही था कि फरमानके द्वारा उन्हें प्रत्येक वस्तुका नि शुल्क व्यापार करनेका अधिकार है, तो भी अपनी उदारताके कारण उन्होंने यह स्वीकार किया कि नमक और तम्बाकूपर थोडा सा शुल्क नवाय को दिया जाय। गुमाश्तोंको तो सरकारी अफसरोंके अधीन वह भी नहीं रखना चाहते थे। आपसके झगडे तै करनेके सम्बन्धमें उन्होंने यह राय दी कि यदि अभियोगी हमारा नोकर नहीं है तो उसे स्थानीय मैजिस्ट्रेटसे शिकायत करनी चाहिये। मैजिस्ट्रेटको स्वयं निर्णयका अधिकार न रहे। वह केवल शिकायतको निकटस्थ फैक्टरीके सरदारके पास निर्णयार्थ भेज दें। मि० बैरैल्स्टने यह मत प्रगट किया कि हमारे गुमाश्तों और सरकारी अफसरोंके झगडाको ते करनेका यही उपाय है कि इनमेंसे यदि एक को दूसरेके विरुद्ध कुछ शिकायत हो तो वह वहाँकी फैक्टरीके सरदारके पास दरखास्त दे और यदि उसके निर्णयसे सन्तोष न हो तो वह कलकत्ताकोसिल और गवर्नरके यहाँ अपील करे। मिस्टर वाटसनकी राय थी कि नमक और तम्बाकूपर उतना शुल्क दिया जाय जितना नवाय मीर जाफरके समयसे हम लोग देते आ रहे हैं।

परन्तु यह कार्य्य प्रकाश्य रूपसे किसी घोषणापत्र द्वारा नहीं होना चाहिये । चारनाक, आमियाट और आदमने जोरदार शब्दोंमें इस बातका समर्थन किया ।

पाठक कहीं यह न समझें कि कलकत्ता कौंसिल स्वार्थान्ध, लज्जाशून्य और जुद्ध प्रकृतिके मनुष्योंसे ही भरी पडी थी । सर्पके मस्तरूपर मणि भी होती है और सिवारमें कमल भी छिपे रहते हैं । यद्यपि साधारणतः भारतवर्षमें आये हुए अँगरेजोंका नैतिक अध पतन उस समय पूर्ण रूप से हो चुका था, तो भी कलकत्ता कौंसिलमें ऐसे दो आदमी वर्तमान थे जिन्हें न्यायका रयाल अब भी थोडा बहुत बना हुआ था । उनमें एक तो गवर्नर वानसीटार्ट और दूसरे वारन हेस्टिंग्ज थे । वारन हेस्टिंग्जने और सदस्योंके प्रति कूल अपनी राय प्रगट की । उन्होंने साफ साफ कह दिया कि फरमानके आधारपर हम बंगाल प्रान्तके भीतर यहाँकी वस्तुओंमें व्यापार नहीं कर सकते । इन चीजोंके लिए कम्पनीका दस्तक देना अनुचित है । गुमाशतोंपर सरकारी अफसरोंका दवाव अवश्य होना चाहिये । गवर्नरने भी इसके अनुकूल ही अपना मत प्रगट किया । अन्तमें बहुमतसे निम्नलिखित बातें ते हुई—

(१) फरमानके द्वारा अँगरेजोंको हर प्रकारका व्यापार निःशुल्क करनेका अधिकार है । फिर भी प्रथानुसार थोडा सा शुल्क नयायको दिया जाय । नवावको शुल्क माँगनेका अधिकार नहीं है । स्वेच्छासे कुछ शुल्क देना हम लोगोंको कृपा ही होगी ।

(२) यदि अँगरेजी गुमाशतेको किसी सरकारी अफसरके द्वारा किसी प्रकारका कष्ट पहुँचे तो वह निकटस्थ सरकारी

अफसरको न्याय करनेके लिए लिये । यदि उसके निर्णयसे उसका सन्ताप न हो तो पासकी फैक्टरीके सरदारको लिये । फैक्टरीका सरदार सरकारी अफसरसे जवाब तलब कर सकता है । वे जुलाहे जिन्हें वस्तुआके लिए वयाना दिया गया है हर प्रकारसे गुमाशतोंके अधीन रहेंगे । यदि किसी सरकारी अफसरको किसी गुमाशतेके द्वारा क्षति पहुँची हो तो वह पहले उसी गुमाशतेसे कहे कि मामला तै कर दा । यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निरुद्धस्थ फैक्टरीके सरदारको न्याय करनेके लिए लिये और वह सरदार उचित रूपसे न्याय करे ।

(३) कासिमबाजार-कांसिलमें एक और उच्च श्रेणी का नौकर (सिनियर सर्वेण्ट) बढ़ाया जाय । वहाँ रङ्गपुरमें रेजिडेण्ट नियत हो । वह उन तमाम स्थानोंकी देखरेख करे जहाँ फैक्टुरियाँ नहीं हं । \*

कलकत्ता कांसिलको कारवाईके विषयमें दो मत नहीं हो सकते । व्यापारसम्बन्धी सङ्कुचित स्वार्थने हेस्टिंग्स और वानसीटार्टके अतिरिक्त अन्य तमाम सदस्योंके मनसे न्याय, कर्तव्य तथा उचित अनुचितका भाव निकाल दिया और उन्हें उपर्युक्त निर्णय करनेके लिए प्रेरित किया । †

\* पिछले दो प्रस्ताव एक और बैठकमें (५ मार्चको) तै हुए थे ।

—लेखक

† The narrow sighted selfishness of commercial cupidity had rendered all members of the council with the two honourable exceptions of Hastings and Vansittart obstinately inaccessible to the plainest dictates of reason justice and policy—Wilson

## २२—कौंसिलमें पुनर्विचार ।



छले अधिवेशनमें यह निर्णय हो चुका था कि कुछ वस्तुओंपर नवाबको शुल्क दिया जाय । आज यह सवाल पेश था कि किन किन वस्तुओंपर कितना कितना शुल्क दिया जाय । मिस्टर हेने यह प्रश्न उपस्थित किया कि कम्पनीके अधीन स्थानोंमें पैदा हुई चीजोंके लिए शुल्क दिया जाय या न दिया जाय । मिस्टर वाट्सने यह बात विचारार्थ रखी कि हम लोगोंको पटने और ढाकेकी टकसालोंमें सिक्का ढालनेका अधिकार है या नहीं ?

वाट्स कट्टर अपरिवर्तनवादी थे । स्वार्थ ही उनका सिद्धान्त था । तब भला नवाबको किसी वस्तुपर कर देकर वह अपने स्वार्थके प्रतिकूल आचरण कैसे कर सकते थे ? उन्होंने अपनी राय पूर्ववत् ही प्रगट की कि हमें किसी वस्तुपर भी नवाबको शुल्क न देना चाहिये, हम नवाबके साथ किसी प्रकारकी रियायत भी करनेको तैयार नहीं हैं, क्योंकि नवाबकी सर्वदा यही कोशिश रही है कि अंगरेजोंके सम्मानपर धक्का पहुँचावे । उनके कारण छ महीनेसे हम लोगोंका कारोबार रुका हुआ है । परन्तु यदि बोर्डके बहुसंख्यक लोगोंकी राय हो कि नवाबको कुछ कर दिया ही जाय तो नमकपर अढ़ाई फी सैकडा कर मञ्जूर किया जाय । कम्पनीके अधीन स्थानोंमें उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं पर शुल्क नहीं देना चाहिये । हम लोगोंको हर टकसालमें रुपया ढालनेका अधिकार है ।

मेरोयाटकी सम्मति थी कि केवल नमकपर अढ़ाई फी सैकडा महसूल दिया जाय । आप नवाबसे इस अनुग्रहके लिए कृतज्ञता और धन्यवादकी आशा करते थे । आपकी राय थी कि नवाबको यह लिख दिया जाय कि हम लोग फरमानके विरुद्ध बतोर रियासतके ऐसा कर रहे हैं । कम्पनीके अधीन स्थानोंमें उत्पन्न की गयी वस्तुओंपर भी शुल्क देनेके पक्षमें आप थे । आपका ख्याल था कि हर टकसालमें हमें रुपया ढालनेका अधिकार है ।

हेका मत था कि "यद्यपि फरमानके द्वारा हम लोगोंको निःशुल्क व्यापारका पूर्ण अधिकार है तो भी जितना शुल्क मीर जाफरके समयमें हम लोग दिया करते थे उतना इस समय भी दें । कम्पनीकी जमीनपर तैयार की गयी चीजों पर शुल्क न देना चाहिये । हमें हर टकसालमें रुपया ढालनेका अधिकार है ।" जोनस्टनने भी आपका समर्थन किया । कारटेयर भी इसी रायके थे । भेद यही था कि आप कम्पनीकी जमीनपर बनाये गये नमकपर भी शुल्क देना चाहते थे । मि० बैरैल्स्टने आपका समर्थन किया । आमियाटकी सम्मति थी कि कुल वस्तुओंपर हर स्थानमें अढ़ाई फी सैकडा शुल्क दिया जाय । यथा-समय मिस्टर हेस्टिंग्जने भी अपनी निष्पक्ष और न्याययुक्त सम्मति प्रगट की । आपने कहा कि हमें अन्य व्यापारियोंकी तरह नो फी सैकडा शुल्क कुल चीजोंपर देना चाहिये । कम्पनीके अधीन स्थानोंमें उत्पन्न की गयी वस्तुओंपर भी महसूल दिया जाय । नवाबकी टकसालोंमें रुपया ढालनेका हमें कुछ भी अधिकार नहीं है । गवर्नर घानसीटार्टने जोरदार शब्दोंमें हेस्टिंग्जका समर्थन किया ।

अन्तमें यहाँ तै रहा कि “केवल नमकके लिए हर खान-पर ढाई रुपये फी सैकडा शुल्क दिया जाय । साथ ही यह भी निश्चित हुआ कि रुपया हर एकसालमें ढाला जा सकता है और अगरेज यह कार्य करनेमें स्वतन्त्र है । यह भी तै हुआ कि गवर्नर वानसीटार्ट नवाबके पास एक पत्र लिखें और बोर्डके निर्णयकी सूचना उन्हें दें । पत्रमें यह बात भी जोड़नेका निश्चय हुआ कि गवर्नर द्वारा लिखे गये पत्रको ( जिसमें व्यापार सम्बन्धी सारे नियम दिये गये थे ) नवाब लौटा दें ।

### २३—नैपालपर आक्रमण ।



पार सम्बन्धी नियमोंके निर्धारित करनेके कुछ दिनों बाद नवाब मीर कासिमने गुरगीन खाँकी सलाहसे नैपालपर आक्रमण किया । नैपाल उस समय प्रचुर धन तथा मोनेके लिए विख्यात था । नैपालपर हमला करनेकी गुरगीनकी इच्छा पहलेसे ही थी । इसी उद्देश्यसे उन्होंने उस भागमें रहनेवाले सन्यासियों और फकीरोंसे सम्बन्ध स्थापित करना आरम्भ कर दिया था । वास्तवमें उनकी मशा उन सिपाहियोंकी परीक्षा लेनेकी थी जिन्हे नियमित रूपसे उन्होंने सघटित किया था । उन्होंने पहाड़ी रास्तोंका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था और रास्ता बतलानेके लिए कई आदमियोंको नौकर भी रज्त लिया था ।

इसके कुछ ही दिनों पूर्व नवाबने वेतिया नामके स्थान-पर अधिकार प्राप्त किया था । यह स्थान नैपालके विल-कुल निकट है । वहाँ शान्ति स्थापित करनेके वहाने नवाब रवाना हुए । वेतिया पहुँचनेपर वह वहाँ ठहर गये और गुरगीन जाँ अपनी सेना लेकर आगे बढ़े । घाटियों और पहाड़ियोंको पारकर गुरगीन नैपालकी तराईमें पहुँचे । वहाँपर नेपाली सेनाने इन्का सामना किया । घमासान युद्ध हुआ और नेपालियोंको पीछे हटना पडा । परन्तु गुरगीन खाँके बहुतसे आदर्मी मारे गये । कुछ दूर और आगे बढ़नेके पश्चात् रात्रि होनेके कारण सेनाने पडाव डाल दिया । अभी रात बहुत नहीं गयी थी कि नेपालियोंने झाड़ियों, पहाड़ियों आदिसे निकलकर गुरगीन खाँकी सेनापर चढ़ाई कर दी । नवाबी सेनामें, एकाएक आक्रमण होनेके कारण, गडबडी मच गयी । नेपालियोंने पथरों और तीरोंसे प्रहार करना आरम्भ कर दिया । नवाबी सेनाको ठहरना कठिन हो गया । जिधर जिसने रास्ता पाया उधर ही भागना आरम्भ किया । नेपालियोंने नवाब की आशा और मनसूबोंपर पानी फेर दिया ।

जय गुरगीनने अपनी सेनाकी यह दुर्दशा देखी तो वह चकित होकर रह गये । अपना मुँह दिखाना उन्हें कठिन हो गया । जीवन उन्हें असह्य हो गया । वह वहाँके वहाँ रह गये और आगे बढ़नेको प्रस्तुत नहीं हुए ।\* उसी प्रकार नवाबने जय अपनी सेनाकी दुर्दशाका हाल सुना तो उन्हें भी बडा ही दुःख हुआ । गुरगीन जाँको उन्होंने लौट आनेकी आज्ञा दी । परन्तु गुरगीन इतने लज्जित थे



कि नवाबकी आशा होनेपर भी वह लौटनेको तैयार नहीं हुए । नवाबको जब यह खबर लगी तो उन्होंने एक ऐसे आदमीको भेजना उचित समझा जिसकी बातोंका प्रभाव गुरगीन खॉपर पडना सम्भव था । इसी उद्देश्यसे नवाबने अली इब्राहम खॉको भेजा । अली इब्राहमको राहमें बहुतसे सिपाही लौटते मिले । ये लोग वेतिया जा रहे थे । अली इब्राहमने उनसे ठहरनेको कहा और सलाह दी कि गुरगीन खॉ आवें तो उन्हींके साथ लौटें । सिपाहियोंने इनकी बात मान ली । तत्पश्चात् यह गुरगीन खॉके पडावमें पहुँचे और उनको बहुत कुछ समझा बुझाकर वापस लाये । वेतिया पहुँचनेपर सब लोग अजीमाबादके लिए चल पडे ।

नैपालके आक्रमणमें नवाब मीर कासिमको सफलता प्राप्त न हुई, इससे यह न समझना चाहिये कि गुरगीन खॉ अयोग्य सेनापति थे अथवा इनका सैनिक सघटन ठीक नहीं था । नैपाल ऐसा देश है जो पहाडियों और घाटियोंसे घिरा है और उसपर विजय प्राप्त करना बडीसे बडी सुसघटित एवं सुसज्जित सेनाके लिए भी प्रायः असम्भव था । इस बातके समर्थनमें कुछ अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं । सैकडों वर्ष व्यतीत हो गये, आज भी नैपाल नेपालियोंका ही देश है । आजतक वहा किसीकी दाल न गल सकी ।



## २४—अंगरेज वणिकोंका उत्पात ।



म यह बतला चुके हैं कि कलकत्ता को सिलने गवर्नर वानसीटार्ट द्वारा निर्धारित नियमोंको अस्वीकार किया । इधर नवाबने हर खानमें अपने अफसरोंके पास इन नियमोंकी प्रति भेज दी थी और उन्हें आज्ञा दी थी कि उन्हींके अनुसार कार्य करें । किन्तु कलकत्ता कांसिलने तो अंगरेज वणिकोंकी पीठ ठोक ही दी थी, अतः इन लोगोंने उक्त नियमोंको कुछ परवा न की । सरकारी अफसरोंने नवाबके आज्ञानुसार शुल्क लेना और शुल्क न देनेपर नावोंको रोकना शुरू किया । अंगरेजी फैक्ट्रियोंके अफसरोंने भी धरपकड़ आरम्भ कर दी । जहाँ कहीं नवाबके अफसर उनके व्यापारमें बाधा पहुँचाते, उन्हें वे तत्काल गिरफ्तार कर लेते और भिन्न भिन्न फैक्ट्रियोंमें उन्हें कैद कर रखते । विशेष भगडेकी जड़ पटनेके अंगरेज सरदार मिस्टर एलिस और जहाँगीर नगरके अंगरेजी शासक मिस्टर वाटसन थे । इन लोगोंने नवाबके दो मुख्य सरदारोंको सेना भेज कर गिरफ्तार करवा लिया और कलकत्ता भेज दिया ।

जब नवाब मीर कासिम नेपालसे लौट कर आये तो उन्हें अंगरेज वणिकोंके इस उच्छृंखल आचरणका पता लगा । कलकत्ता कोसिलने वानसीटार्टके वनाये हुए

नियमोंको तिरस्कृत कर जिस स्वार्थ नीतिका अवलम्बन किया था वह भी उन्होंने सुना ।

जब नवाबने देखा कि अपने शासनकी सम्मान-रक्षाके लिए यह आवश्यक है कि हम भी कुछ अंगरेज सरदारोंको पकड कर कैद कर रएँ तब उन्होंने आज्ञा भेजी कि कुछ अंगरेज पकड लिये जायँ । आज्ञाका उचित रूपसे पालन हुआ । कई अंगरेज पकड लिये गये और नवाबने अपने कैदियोंकी जमानतके तौरपर इन्हें कैद रखा । तत्पश्चात् गवर्नर वानसीटार्टके नाम तीन पत्र नवाबने लिखे । अंगरेज व्यापारियोंके अत्याचारोंको देखते देखते नवाब मीर कासिम कितने अधिक उद्विग्न हो गये थे, उनके दुःसाहसको सहन करते करते वह कितने तग आगये थे, इसका पता पाठकोंको इन पत्रोंसे मिल सकता है—

२१ फाल्गुन १२१६ ( ५ मार्च सन् १७६३ ई० ) के पत्र में नवाब एक स्थानपर लिखते हैं—“मेरा देश नष्ट हो रहा है किन्तु मैं एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर सकता । मेरे अफसरोंके विरुद्ध अंगरेजी फौज भेजी जाती है । ऐसी अवस्थामें मुझे मालूम नहीं होता कि मैं किस प्रकार राज्यकार्यका सम्पादन करूँ । जब कि कलकत्ता कौंसिल इस प्रकारके नियम बना रही है तो ऐसी अवस्थामें मेरा शासन भार वहन करना सम्भव नहीं । अतएव मुझे इस भारसे मुक्त कीजिये और मेरे स्थानमें किसी ऐसे पुरुषको नवाब बनाइये जिसे कलकत्ता कौंसिल अधिक योग्य समझे ।”

नवाबने दूसरा पत्र गवर्नरके पास ३० फाल्गुन ( १४ मार्च ) को लिखा । उसका आशय इस प्रकार है—“मैंने

अभीतक सब कुछ सहन किया । परन्तु अब अधिक सहन करनेकी मुझमें शक्ति नहीं रही । जो कुछ आपको मेरे साथ करना हो सो कीजिये । आप अपने नौकरों और नोच मनुष्योंके द्वारा मेरा अपमान क्यों कराते हैं ? हम लोगोंके बीच जो सन्धि हुई, मैंने सर्वदा उसका पालन करनेका यत्न किया है । मिस्टर एलिसने सिपाहियोंकी तीन कम्पनियोंको त्यागीपुरमें स्थित मेरे दुर्गको घेरनेके लिए भेजा है । इसके अतिरिक्त और भी कई कम्पनियाँ दरभंगा, सारन, तिगरा आदि स्थानोंमें भेजी गयीं हैं । मेरे प्रबन्धपर इतना घुरा असर पडा है कि मालगुजारीका मिलना एकदम रुक गया है । दो वर्षोंसे एलिस मुझे केवल नीचा दिखानेके लिए ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ।”

दूसरे ही दिन नवाबने फिर एक पत्र गवर्नरके पास भेजा । इसमें उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार अंगरेज उत्पात मचा रहे हैं वैसा उन्होंने पहले मीर जाफरके समय कभी नहीं किया था । यदि इस उद्दण्डताका प्रयोग बराबर जारी रहा तो मुझे भी उन्हीं ढंगोंको काममें लाना होगा जो मेरे विरुद्ध प्रयुक्त किये जा रहे हैं । मुझे अपना सम्मान जीवनसे भी अधिक प्रिय है । यदि आप चाहते हैं कि हम लोगोंके दरमियान मित्रता कायम रहे तो तमाम भगडों और फसादोंको रोकिये । यदि आप भगडा ही मोल लेना चाहते हैं तो इसकी भी शीघ्र सूचना दीजिए ।”

“मुझे अपना सम्मान जीवनसे भी अधिक प्रिय है” इस वाक्यसे नवाबकी अश्ल दृढता प्रगट होती है । नवाब मीर कासिमने कलकत्ता-कौंसिलको यह बात साफ साफ बतला दी कि स्वार्थके वशीभूत होकर मैं राज्य नहीं कर

रहा हूँ । मैं तुम्हारी इच्छाका दास होकर नहीं रह सकता । मैं कर्तव्य-पालनार्थ ही नवाब हुआ हूँ, अतएव मैं उन नियमोंको माननेको तैयार नहीं जिनके कारण मेरी प्रजा दुःखसे रहे और अत्याचारसे पीड़ित होती रहे ।

यथासमय नवाबके पत्र गवर्नरको मिले और उन्होंने कलकत्ता कौंसिलके सम्मुख उन्हें पेश किया । यह ते हुआ कि प्रेसीडेण्ट वानसीटार्ट निम्नलिखित आशयका पत्र नवाबके पास भेजें—“हम लोगोंके कारोबारमें आपके अफसरों द्वारा इतनी अधिक बाधा पहुँचायी गयी कि हम लोगोंका व्यापार एकदम रुक गया । हम लोगोंके पास बलप्रयोग करनेके सिवा और कोई साधन रहा ही नहीं । यही कारण है कि तमाम केरियोंके अफसरोंके पास हम लोगोंने आज्ञा भेजी कि वे हर प्रकारके साधन काममें लावें । मिस्टर एलिसने जो कुछ किया है उसमें उनका तनिक भी दोष नहीं । उन्होंने केवल हमारी आज्ञाका पालन किया है । मैंने आपको पहले ही लिख दिया कि हमारी क्या माँगें हैं । मैं आपको फिर यह बतलाना चाहता हूँ कि हम लोग उन तमाम माँगोंकी पूर्तिकी आपसे आशा करेंगे । हम लोग आपके शासनमें हर प्रकारकी सहायता देनेको तैयार हैं । परन्तु जिन आज्ञाओंको पालन करनेका आदेश हम लोगोंने अपने आदमियोंको दिया है उनके पालनमें आप रुकावट उत्पन्न करें तो हम लोग यहीं समझेंगे कि आप लडाईं करनेपर तुले हुए हैं । आपने “नौकर” और “नौच मनुष्य” आदि शब्दोंका प्रयोग किन लोगोंके लिए किया है, इसका मैं आपसे जवाब तलब करना चाहता हूँ । मैं नहीं समझता कि आपका मतलब

बोर्डके मेम्बरोंसे है । परन्तु उनकी इच्छा है कि आप इस बातको स्वयं साफ कर दें क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हम लोगोंका अपमान इस प्रकार किया जाय ।”

नवाबको कलकत्ता कोसिलका पत्र मिल गया । उन्हें अब मालूम हो गया कि अंगरेज अपनी स्वार्थनीतिसे एक पग भी पीछे नहीं हटना चाहते । नवाबने देख लिया कि यदि हमें अपनी प्रजाका हित करना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे देशी व्यापारी अंगरेजोंकी स्वार्थपरतासे अधिक हानि न उठावें, तो हमें वही अधिकार उन्हें भी देने होंगे जो अंगरेज वणिकोंने बलपूर्वक ले लिये हैं । यही समझ कर नवाब मीर कासिमने घोषित कर दिया कि भविष्यमें किसी भी व्यापारीको शुल्क न देना पड़ेगा । उन्होंने निम्नलिखित पत्र गवर्नर वानसीटार्टके पास भेजा—

“आपने ढाका और लर्खापुरमें तम्बाकूके लिए और साधारणतः नमकके लिए ढाई फी सेकडा शुल्क देना स्वीकार किया है । इतना कष्ट भी सहन करनेको आप लोगोंको क्या आवश्यकता है ? अब मैंने शुल्क लेना विलकुल ही बन्द कर दिया है । आप लोगोंने यह ते किया है कि सरकारी अफसरोंके साथ जो झगडे होंगे उनका फैसला फैक्टरियोंके सरदार करेंगे । आपके सरदारोंकी नीति तो यही है कि वे मेरे अफसरोंको गाली देते और मारते हैं और बाँध कर पकड भी ल जाते हैं । आपने लिखा कि मैं अपने अफसरोंके पास परवाना भेज दूँ कि वे अंगरेजी व्यापारमें बाधा न पहुँचावें । मैंने अपने कुल अफसरोंके पास लिख दिया है कि वे किसीसे भी शुल्क वसूल न करें । आपके पास भी परवानेकी नकल भेजी जाती है ।

यदि मेरा कोई अफसर भविष्यमें आपके काममें बाधा पहुँचावेगा तो उसको दण्ड दिया जायगा । आप लिखते हैं कि हम लोगोंके दरमियान जो नियम बने उन्हें मैं आपके पास भेज दूँ । हम लोगोंमें जो कुछ समझौता हुआ था वह एक पत्रके द्वारा आपने मुझे सूचित किया । उक्त पत्र मैं आपके पास भेज देता हूँ । यदि इसके पहले आप लोगोंके साथ मेरी जो सन्धि हुई थी उसे भी आप वापस चाहें तो मैं भेज सकता हूँ ।”

## २५—कौंसिलका अधिवेशन ।



थासमय कलकत्ता-कौंसिलको नवाबके निर्णयका सूचना मिली । उसके ऊपर तो मानो वज्रपात हो गया । आज उसके सदस्योंको मालूम हो गया कि फरमानका सहारा लेकर देशी प्रजाका गला घोटना अब संभव नहीं । शीघ्र ही कौंसिलका एक अधिवेशन हुआ । प्रश्न यह था कि अब क्या करना चाहिये । पहले तो इस विषयपर वादविवाद चला कि नवाबको सबके लिए व्यापार निशुल्क कर देनेका अधिकार है अथवा नहीं । जौनस्टनका कहना था कि नवाबको व्यापार निशुल्क करनेका कोई अधिकार नहीं है । हम लोगोंको जो शाही फरमान प्राप्त हुआ है उसके विरुद्ध यह कार्रवाई हुई है । वाट्सने भी इसका समर्थन किया और कहा कि नवाबको लिखा जाय कि वह और व्यापारियोंसे

पूर्ववत् शुल्क वसूल करें । देने कहा कि नवावने केवल कम्पनीके व्यापारको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे ऐसा किया है ।

इस प्रकार कार्टेयर, वाटसन और आमियाटने भी नवावके निर्णयपर असन्तोष प्रगट किया । अन्तमें मिस्टर हेस्टिग्ज और गवर्नर वानसीटार्टने भी अपना मत प्रगट किया । उनके कथनका आशय यह है “हम नवावको इस विषयमें दोषी नहीं ठहरा सकते । वह इसके अतिरिक्त और कर ही क्या सकते थे ? हम लोगोंकी यह इच्छा भले ही हो कि व्यापारकी समस्त वागडोर हमारे ही हाथमें रहे, हम लोग ही देशकी तमाम उपज खरीद कर जहाँ चाहें बेचें, तो भी नवावसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह देशी व्यापारियोंके कारोबारका मूलोच्छेद करनेमें हम लोगोंका साथ देंगे । प्रत्येक शासकका यह कर्तव्य है कि अपनी प्रजाकी रक्षाके निमित्त हर उचित उपायका अवलम्बन करे । नवावको पूर्ण अधिकार है कि वह सबके लिए व्यापार निशुल्क कर दें ।”

वाद विवादके पश्चात् बहुमतसे यह निश्चित हुआ कि “नवावके पास मिस्टर आमियाट और हे व्यापार सम्बन्धी भूगडोंको ले करनेके लिए भेजे जायें । नवावको लिखा जाय कि वह इन लोगोंके डेपुटेशनको स्वीकृत करें । जब तक इस सम्बन्धमें नवावका जवाब न आ जाय तबतक आमियाट और हे कासिमराजारमें जाकर ठहरें ।” तदनुसार ये दोनों कासिमराजारके लिए रवाना हुए । जाते समय फलकत्ता कांसिलकी ओरसे इन्हें निम्नलिखित आदेश दिये गये—



“हम लोगोंके व्यापारमें सरकारी अफसरों द्वारा कई महीनोंसे रुकावटें डाली जा रही हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि दोनों तरफसे भगड़े-फसाद हुए। इन्हीं कारणोंसे बहुत सोच विचार कर व्यापारके सुसंचालनके सम्बन्धमें हम लोगोंने कुछ नियम बनाये। आपकी योग्यता, दूरदर्शिता और उत्साहमें हम लोगोंका पूरा विश्वास है, अतएव हम लोगोंने आप दोनों सज्जनोंको नवाबके पास इस लिए भेजनेका निश्चय किया है कि आप उन्हें जाकर बोर्डके निर्णयोंसे परिचित करें।

“आप नवाबको समझा दें कि गवर्नर वानसीटार्टने व्यापार सम्बन्धी जो नियम बनाये थे वे अब बेकार हैं, अतएव उस पत्रको नवाब लौटा दें। आप नवाबको इस बातके लिए मजबूर करें कि यदि उन्होंने अपने अफसरोंके पास उक्त नियमोंके विरुद्ध आज्ञा न भेजी हो तो अब भेज दें।

“फरमानकी प्रतियाँ अँगरेजी और फारसी भाषाओंमें आपको दी जायँगी। आप नवाबको बतला दें कि उक्त फरमानका आशय यहाँ है कि हम लोग हर तरहका व्यापार बिना शुल्क दिये कर सकें।

“जब नवाब फरमानका अर्थ पूरे तौरसे समझ लें तो आप उनको बतलावें कि नमकपर ढाई फी सैकड़ा शुल्क देनेका हम लोगोंने निश्चय किया है। इसका कारण यह है कि हम लोग यह नहीं चाहते कि इस मदसे नवाबको जो आमदनी होती थी वह एकदम बन्द हो जाय और उनकी मालगुजारीमे कोई अन्तर, हम लोगोंके कारण, पड़े।

“नवाबने लिखा है कि कौंसिलके अधिकारोंको हम नहीं जानते, प्रेसीडेण्टने नवाबको इसका उत्तर पहले ही लिख

भेजा है । आप भी नवाबको बतला दें कि कौंसिलके क्या अधिकार हूँ ताकि भविष्यमें इस बहानेसे पुनः हम लोगोंके व्यापारमें रुकावट न डाली जाय ।

“नवाबके पिछले पत्रोंसे मालूम होता है कि हम लोगोंकी मित्रतामें उन्हें सन्देह है । आप इस सन्देहको दूर करनेका यत्न करें । आप लोग उन्हें बतलावें कि यदि हमारे व्यापारमें बाधा न डाली गयी तो हम लोग उनके शासन-कार्यमें हर प्रकारकी उचित सहायता देंगे ।

“नवाबके लिए यह उचित होगा कि व्यापार सम्यन्धी नियमोंकी अपने हस्ताक्षर और मुहर लगा कर घोषित कर दें । आप रयाल रजिस्ट्रियेगा कि वे नियम फरमानके विरुद्ध न हों । उक्त घोषणा पत्रपर आप भी हस्ताक्षर करेंगे । परन्तु इसको मजूर करनेका अधिकार हम लोगोंके लिए रख छोड़ियेगा ।

“नवाब और कम्पनी दोनोंके हितके लिए हम लोग यह आवश्यक समझते हैं कि दरबारमें एक रेजीडेण्ट रहा करे । हम लोगोंने टामसन आम्फिलको इस कार्यके लिए नियत किया है । आप इनका परिचय नवाबसे करा दें ।

“हम लोगोंको मालूम हुआ है कि नवाबने व्यापार सबके लिए निशुल्क कर दिया है । हम लोग समझते हैं कि यह कार्य कम्पनीको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे हुआ है । आप नवाबसे कहें कि अन्य व्यापारियोंसे वह पूर्ववत् शुल्क घसूल करें ।

“शराफ हम लोगोंके सिक्के लेनेमें हिचकते हैं । आप नवाबसे कहें कि वह तमाम शराफोंको हम लोगोंके सिक्के लेनेमें आगापीछा न करनेकी आज्ञा दें । आप नवाबसे इस

आशयकी आज्ञा प्राप्त कर लें कि हम लोग हर टकसालसे तीन लाख रुपया सालाना ढाल सकें ।”

आमियाट और हेको यही आदेश दिये गये । साथ ही, जैसा कि ऊपर कह आये हे, यह निश्चित हुआ कि जब तक नवाबके पास भेजे गये गवर्नर वानसीटार्टके पत्रका उत्तर न आ जाय तबतक ये लोग कासिमबाजारमें ही ठहरें ।

### २६—नवाबका उत्तर ।

थासमय गवर्नर वानसीटार्टका पत्र नवाब मीर कासिमको मिला । सवत् १८१६ के १६ चैत्र (दूसरी अप्रैल १७६३ ई०) तथा २८ चैत्र (११ अप्रैल) को नवाबने उत्तरमें गवर्नरके नाम दो पत्र लिखे । प्रथम पत्रका आशय यह है—

“आपने आमियाट और हेको मेरे पास भेजनेकी बात लिखी है । मैं आपको पहले ही सूचित कर चुका हूँ कि व्यापार सम्बन्धी बातें अब कुछ भी निश्चित करनी नहीं रह गयी । मुझे अब केवल थोडासा भूमिकर ही मिलता है । यदि उसके विषयमें नियम बनानेके अभिप्रायसे आप उन्हें भेजना चाहते हों तो सूचित कीजिये । आप लोगोंने “नौकर” और “नौच पुरुष” आदि शब्दोंके विषयमें मुझसे जवाब तलब किया है । मैं कहता हूँ कि जो हम लोगोंके बीच झगडा फसाद और अविश्वास उत्पन्न करना चाहता

है वही नीच है । जहाँ व्यापार सञ्चालनार्थ आपका एक पत्र काफी होता वहाँ मेरे अफसरोंके विरुद्ध सेना भेजकर उन्हें बँधना, पकड़ना, और अपमानित करना आदि कार्य नीच और कमीने पुरुषोंका है या बडे और श्रेष्ठ मनुष्योंका, इसका विचार आप स्वयं करें ।”

दूसरे पत्रमें आमियाट और हेके सम्बन्धमें उन्होंने लिखा कि “यदि मिस्टर हे और आमियाट केवल-यात्राके विचारसे यहाँ आये तो मेरा घर उन्हाँका है । परन्तु मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि उन लोगोंका यहाँ आना मुझे तभी स्वीकार है जब वे केवल थोडेसे जरूरी आदमियोंको लेकर आवें ।”

जोरदार और गौरवयुक्त शब्दोंसे परिपूर्ण नवाबके दोनों पत्र गवर्नर वानसीटार्टको मिले और उन्होंने विचारार्थ उन्हें कलकत्ता कौंसिलके सम्मुख पेश किया । अब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि नवाबके पत्रोंपर ध्यान देते हुए आमियाट और हेका नवाबके पास जाना उचित है या नहीं ।

मिस्टर वाट्सकी राय थी कि इन लोगोंके जानेमें खतरा तो है अवश्य परन्तु लडाईं रोकनेके अभिप्रायसे हर प्रकारके उपायका हमें अजलम्बन करना चाहिये । ये पत्र उन दोनों सदस्योंके पास कासिमवाजार भेज दिये जायँ और इन्हें पढ़ कर यदि वे उचित समझें तो जायँ । मेरीयाटका इच्छा थी कि ये दोनों पत्र आमियाट और हेके पास भेजे तो जायँ ही, साथ ही यह सिफारिश भी की जाय कि वे लोग नवाबके पास अवश्य जायँ । हेस्टिंग्जने कहा कि उन दोनों सदस्योंको तुरन्त नवाबके पास जाना चाहिये । कारटेयरने मेरीयाटका समर्थन

किया । वाटसनने उन लोगोंका नवाबके पास जाना अनुचित समझा । प्रेसीडेण्टने भी मेरीयाटको रायका समर्थन किया । अन्तमें यही तै रहा कि दोनों पत्र हे और आमि याटके पास भेज दिये जायँ और उनसे सिफारिश की जाय कि वे मुगेरके लिए रवाना हो जायँ ।

नवाबकी इच्छा आमियाट और हेसे मिलनेकी न थी, यह बात उनके पत्रोंसे स्पष्ट मालूम होती है । परन्तु इसमें नवाबका तनिक भी दोष न था । एलिसका दुर्व्यवहार तथा कलकत्ता कौंसिलका रूप देख कर नवाबको निश्चय हो गया था कि अंगरेज भगडेपर तुले हुए हैं । इसी समय उनके विरुद्ध फौजें भी भेजी गयीं । अतः नवाबके लिए यह समझ लेना स्वाभाविक था कि हे और आमियाट भी सन्धिके वहाने सेनाके सञ्चालनके अभिप्राय से भेजे जा रहे हे ।



## २७—आमियाटकी मुंगेर-यात्रा ।



कलकत्ता कौंसिलका पत्र पाकर आमियाट और हे मुगेरके लिए रवाना हो गये । इनके साथ कप्तान जौनस्टनके अधीन थोड़ी सी सेना भी थी । इसी समय गवर्नर वानसीटार्टने नवाब मीर कासिमके पास एक पत्र लिखा कि मिस्टर आमियाट आपके पास डेपुटेशन लेकर जा रहे हैं । संभव है इनको माँगें आपको स्वीकार न हों । परन्तु इन माँगोंसे

आपके शासन प्रबन्धमें कोई हानि नहीं पहुँचेगी । पाँच महानोंमें थोसिलके बहुतसे सदस्य, जो अभी मेरे विरुद्ध हैं, अलग कर दिये जायेंगे । तब तकके लिए उनकी इच्छानुसार आप सन्धि कर लें ।

नवाबने अपने सेनापति गुरगीनखॉको बुला कर इस सम्बन्धमें उनकी राय ली । गुरगीनखॉने कहा "यदि आप अंगरेजोंकी बातें मान लें तो आप अपना सम्मान खो बैठेंगे और उनके हृदयमें आपकी जो कुछ धाक है वह मिट जायगी । परन्तु यदि आप घहादुरीके साथ स्वामिमानके अनुकूल कार्य करे तो आपका प्रभाव उनके हृदयपर अधिक पड़ेगा और उनकी शक्ति क्षाण होती जायगी ।" गुरगीन पर नवाबका बहुत विश्वास था । उन्होंने इनके कथनानुसार ही अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया ।

नवाबने जब सुना कि आमियाट और हे चल पडे हैं तो उन्होंने सैयद गुलाम हुसैन और मोर अब्दुल्ला नामके दो व्यक्तियोंको उनके स्मगतार्थ भेजा । इनके साथ थोस गुप्तचरोंको भी नवाबने भेजा । इन्हें यह आदेश दिया गया था कि ये आमियाटकी यात्राके घास्त्रिक उद्देश्यका पता लगावें । गुप्तचरोंके लिए नवाबकी यह ताकीद थी कि अंगरेजोंके साथ गुलामहुसैन और मोर अब्दुल्लाकी जो कुछ घातचीत हो उसे वे लग नवाबके पास लिख भेजें । गगा-प्रसाद नामक स्थानमें आमियाट इन लोगोंसे मिले । वहाँसे सब लोग साथ ही आगे बढ़े ।

नवाबके आदेशानुसार एक दिन गुलाम हुसैनने आमियाटसे पूछा "आपके यहाँ आनेका क्या उद्देश्य है ? हम लोग आप और नवाब दोनोंके मित्र हैं । हम जानना चाहते हैं

तक पहुँच गयी है कि कुछ होते दिखाई नहीं देता । मैं पहलेसे ही आपको इसकी सूचना दे देता हूँ । इसी पत्रमें नवाबने यह लिखा था कि यदि आप लोग उस सन्धि और उन शर्तोंकी कुछ भी परवा करते हैं जिनके द्वारा आपको बर्दवान, मिदनापुर और चटगाँव सेनाके लिए मिले तो आप पटनेसे अपनी सेना बुला लें और उसे मेरे पास रखें या कलकत्तामें रहने दें ।

इधर एक और भी नया झगडा उठ खडा हुआ था । हथियारसे भरी हुई कुछ नावें कलकत्तेसे मुगेर पहुँचीं । ये नावें पटनेके लिए थीं । मुगेरमें ये रोक ली गयीं । आमियाट और हेने नवाबसे उन्हें जाने देनेके सम्बन्धमें आज्ञा माँगी । नवाबने इस घटनाको युद्धका तैयारी समझा और नावोंको आगे बढ़नेसे रोक रखा । उन्होंने आमियाटसे साफ साफ कह दिया कि इन हथियारोंकी सहायतासे एलिस और भी उत्पात करेंगे, अतएव मैं इन हथियारोंको उसी हालतमें मुक्त कर सकता हूँ यदि पटनेकी सेना यहाँ बुला ली जाय, या एलिस पटनेसे अलग कर दिये जायँ और उनके स्थानपर मिस्टर हेस्टिंग्ज, आमियाट या गायरकी नियुक्ति हो ।

इन तमाम बातोंकी सूचना यथासमय कलकत्ता कोसिलको मिली । नवाबकी माँगे उचित थीं, इसके सम्बन्धमें कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं । नावोंको रोक कर नवाब अँगरेजोंसे झगडा मोल लेना नहीं चाहते थे । यदि उनको यह नीयत होती तो वह इस बातको कभी स्वीकार न करते कि यदि एलिस बुला लिये जायँ तो वह नावोंको मुक्त कर देंगे । सन्धिके सम्बन्धमें भी नवाबने कह


दिया था कि यदि पटनेसे कुल सेना अलग कर दी जाय तो हम सन्धिके विषयमें कुछ कर सकेंगे । किन्तु इतने पर भी कलकत्ता कोसिलने नवाबकी उचित माँगोंकी तरफ बिलकुल ध्यान न दिया । कासिलको बैठक हुई और उसमें यह तै किया गया कि आमियाटके पास लिया जाय कि पटनेसे सेना नहीं हटायी जा सकती है । यदि नवाब इस शर्तके बिना नावें नहीं छोड़ना चाहते या सन्धिके विषयमें कुछ करना नहीं चाहते, तो आमियाट और हे कलकत्ता लौट आवें ।

आमियाटको जय कलकत्ता कोसिलका उक्त पत्र मिला तब वे कलकत्ता जानेके लिए प्रस्तुत हुए । नवाबकी इच्छा थी कि तमाम अंगरेजोंको बतौर जमानत ( प्रतिभू, 'होस्टेज' ) के रखें । बहुत वादविवादके पश्चात् यह निश्चय हुआ कि सब लोग जायें, केवल हे मुगेरमें रहें । जब मिरजा मुहम्मद अली तथा नवाबके कुछ और अफसरोंको अंगरेज मुक्त कर दें तो वह भी छोड़ दिये जायें । हेने इस बातको स्वीकार कर लिया । सब लोग कलकत्तेके लिए रवाना हुए ।





## २६—पटनेपर अंगरेजोंका अधिकार ।



एलिसकी प्रकृतिका परिचय पिछले कई अध्यायोंमें करा दिया गया है । इनकी उच्छृंखलतासे नवाब मोर कासिमके नाकों दम था । कुछ दिनोंसे तो इनका दुःसाहस पराकाष्ठाको पहुँच गया था । पटनेके सरकारी शासक मोर मेहँदीसे यह हमेशा झगडा करनेपर उतारू रहते थे । मोर मेहँदी सर्वदा पत्रों द्वारा एलिसकी शिकायत नवाबसे किया करते थे । परन्तु नवाब अभी तक सब कुछ सहन करते जा रहे थे । नवाबने स्वयं गवर्नर वानसीटार्टको लिखा था कि हमारे शासनके साथ जो अन्याय पटनेके अंगरेजों अफसर एलिस R द्वारा हो रहा है उसे अत्यन्त नीच पुरुष भी सहन नहीं कर सकता ।

नवाबकी सहनशीलताका पता मोर मेहँदीके पत्रसे ही लग सकता है जो उन्होंने मोर कासिमके पास एलिसके दुर्व्यवहारका वर्णन करते हुए लिखा था । मोर मेहँदी लिखते हैं "मैंने आपको कई बार लिखा कि मिस्टर एलिस लडाई करने पर तुले हैं । परन्तु आप यही जवाब देकर टाल देते हैं कि अंगरेजी सेना शीघ्र ही पटनेसे हटायी जानेवाली है । एलिसने इधर किलेकी दीवारोंके लिए सीढियाँ तैयार कर ली हैं । एक दिन उन्हें लेकर वह किलेकी दीवारोंतक गये भी थे । परन्तु पानी बरसनेके कारण

और कुछ न कर सके । आपने न तो सेना ही भेजी और न मुझे लड़नेकी आज्ञा ही देते हैं । फिर मैं यहाँ बेकार बैठ कर क्या करूँ ? यदि एलिसने झगडा करना निश्चय ही कर लिया है तो मैं भी अब अधिक सहन न कर सकूँगा । उनके साथ अवश्य लड़ूँगा ।”

उक्त पत्रसे यह साफ पता चलता है कि एलिसका उद्धत व्यवहार नवाब मीर फासिम अभीतक सहते ही आ रहे थे । अवस्था अत्यन्त शोचनीय थी, फिर भी वह शान्ति धारण किये हुए थे । परन्तु आगे चल कर मिस्टर एलिसने ऐसा उद्धत व्यवहार किया कि नगरके लिए शान्ति और वैयर्थ्य रखना असंभव हो गया ।

अपने उद्देश्यमें असफल होकर जब आमियाट मुगेर-से कलकत्ता लौटने लगे तो उन्होंने एक पत्र एलिसके पास भेजा । उन्होंने एलिसको सूचित किया कि कोई सन्धि नवाबके साथ नहीं हुई । इसका परिणाम युद्ध ही होगा । अतएव सावधान हो जाओ और मौकेको हाथसे जाने न दो । यह तो एलिसके मनकी ही बात हुई । वह नवाबसे चिढ़े हुए थे ही । उन्होंने समझ लिया कि आमियाटके कलकत्ता पहुँचनेपर कलकत्ता कांसिल तत्काल युद्धकी घोषणा कर देगी । उन्होंने भी अपनी तरफसे कोई कसर रखना उचित न समझा । उन्होंने इस बातका ठीक ठीक हिसाब लगा लिया कि मिस्टर आमियाट कबतक कलकत्ता पहुँचेंगे । उसी दिन उन्होंने मीर मेहँदीपर आक्रमण कर पटना शहरपर अधिकार प्राप्त करनेका निश्चय किया ।

एलिसने यह प्रबन्ध किया कि सध्यातक तमाम अंग रेजी सिपाही फैक्टरीमें पहुँच जायँ । उन्होंने घाँस और

लकड़ीकी कई सीढियाँ बनवायी । रात भर अच्छी तरह तैयारियाँ होती रहीं । मीर मेहँदीको इन सब बातोंका कुछ भी पता न था । जिस समय आक्रमण हुआ उस समय वह किलेमें सोये पड़े थे । पहरेदार भी किसी प्रकारकी गडबडीकी आशङ्का न कर हथियार खोल कर खर्गटे ले रहे थे । अंगरेजोंसे युद्ध करनेके लिए कोई जगा न था ।\*


अंगरेजों सेना तडके खाना हुई । फैस्टरीके निकटस्थ सतून (टावर) के पास जाकर सीढियाँ लगा दी गयीं । उन्हींके जरिये सैनिक दीवारपर चढ़ गये । वहाँकी छोटीसी सरकारी सेनाने कुछ अंगरेजों सिपाहियोंको घायल किया और फिर भाग गया । अंगरेज लोगोंके अधिकारमें दुर्ग प्राचीर † आ गये । अब इन्होंने दो दलोंमें अपनेको विभक्त किया । एक तो खास खास सडकों और बाजारोंसे होकर अग्नि वर्षा करता हुआ आगे बढ़ा । दूसरा दल कटरा और दीवानखानेकी सडकोंसे होकर गुजरा । यह तमाम सेना दुर्गकी ओर घढी आरही थी । शोरगुल सुनकर मीर मेहँदी सचेत हो उठे । उस समय जो कुछ थोड़ी बहुत सेना मिली उसे लेकर यह अंगरेजी सेनाका सामना करनेको तत्पर हुए । परन्तु इनके साथ आदमी कम ही थे, साथ ही इनकी तैयारी भी काफी न हो पायी थी । अतएव ये लोग अंगरेजों सेनाके सामने अधिक समय तक ठहर न सके और भाग खड़े हुए । मुहम्मद अमीन खाँ यद्यपि बहुत घायल हो गये थे तथापि चहल सतूनको गये । तमाम फाटकोंको बन्द कर लिया और जो कुछ थोड़े बहुत आदमी साथ थे उन्हें लेकर

\* b Mutakherin

† Ramparts

अपनी रक्षाके लिए प्रस्तुत हो गये । इधर सेनापति लाललिहने दुर्गक फाटकोंको बन्द कर लिया और अग्नि वर्षा आरम्भ कर दी । इन दो स्थानोंको अंगरेज न ले पाये । शेष कुल शहरपर उनकी विजय पताका फहराने लगी । - इन लोगोंने शहर वालोंपर मनमाना अत्याचार किया । लोगोंके घर लूटे । कितनोंके यहाँ तो एक तिनका भी न बच रहा ।\* यह कुसमाचार पाकर नवाब ये मारे मर गये । † काशे तो उनके शरीरमें लड़ नहीं । इधर अंगरेज मारे आनन्दके फुले न समाये । मिस्टर एलिस ने विजय सूचक पत्र कलकत्ता कोसिलका लिखा ।

### ३०—अंगरेजोंका आत्म-समर्पण ।



टनेपर अंगरेजोंका अधिकार होनेके पहिले ही नवाब मीर कासिमने एक सेना मुगरसे वहाँके लिए भेज दी थी । जिस समय यह दुर्घटना हुई उस समय ये लोग पटनेसे पाँच कोसकी दूरीपर फतुहा नामके स्थानपर पहुँच चुके थे ।

वहाँपर इन लोगोंको अंगरेजोंके उन्पात और धृष्टताओंका पता लगा । ये तत्काल चल खड़े हुए और नदीकी राहसे

\*The English Talugas together with their barcaras and luchs leisurely plundered the houses of the citizens without leaving in some of them so much as a bit of straw

Sayer ul—Mutakherin Vol II P 123

† Such an intelligence had nearly killed him

Mutakherin p 4००

तीन चार घंटोंमें सीद नामक बुर्जके निकट पहुँच गये । पहले सब लोग पूरबी फाटक पर गये । अँगरेजोंको फाटक खोल देना पडा । अँगरेज एक कतारमें खडे होकर शत्रुसेनासे लडनेके लिए प्रस्तुत हुए । परन्तु सरकारी सेनाके सामने इनकी तमाम बहादुरी मिट्टीमें मिल गयी । अपने हथियार छोड कर ये लोग भाग खडे हुए । यह समाचार सुन कर अन्य फाटका और बुर्जोंपर जो अँगरेजी सिपाही तेनात थे वे भी अपना अपना काम छोड कर चलते बने । 'नवाबकी पूर्ण विजय हुई और एक ही दिनमें सारे शहरपर उनका अधिकार हां गया ।' ❀

भागे हुए अँगरेजोंने शहर छोड दिया और पुन. अपनी फैक्रीमें सब लोग जमा हुए । शत्रुदलके लोग सामनेके बुर्जमें एकत्र थे । वहाँसे उन लोगोंने अँगरेजोंपर अग्नि-वर्षा आरम्भ कर दी । अँगरेजोंने अपनी इस शोचनीय अवस्थासे उद्धार पानेका यही उचित ढंग निकाला कि फैक्रीको छोड दें और रातके समय वाँझीपुरको भाग निकलें, परन्तु यह बात उनकी शक्तिसे बाहर थी । सरकारी सेनाने अँगरेजोंका पीछा करनेका निश्चय कर लिया था ।

अब एलिसने सोचा कि गंगा पार कर छुपरेकी तरफ भागें, वहाँसे सरजू पार कर नवाबी शासनसे बाहर चलें और सुजाउद्दोलाके राज्यमें शरण लें । परन्तु यह चाल भी सहायक न हुई । सारनके फौजदार रामनिधिको जब अँगरेजोंके भागनेका समाचार मिला तो उसने इन लोगोंका पीछा किया । इधर बकसर होते हुए समरू रामनिधिको सहायताके लिए सेना लेकर पहुँच गये । मॉभी

के पास अंगरेजोंने कुछ देरतक सरकारी सेनाका सामना किया । परन्तु अन्तमें विवश होकर इन लोगोंने आत्म-समर्पण किया ।

नवाब मीर कासिमको जब यह समाचार मिला तो वह आनन्दसे फूल उठे । उनका मन फड़क उठा । \* नवाबको अब मालूम हो गया कि अंगरेजोंने उनसे झगडा करनेका निश्चय कर लिया है । वे लडाई करनेपर तुले हुए हैं और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी उन्होंने दे दिया है । तत्काल नवाबने अपने तमाम अफसरोंके पास पत्र भेजा कि जहाँ जो अंगरेज मिलें मार डाले जायँ । अभी आमियाट कलकत्ता न पहुँच पाये थे । इन्हें भी मृत्युका शिकार होना पडा ।

कुछ इतिहासकारोंने आमियाटकी मृत्युके लिए नवाब मीर कासिमको दोषी ठहराया है । उनका कहना है कि नवाबका यह कार्य नीतिविरुद्ध था । आमियाट दूत-मात्र थे, उनपर हाथ छोडना नवाबके लिए उचित न था । ध्यानपूर्वक विचार करनेसे उक्त सन्देहका निवारण हो जाता है । नवाबके पत्रसे, जो उन्होंने मिस्टर आदमूसके पास २४ भाद्र १८२० (६ सितम्बर १७६३ ई०) को लिखा था, यह साफ साफ मालूम होता है कि नवाबकी इच्छा यह कदापि नहीं थी कि आमियाट मारे जायँ । वे लिखते हैं—  
“यह मैं कभी नहीं चाहता था कि मिस्टर आमियाट मारे

\* Intelligence of this success having reached the Nawab it raised his pride to a height. This sudden intelligence revived his spirits. The Nawab's soul which was just going to quit his body recovered its seat and gave him a new life. S. Mutakherin 474 75

जायँ" । नवाब तो केवल यह चाहते थे कि आमिया मुगेर लौटा लाये जायँ । उन्होंने अपने एक अफसर मुतकीखॉको आज्ञा दी थी कि वह उक्त आशयका पालन करे तकीखॉने समझा था कि शान्तिसे काम निकल जायगा इस समय वह भागीरथीपर मुर्शिदाबाद और कासि बाजारके बीच डेरा डाले हुए थे । जब आमियाटकी न उन्हें दिलाई दी तो उन्होंने एक अफसरको आमियाट पास भोजनके लिए निमन्त्रित करनेके निमित्त भेजा । आमियाटने आनेसे इनकार किया और नावोंको खेनेकी आज्ञा दी । तब किनारेसे ही तकीखॉके आदमियोंने मल्लाहों आवाजें दीं कि वे लोग नाव किनारे पर लायँ । इस उत्तरमें आमियाटने गोली दागनेकी आज्ञा दी । ७ विव होकर सरकारी आदमियोंको भी उसी पथका अवलम्ब करना पडा । थोड़ी देरतक दोनों दलोंमें मुठभेड हो रही । अन्तमें आमियाट अपने साथियों सहित लडाई मारे गये । अपनी ही मूर्खतासे उन्होंने अपनी जान दी ।

इसी समय नवाब मीर कासिमने एक पत्र गवर्नर वानसीटार्टके पास लिखा । पत्र द्वारा नवाबने एलिसपर यह दोषारोपण किया कि उन्होंने रातके समय डाकू तरह शहरपर आक्रमण किया, बाजारोंको लूटा और नि

---

\* Mr Amvatt refusing to land or surrender directed sipahis to fire upon the Nawab's boats, which were approaching and compel them the English boats were finally boarded and the whole party destroyed or made prisoners with exception of a Havaladar and one or two sipahis, who made their escape and brought a melancholy intelligence to Calcutta

पराध प्रजापर मनमाना अत्याचार किया। नवाब आगे चलकर लिखते हैं—“सिराजुद्दौलाके समय कलकत्तेके लूटे जाने पर अंगरेजोंने जिस प्रकार हरजाना वसूल किया था उसी प्रकार पटनेमें किये गये अत्याचारोंके लिए वे भी दें। मैंने तीन जिले कम्पनीको इस लिए दिये थे कि वे मेरी रक्षाके लिए फौज रखें। परन्तु उसी सेनासे मेरे नाशका उपाय किया गया, अतएव जो तीन जिले मैंने दिये थे उन्हें मैं वापस माँगता हूँ।”

नवाबने जिस समय उपर्युक्त पत्र लिखा था उस समय उनके हृदयकी क्या अवस्था थी, इसका अन्दाजा पाठक स्वयं लगा सकते हैं। उन्होंने यह बात समझ ली थी कि यदि हमें सम्मानके साथ जीवित रहना है तो अंगरेजों के साथ शान्तिपूर्वक रहना असम्भव है। युद्ध किये बिना काम न चलेगा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि या तो विजयी होकर भारतवर्षसे अंगरेजोंका मूलोच्छेद करेंगे या इस प्रयत्नमें स्वयं ही मर मिटेंगे।

अब अंगरेजों और मीर कासिमके बीच जीवन मरणका प्रश्न था। यदि विजयने मीर कासिमका साथ दिया तो वह उन लोगों पर किसी प्रकारका दयाभाव नहीं दिया सकते थे। इसके प्रतिकूल यदि उनकी पराजय हुई तो अंगरेजों से भी वह किसी प्रकारकी आशा नहीं रख सकते थे।



## ३१—युद्धका निश्चय ।



मियाटका पत्र पाकर कलकत्ता-कौंसिलको निश्चय हो गया कि नवाब मीर कासिमके साथ अब सन्धि होना असंभव है । उन लोगोंने समझ लिया कि एक न एक दिन युद्ध अवश्य होगा । ५ आषाढ १८२० ( १८ जून १७६३ ई० ) को कौंसिलका अधिवेशन हुआ और युद्ध होनेकी अवस्थामें सेनासञ्चालनके सम्बन्धमें विचार किया गया । मेजर आदम्स प्रधान सेनापतिके पदपर नियत किये गये । अब यह प्रश्न उठा कि यदि युद्ध हुआ तो मीर कासिमके स्थानपर नवाब कौन बनाया जायगा, युद्धमें कम्पनीका जो रुपया खर्च होगा वह कहाँसे वसूल किया जायगा तथा युद्धके कारण व्यापारियोंको जो घाटा होगा उसकी पूर्ति किस प्रकार होगी ?

वाट्सने राय दी कि "सबसे अच्छा ढंग तो यह होता कि शासनभार हम अपने हाथमें ले लेते, परन्तु ऐसा करना इस समय संभव नहीं, क्योंकि इस कार्यके लिए बड़ी सेना रखनेकी आवश्यकता पड़ेगी जिसे हम लोग अभी करनेमें असमर्थ हैं । यह भी डर है कि तमाम देशमें भगडा फसाद और अराजकताका प्रादुर्भाव होजाय । इन कठिनाइयोंका सामना हम लांग न कर सकेंगे । अतः इस समय यही उचित है कि हम किसी प्रभावशाली व्यक्तिको नवाब बनावें । परन्तु पहले उसके साथ सन्धि होजानी चाहिये जिससे भविष्यमें किसी प्रकारका फसाद न हो ।


उसीका यह कर्तव्य होगा कि युद्धका तमाम खर्च दे और व्यापारियोंको जो क्षति पहुँचे उसे पूरा करे ।

मेरीयाटने भी यही मत प्रकट किया कि दूसरा नवाब बनाया जाय । उनका कहना था कि “नवाब ऐसे मनुष्यको बनाना चाहिये जो हमारा आज्ञाके अनुसार कार्य्य करे । मीर जाफर ही इस कार्य्यके लिए इस समय उपयुक्त होंगे । कहा जाता है कि मीर जाफर कमजोर और अयोग्य शासक है । यह तो हमारे लिए अच्छा ही है क्योंकि किसी योग्य और साहसी नवाबका होना कम्पनीके व्यापारके लिए हानिकारक है । वह हमेशा यही यत्न करेगा कि हम अंगरेजोंसे स्वतंत्र होकर रहें ।”<sup>४</sup> मि० कार्टियर और मि० विलर्सने भी इस मतका समर्थन किया । मिस्टर हेस्टिंगजने इस सम्बन्धमें अपनी राय न दी । उन्होंने कहा कि “यदि युद्ध हुआ ही तो हमारे मालिक जो उपाय बतलायेंगे, हमें उसीका अवलम्बन करना उचित होगा ।”

वानसीटार्टने कहा कि “मैं किसी विशेष व्यक्तिका नाम इस सम्बन्धमें नहीं लेना चाहता । मैंने तै कर लिया है कि हमारे मालिकोंका प्रबन्ध ठीक हो जाने पर मैं देश छोड़ जाऊँगा । मैं तो यही उचित समझता हूँ कि जिन लोगोंको यहाँ हम लोगोंके पञ्चान् रहना है वही इस बातको

\*The Nawabs weak capacity, that was made an argument against him, I think would rather plead in his favour as it certainly can never be the Company's interest to have an enterprising Nabob for the Subah of these provinces, it being so natural for a man in that station to endeavour at all rates to render himself independent  
Marriot's statement before the Cal Council on 26th June 1763

## ३१—युद्धका निश्चय ।


 मियाटका पत्र पाकर कलकत्ता कांसिलको निश्चय हो गया कि नवाब मोर कासिमके साथ अब सन्धि होना असभव है । उन लोगोंने समझ लिया कि एक न एक दिन युद्ध अवश्य होगा । ५. आपाढ १८२० ( १८ जून १७६३ ई० ) को काँसिलका अधिवेशन हुआ और युद्ध होनेकी अवस्थामें सेनासञ्चालनके सम्बन्धमें विचार किया गया । मेजर आदम्स प्रधान सेनापतिके पदपर नियत किये गये । अब यह प्रश्न उठा कि यदि युद्ध हुआ तो मोर कासिमके स्थानपर नवाब कौन बनाया जायगा, युद्धमें कम्पनीका जो रुपया खर्च होगा वह कहाँसे वसूल किया जायगा तथा युद्धके कारण व्यापारियोंको जो घाटा होगा उसकी पूर्ति किस प्रकार होगी ?

वाट्सने राय दी कि "सबसे अच्छा ढंग तो यह होता कि शासनभार हम अपने हाथमें ले लेते, परन्तु ऐसा करना इस समय संभव नहीं, क्योंकि इस कार्यके लिए बड़ी सेना रखनेकी आवश्यकता पड़ेगी जिसे हम लोग अभी करनेमें असमर्थ हैं । यह भी डर है कि तमाम देशमें भगडा फसाद और अराजकताका प्रादुर्भाव होजाय । इन कठिनाइयोंका सामना हम लाग न कर सकेंगे । अतः इस समय यही उचित है कि हम किसी प्रभावशाली व्यक्तिको नवाब बनावें । परन्तु पहले उसके साथ सन्धि होजानी चाहिये जिससे भविष्यमें किसी प्रकारका फसाद न हो ।

उसीका यह कर्तव्य होगा कि युद्धका तमाम खर्च दे और व्यापारियोंको जो क्षति पहुँचे उसे पूरा करे ।

मेरोयाटने भी यही मत प्रकट किया कि दूसरा नवाब बनाया जाय । उनका कहना था कि "नवाब ऐसे मनुष्यको बनाना चाहिये जो हमारा आशाके अनुसार कार्य करे । मीर जाफर ही इस कार्यके लिए इस समय उपयुक्त होंगे । कहा जाता है कि मीर जाफर कमजोर और अयोग्य शासक है । यह तो हमारे लिए अच्छा हो है क्योंकि किसी योग्य और साहसी नवाबका होना कम्पनीके व्यापारके लिए हानिकारक है । वह हमेशा यही यत्न करेगा कि हम अंगरेजोंसे स्वतंत्र होकर रहें ।"\* मि० कारटियर और मि० विलर्सने भी इस मतका समर्थन किया । मिस्टर हेस्टिंग्जने इस सम्बन्धमें अपनी राय न दी । उन्होंने कहा कि "यदि युद्ध हुआ ही तो हमारे मालिक जो उपाय घतलायेंगे, हमें उसीका अग्रलम्बन करना उचित होगा ।"

जानसोर्टाने कहा कि "मैं किसी विशेष व्यक्तिका नाम इस सम्बन्धमें नहीं लेना चाहता । मैंने तै कर लिया है कि हमारे मालिकोंका प्रबन्ध ठीक हो जाने पर मैं देश लौट जाऊँगा । मैं तो यही उचित समझता हूँ कि जिन लोगोंको यहाँ हम लोगोंके पश्चात् रहना है वही इस बातको

\*The Nawab's weak capacity, that was made an argument against him, I think would rather plead in his favour as it certainly can never be the company's interest to have an enterprising Nabob for the Subah of these provinces it being so natural for a man in that station to endeavour at all rates to render himself independent  
Marriot's statement before the Cal Council on 20th June 1763

ते करेंगे कि नवाब पदपर कौन व्यक्ति अभिषिक्त किया जाय ।”

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे पाठकोंको अँगरेजों की धूर्तताका पता लग गया होगा । इनकी यही इच्छा थी कि इस देशका शासक कोई ऐसा अयोग्य व्यक्ति रहे जो सर्वदा हमारे हाथोंका खिलौना बना रहे । उसकी अयोग्यताका लाभ उठाकर हम जो चाहें विना रोक टोकके स्वतन्त्रतापूर्वक करते रहें ।

जब कलकत्ता कौंसिल इस प्रकार भविष्यकी अवस्थापर विचार कर रही थी तो उसी समय उसे पलिसका पत्र मिला कि पटनेपर अँगरेजोंका अधिकार होगया । इस समाचारको पाकर कलकत्ता कौंसिलने अब युद्ध ठानना ही तै कर लिया । बहुमतसे यह निश्चित हुआ कि मीर जाफर ही नवाब बनाये जायें । दूसरे दिन यह खबर पहुँची कि आमियाट मार डाले गये । बादको पटनेके अँगरेजोंको दुर्दशाका समाचार भी पहुँचा । अँगरेजोंके बीच खलबली मच गयी । बदला लेनेका विचार उनके हृदयमें प्रबल हो उठा । उन लोगोंका कोप गवर्नर वानसी टार्टपर भी कम न था । उन्हें वे लोग सारे भूगडोंकी जड समझते थे । सवने एक आवाजसे कहना आरम्भ किया कि हम नवाबको उनकी उच्छृङ्खलताका दण्ड देंगे । गवर्नर वानसीटार्टने सदस्योंको शान्त करना चाहा और उनके सन्मुख यह बात पेश की कि “यदि नवाबको मालूम होगया कि हम लोगोंने युद्धकी घोषणा कर दी है तो मिस्टर पलिस अन्य सब अँगरेजोंके साथ मार डाले जायेंगे । अतएव उचित यही होगा कि जबतक कुल अँग

रेज विना विघ्नबाधाके लौट न आयेँ तबतक हम लोग शान्त रहें । उसके पश्चात् हम लोग नवाबके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करेंगे और उचित बदला भी लेंगे ।

गवर्नरकी घातेँ अन्य सदस्योंपर कुछ भी प्रभाव न डाल सकीं । उन्होंने समझा कि वानसीटार्ट केवल नवाब की रक्षाका उपाय कर रहे है । सबने मिलकर यही निश्चय किया कि युद्धकी घोषणा कर दी जाय । उन्होंने यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि यदि तमाम अंगरेज कैदी भी मार डाले जायें तो भी हम लोग बदला लेनेसे पीछे न हटेंगे ।

तत्पश्चात् कलरुत्ता कासिलका एक प्रतिनिधिमूल मीर जाफरके पास गया और उनसे प्रार्थना की कि वह पुनः नवाब बनना स्वीकार करें । मीर जाफरने प्रसङ्गतापूर्वक यह अनुरोध स्वीकार कर लिया । भला वह उसे कैसे दाल सकते थे । नवाब पदपर अभिषिक्त होना तो उनके लिए गौरवकी बात थी । सिराजुद्दोलाके विरुद्ध पड्यन्त्र रचकर, पलासीयुद्धमें द्रोह कर, एक बार तो वह अपने देशके साथ विश्वासघात कर ही चुके थे । अब उन्हें इस अपकीर्तिको धोनेका जो सुअवसर प्राप्त हुआ था उससे लाभ उठाकर यदि वह नवाब पदपर लात मार देते—उन शर्तोंपर बगालका शासक होना स्वीकार नहीं करते जिनके न माननेके कारण मीर कासिमको अंगरेजोंका शत्रु बनना पडा था—तो उनका नाम इतिहासमें पश्चात्ताप और सुकृतिके लिए अमर हो जाता । परन्तु घाह्य सुख और सम्मानकी लालसाके कारण उनकी बुद्धि मारी गयी थी । उन्होंने फिर दूसरी बार भी अपने देशसे द्रोह किया और अपनी आत्माको ग्लानि पहुँचायी ।

निम्नलिखित आशयकी सन्धि मीर जाफर और कलकत्ता कौंसिलके बीच हुई—“बर्दवान, मिदनापुर और चटगाँव, सेनाके खर्चके लिए मीर जाफर अंगरेजोंको देना मञ्जूर करे । अंगरेज बिना शुल्क दिये व्यापार कर सकें । पूर्णियामें जो सोरा उत्पन्न हो उसका आधा कम्पनीको दिया जाय और आधा नवाबको मिले । सिल्हटमें जो कुछ चुनम \* तैयार हो वह आधा आधा कम्पनी और नवाब दोनोंको दिया जाय । मीर जाफर केवल १२ हजार घुडसवार और १२ हजार पैदल सेना रखेंगे । यदि अधिककी कभी आवश्यकता होगी तो अंगरेजों सेना उनको सहायता पहुँचायगी । अंगरेजोंकी आज्ञाके बिना नवाब अपनी राजधानीमें परिवर्तन न कर सकेंगे । एक अंगरेज अफसर रेजीडेण्टकी हैसियतसे नवाबकी राजधानीमें रहेगा, और एक आदमी नवाबकी तरफसे कलकत्तेमें भी रहा करेगा । देशी सौदागरोंसे पूर्ववत् शुल्क वसूल किया जायगा । कलकत्तेकी टकसालसे जो सिक्के निकलेंगे उनके लिए यदि कोई बट्टा माँगेगा तो उसे दण्ड दिया जायगा । युद्धके खर्चके लिए तथा युद्धके कारण व्यापारियोंको जो कुछ हानि होगी उसकी पूर्तिके लिए मीर जाफर ३० करोड़ रुपया देंगे । यदि फ्रांसीसी यहाँ आवें तो नवाब उन्हें किसी प्रकारका किला न बनाने देंगे और न उन्हें सेना या जमीन रखने देंगे ।” सन्धिपत्रपर मिस्टर वानसीटार्ट, चारनाक विलर्स, कार्टियर, हेस्टिंग्स, मेरीयाट और हेके हस्ताक्षर हुए ।

इसके बाद कलकत्ता कौंसिलने एक घोषणापत्र प्रकाशित किया और जनतासे प्रार्थना की कि वह मीर जाफरको

नवाब माने । इस प्रकार निर्लज्ज मीर जाफरने नवाब पद पर पुन अभिषिक्त होकर अपने सम्मानको बहा लगाया । पाठकोंको ऊपरकी सन्धिसे विदित हो गया होगा कि उक्त नियमोंके अनुसार मीर जाफर नहीं दरन् अंगरेज बंगालके वास्तविक शासक और भाग्यविधाता हुए । मीर जाफर उनके हाथोंके खिलौना और उनकी इच्छाके दास मात्र रह गये ।

### ३२—कतवाका युद्ध ।



नवाब मीर कासिमने अब समझ लिया कि युद्धके अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं है । उन्होंने एक बडी सेना जाफरखा, आलमखाँ और मीर हैबतुल्ला नामके तीन सेनानायकोंके अधीन अंगरेजोंके विरुद्ध मुर्शिदाबादकी ओर भेजी । उन लोगोंको वीरभूमके फौजदार मुहम्मद तकीखाँके साथ मिलकर कार्य करनेका आदेश दिया गया था, साथ ही उन्हें यह हिदायत कर दी गयी कि युद्धके लिए जिन वस्तुओंकी आवश्यकता हो उन्हें मुर्शिदाबादके नायब सेयद मुहम्मदखासे लेकर सब लोग कतवा चले जायँ और जब अंगरेजी सेना कलकत्तेसे आवे तो उसपर आक्रमण करें । नवाबने तकीखाँको भी इस आशयका एक पत्र लिख दिया था । तदनुसार उन्होंने वीरभूम छोडकर कतवामें अपना पडाव डाल दिया । इस बीचमें कलकत्ते और मुर्शिदाबादसे अंगरेजी सेनाएँ भी आगे बढ़ीं ।



उन दिनों मुहम्मद तकीखांकी कीर्ति बहुत फैली हुई थी । यह बडे ही योग्य सेनापति थे । इन्होंने अपनी सेनाका सञ्चालन ऐसा अच्छा किया था कि इनका सिक्रा चारों ओर जम गया था । मुर्शिदाबादके नायब सैयद मुहम्मदखां मुहम्मद तकीखांकी सुकीर्तिके कारण इनसे बहुत जलते थे । इस समय उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मुहम्मद तकीखांकी पराजय हो । उन्होंने युद्ध सम्बन्धी आवश्यक पदार्थ देनेमें सुस्ती करना आरम्भ किया । अन्य तीन अफसरोंको भी भडकाया कि वे मुहम्मद तकीखांके अधीन न रहें, स्वतन्त्र होकर लड़ें । मुहम्मद तकीखाने उनसे बहुत कुछ अनुनयविनय की कि सब लोग मिल कर काम करें, परन्तु उन लोगोंने इस प्रार्थनाकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया । मुहम्मद तकीके साथ न ठहर कर वे लोग भागीरथीकी दूसरी ओर चले गये और वहाँ इन्होंने अपनी सेनाके साथ पडाव डाला ।

दूसरे दिन उन लोगोंको समाचार मिला कि मिस्टर ग्लेन लडाईका सामान लिये उस ओरसे जा रहे हैं । तकीखांसे उन लोगोंने सहायता माँगी । यद्यपि तकीखां उनसे असन्तुष्ट थे तो भी इन्होंने ५०० आदमी उनकी सहायताके लिए भेज दिये । अंगरेजोंपर आक्रमण हुआ । ग्लेन बड़ी बहादुरीके साथ लडे । तीन घार नवाबी सेनाने उनके खजाने और तोपोंपर अधिकार किया परन्तु फिर अंगरेजोंने उसे छीन लिया । पहले तो विजय नवाबी सेनाकी ही हुई परन्तु रातके समय, ग्लेनकी सहायताके लिए, बर्ट-घानसे सेना आ पहुँची । नवाबी सेना अंगरेजी सेनाके आक्रमणको सहन न कर सकी । अब नवाबके अफस

रोंको मालूम हो गया कि तकौखांका साथ छोड़कर हम लोगोंने कितनी मूर्खता की । ये लोग मैदान छोड़ कर मुहम्मद तकौखांके पडावकी ओर भागे । तकौने इन्हें भीतर घुसनेकी आज्ञा न दी । वह डरते थे कि इनकी पराजित अवस्थाको देखकर कहीं हमारी सेनामें भी गडबडी या निहत्साह न फैल जाय ।

दो दिन पश्चात् मुहम्मद तकौखाने शत्रुकी गति रोकनेका निश्चय कर लिया । अन्य अफसरोंसे सहायता लिये बिना ही वह अपनी सेनाके साथ युद्धक्षेत्रके लिए रवाना हुए । उन्होंने अपने सिपाहियोंको स्मरण दिलाया कि 'तुम्हारा सिक्का सारे देशमें जमा हुआ है । यदि तुम लोग रहादुरीरू साथ लडोगे तो तुम अवश्य विजयी होगे ।' ये बातें तकौखाने ऐसे खानगों तौरसे कहीं, उनके शब्दों में इस प्रकारकी नम्रता, आजिजी और बराबरीका भाव भरा था कि कुल सिपाही मुग्ध हो गये । सबने एक स्वरसे प्रतिज्ञा की कि 'आपके सम्मानके लिए हम लोग अपनी जान भा दे देनेको तैयार हैं ।'\*

थाडी देरमें ही शत्रुसेना मुहम्मद तकौखांको देख पडी । युद्ध आरम्भ हो गया । दानों ओरसे तोपें दगने

---

\* He reminded them of the character they bore all over the country and extorted them to support the same and promised them victory if they would all stand by him. All this was uttered with such an air of familiarity that he seemed to be rather their companion than their general and they were so animated with this kindness and air of fellowship that in marching with the utmost alacrity they were endeavouring to get the start of one another and swore that they would sacrifice their lives for his honour—Mutákerin Vol II, p 485

लगीं । कुछ देरतक ऐसा विदित हुआ कि तकीखॉकी ही विजय होगी । अंगरेजी सेनामें गडबडी मच गयी । इसी समय मुहम्मद तकीके पैरमें एक गोली लगी और इनका घोडा भी चोट खाकर मर गया । चिन्ताका भाव दिखाये, बिना यह दूसरे घोडेपर सवार हो गये और अपने सिपाहियोंको उत्साहित करते हुए आगे बढे । अंगरेज पीछे हटनेही वाले थे । परन्तु उन लोगोंने एक छोटी नदीके पास थोडीसी सेना छिपा रखी थी । जब मुहम्मद तकी बढते हुए उस नदीके पास पहुँचे तो वह सेना इनपर दूट पडी । इनकी तरफके बहुतसे आदमी मरे और घायल हुए । मुहम्मद तकीके मस्तकपर एक निशाना लगा । उसकी असह्य पीडासे इनका भी प्राणान्त हो गया । इस प्रकार नवाब मीर कासिमकी सेनाका एक रत निकल गया । अपना कर्तव्य पालन करता हुआ यह वीर यमलोकको पहुँच गया ।

मुहम्मद तकीकी मृत्यु होते ही उनकी सेनामें गडबडी मच गयी । जहाँ जिसने मोका पाया मैदान छोडकर भागना आरम्भ किया । हैबतुल्ला, जाफरअली आदि सेनापति, जिन्हें नवाबने तकीकी सहायताके लिए भेजा था, वतौर तमाशवीनके तमाशा देखते ही रह गये । अंगरेजी सेनापति आदम्सने अपने सिपाहियोंके साथ खूब आनन्द मनाया । शत्रुनेनाफी कुल तोपें, जानवर और खेमे इत्यादि इनके हाथ लगे ।

सेनापतियोंके आपसके द्वेषके कारण ही नवाबकी सेनाकी हार हुई । यदि मुहम्मद तकीखॉके साथ अन्य तीनों सेनानायक सहयोग करते, यदि अपनी महती सेनाको लेकर कतवाके युद्धक्षेत्रमें वे लोग मुहम्मद तकीखॉके साथ ही

युद्धमें प्रवृत्त होते, तो अंगरेजोंका विजयी होना असम्भव था । कतवामें अंगरेज करीब करीब हार ही चुके थे । नदीके किनारे जो सेना ठिपों हुई थी उसका सामना करनेके लिए समयपर यदि अन्य तीनों सेनापतियोंकी सहायता मिल जाती तो विजय अशक्य तकीर्णोंका साथ देती । परन्तु मैलिसनके कथनानुसार, भारतवर्षका इतिहास तो इस प्रकारके आचरणोंसे भरा ही पडा है । अंगरेजोंकी सफलताका सबसे प्रधान कारण तो देशके राजाओं और नेताओंके दरमियान छेपका होना ही रहा है । कतवाके युद्धक्षेत्रमें नवाब मीर कासिमकी पराजयका भी मुख्य कारण यही था ।

### ३३—सूतीका युद्ध ।

कतवाके युद्धक्षेत्रमें मिस्टर आदम्स तीन दिन तक ठहरे रहे । तत्पश्चात् वह मुर्शिदाबादके लिए रवाना हुए । पराजित सेना शहरसे दो मील दक्खिनमें पडाव डाले हुई थी । उसके पासमें मोताभील नामक एक तालाब भी था । इन लोगोंकी स्थिति अच्छी थी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । परन्तु कतवाकी पराजयके कारण इनके

\* The History of India abounds in instances of such impatriotic conduct. Indeed it may be affirmed that few things have more contributed to the success of the English than the jealousy of each other of the native princes and leaders in India.

Malleson's Decisive Battles of India.

हृदयमें उत्साह नहीं रहा । जब अंगरेजोंने इनपर जोरोंसे आक्रमण किया तो ये ठहर न सके और भाग खड़े हुए । दूसरे दिन आदमूस मीर जाफरको लेकर मुर्शिदाबादमें दाखिल हुए । इधर मुर्शिदाबादके नायब सैयद मुहम्मद खॉको जब कतवाकी पराजयका समाचार मिला तो उनका खून सर्द होगया । इस समग उनसे अपनी कायरताका परिचय देनेके सिवाय और कुछ करते न घना । शहरकी रक्षाका कुछ प्रबन्ध किये बिना, खजाना आदिको ज्योंका त्यों छोडकर, वह शहरसे मुँगेरके लिए रवाना हुए । बिना किसी कष्टके शहरपर मीर जाफरका अधिकार हो गया । लगभग एक सप्ताह तक सब लोग मुर्शिदाबादमें ठहरे रहे । तदनन्तर अंगरेजी सेना शत्रुसे लडनेके निमित्त आगे बढ़ी ।

मुहम्मद तक़ीखॉकी मृत्युसे नवाब मीर कासिमको बडा शोक हुआ । परन्तु इस अवसरपर उन्होंने धैर्यसे काम लिया । शाह हैबतुल्लाके पास उन्होंने आजा भेजा कि वह सूतीके मैदानमें जाकर शत्रुका सामना करें । नवाबने एक सेना भी रवाना की । सात हजार घुडसवार आसु दौल्लाखॉके अधीन रखे गये । समरू और मारकरके अधीन तिलगोंकी सात पलटनें रखी गयीं । १६ तोपें भी इन लोगोंके सिपुर्द की गयीं । इनके अतिरिक्त नवाबने मीर नासिरके अधीन थोडेसे गोलन्दाज भी भेजे । सबको यह आदेश दिया गया कि आपसमें झगडा या द्वेष न करें । साथ ही मार कासिमने पूर्णियाके फौजदार शेरअलीखॉका लिख भेजा कि गंगा पार कर अपनी सेनाके साथ वह भी सूतीके मैदानमें जायें ।

यथासमय सब लोग सूतीके मैदानमें झा पहुँचे । नवायी सेनाका स्थिति बड़ी ही अच्छी थी । सामने प्राकृतिक ढंग-पर खाश्या बनी पडी थी । प्रकृतिने ही इनको ऐसा बना दिया था कि शत्रुकी दाल गलना यहाँ पर कठिन था । मीर कासिमने अपनी अच्छीसे अच्छी सेना यहाँ भेजी । कतवाके युद्धमें बचे हुए सिपाही भी युद्ध करनेके लिए तथा पराजय कालिमा धानेके लिए आकुल हो रहे थे । सब कुछ था परन्तु मुहम्मद तकीखांकी तरह योग्य नेता न था । यदि मीर कासिम ही रणभूमिमें उपस्थित रहते तो भी उनकी उपस्थिति मात्रसे सेनामें उत्साह रहता । वह अफसरोंके पारस्परिक द्वेषको रोक सकते थे । युद्ध-क्षेत्रमें उनके कारण सफलता प्राप्त हो सकती थी, परन्तु दुर्भाग्यसे वह भी वहाँ न थे । मारकर और समरू राहमें ही अपनी सेनाके साथ डटे थे । उनकी दाहिनी ओर आसुदौला आठ हजार घुडसवार और बारह हजार पैदल सेनाके साथ मौजूद थे । बाईं ओर शेरअली अपने दो-तीन हजार आदमियोंको लिये खडे थे ।

मेजर आदमूस्ने भी अपनी सेनाकी व्यवस्था की । यूरोपियन बीचमें रहे । सिपाहियोंकी तीन पलटनें हर कतारमें की गयीं । जगह जगहपर तोपोंका प्रबन्ध हुआ । सिपाहियोंकी एक पलटन जरूरतके लिए रख छोडी गयी । इस प्रकार व्यवस्था करनेके पश्चात् मेजर आदमूस् आगे बढ़े । दोनों तरफमे तापें दगने लगीं । थोडी ही देरमें मध्यमें स्थित यूरोपियन सेनाका मुकाबला समरू और मारकरके साथ पडा । कुछ देर तेरू तो ऐसा 'मालूम हुआ कि विजय-अंगरेजोंका ही पक्ष ग्रहण करेगी, परन्तु तुरन्त

ही अग्रस्था एकदम परिवर्तित होगयी । आसुद्दौलाकी सेनाके एक अफसर बदरुद्दीन अपने अधीनस्थ थोड़ेसे सिपाहियोंको लेकर आगे बढ़े और अँगरेज तिलगोंकी एक पलटनपर उन्होंने आक्रमण किया । इसी बीचमें मीर नासिर अपने गोलन्दाज सिपाहियोंको लिये आ पहुँचे और अँगरेजी सेनापर उनका हमला हुआ । मीर बदरुद्दीनके मुकाबलेमें जो अँगरेजी तिलगे लड़ रहे थे वे अब अधिक देर तक मैदानमें न ठहर सके । रणक्षेत्र छोड़कर नदीकी ओर भागे । बहुत आदमी मारे गये, कुछने नदीमें डूबकर प्राण विसर्जन किये । इस आक्रमणमें मीर बदरुद्दीनके भी बहुतसे आदमी मारे गये । आसुद्दौला इनकी सहायताके लिए आगे बढ़े । परन्तु इनके साथके सिपाहियोंने युद्धकी भयकर अवस्था देखकर साहसको तिला छलि दे दी और ज्योंके त्यों काठकी तरह खड़े रह गये ।

इधर मीर नासिर अपनी गोलन्दाज सेनाके साथ अँगरेजोंसे बड़ी बहादुरीके साथ लड़ रहे थे । अँगरेजोंको सामना करना कठिन हो गया । आदमूसके आदेशानुसार उन लोगोंने अपनी तोपोंमें काँटे ठोक दिये और उनकी एक दीवार खड़ी कर दी जिसका पार करना शत्रुके लिए असंभव हो गया । मीर नासिरके किये अब कुछ न हो सका । इधर मारकर और समरु मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए । अब तिलगोंकी चार पलटनें अँगरेजी सेनाकी सहायताके लिए खाना कर दी गयीं । काफी मदद पाकर ये लोग नासिरकी फौजपर दूट पडे । मीर नासिर मार डाले ये । मीर बदरुद्दीन भी मैदान छोड़कर चलते बने । समरु और मारकर पहले ही पीठ दिखा चुके थे ।

आसुद्दोलाने भी इन लोगोंका अनुकरण किया । इस प्रकार विजयने इस वार भी अँगरेजोंका ही साथ दिया । शत्रु-दलकी १७ तोपें और रसदसे भरी एक सौ पचास नावें अँगरेजोंके हाथ लगीं ।

नि सन्देह सूतीका युद्ध एक स्मरणीय युद्ध था । अँगरेज इसमें भी प्रायः हार चुके थे, परन्तु अन्तमें भाग्यने पलटा रखा । आसुद्दोलानकी कायरता तथा समरू और मारकरकी स्वार्थपरताने परिस्थितिमें विचित्र उलटफेर उत्पन्न कर दिया । यदि आसुद्दोलानकी सेना तनिक भी उत्साह दिखाती यदि समरू और मारकर कुछ देर भी मैदानमें अड जाते, तो संभव नहीं था कि नवाबकी पराजय होती । कुछ भी हो, विजयलक्ष्मीने अँगरेजोंके ही गलेमें माला पहनायी । हारी हुई सेना उदवानाला पहुँची और वहाँ उसने अपना पड़ाव डाला ।

### ३४—उदवानालाका युद्ध ।

ती युद्धके भयकर परिणामसे नवाबके हृदयको बड़ी चोट लगी । मुहम्मद तकौलीकी मृत्युके बाद ही उन्होंने अपने परिवार और धनादिको रोहतासगढ़ भेज दिया था । सूतीकी लड़ाईके पश्चात् उन्हें अपने अफसरों और दरबारियोंके स्वभावमें कुछ परिवर्तन होता दिखाई दिया । नवाबको विशेष कर उन लोगोंका भय बना हुआ था जिन्हें उन्होंने कैद कर रखा था । उन्हें इस बातकी आशका थी



कि समयको मेरे विरुद्ध देखकर ये लोग मेरे खिलाफ को पड्यन्त्र न कर बैठें । अवस्था ऐसी विगड़ी हुई थी कि नवाब इन्हें अधिक दिनों तक कैदखानेमें भी नहीं रख सकते थे । अतएव ये लोग मार डाले गये । इनमें मुख्य व्यक्ति रामनारायन, जगत सेठ, राजवल्लभ और राजा फताह सिंह तथा नुनियाद सिंह थे । अंगरेज कैदी जो इन दिनों मुंगेरमें कैद थे अभी जीवित रखे गये ।

नवाब अब चम्पानगरके लिए रवाना हुए । वहाँपर उदवा वामें लड़नेवाली सेनाकी अवस्थाका ज्ञान प्राप्त करनेके निमित्त वह ठहर गये । इन्हीं दिनों मिरजा नजीफखाना नामक एक बहादुर सिपाहीने मीर कासिमसे भेंट की । नजीफ पहले सुजाउद्दौलाके सेनाविभागमें नायक रह चुके थे, परन्तु कुछ कारणवश उस स्थानको उन्होंने त्याग दिया और मीर कासिमके पास नौकरीकी इच्छासे आये । नवाबने उन्हें अपनी सेनामें रख लिया और उदवानालामें थोड़ेसे सिपाहियोंका अफसर बनाकर भेजा ।

उदवा एक छोटी गहरी नदी है । यह राजप्रहलक पहाड़ियोंसे निकलकर गंगा नदीमें गिरती है । इसके किनारे इतने ऊचे हैं कि उनको पार करना बड़ा ही कठिन है । इसकी स्थिति नवाब मीर कासिमको बड़ी पसन्द आयी । कुछ दिनों पहलेसे ही उन्होंने इस स्थानको अपनी सेनाके लिए ठीक करना आरम्भ कर दिया था । नदीके ऊपर नवाबके आदेशानुसार ईटका एक पुल बनाया गया । उदवा नदीके परे एक गहरी खाई भी नवाबने खुदवार्य और उसके पीछे मोरचाबन्दीके लिए दीवार भी खड़ी कर दी गयी । खाई और दीवार पहाड़ियोंके पाससे गगानदी

तक फेली हुई थी । उनके और गगानदीके बीचमें सेनाके ठहरनेके निमित्त काफी स्थान था । खाई बड़ी गहरी थी और उसके ऊपर लकड़ीका एक पुल था । यह पुल एक तालाब और दलदलसे मिला हुआ था जो पहाड़ियोंसे शुरू होकर दीवार (इट्रेञ्चमेण्ट) के साथ साथ चले गये थे । इसके द्वारा दीवारकी बड़ी रक्षा होती थी । जब सूतीके युद्धमें मोर कासिमकी हार हुई तो उन्होंने इसी सुरक्षित स्थानमें अपनी सेनाको ठहरने और लड़नेकी आशा दी ।

उदयानालाकी लड़ाईमें नवाबने अपनी अच्छीसे अच्छी सेना भेजी । उनके तमाम चुने हुए सेनापति मौजूद थे । केवल प्रवान सेनापति गुरगीनखा नहीं थे । निस्सन्देह उदयानालाका युद्ध दोनों तरफके भाग्यका निश्चय करने के लिए हुआ था । यदि नवाबका पलरा भागी हुआ तो वह पूर्ण स्वतन्त्र होंगे और अंगरेजोंकी शक्ति नष्ट होगी, फलाइके तमाम प्रयत्न धूलमें मिल जायेंगे । दूसरी तरफ यदि अंगरेजोंकी विजय हुई तो नवाबकी शक्तिका लोप हो जायगा, उनका अस्तित्व ही इस सत्तारसे मिट जायगा ।

अंगरेजी सेना मेजर आदमूसके अधीन ११ तारीखको उदयासे चार मीलकी दूरीपर पालकीपुरमें पहुँची और तीन सप्ताह तक वहाँ रहकर लड़ाईका प्रयत्न करती रही । २४ वें दिन तोप द्रागीं गयीं, परन्तु इन तोपोंका प्रभाव भीर कासिमके दुर्ग प्राचीरोंपर कुछ भी न पडा—नदीके निकट फाटकपर छोटासा सुराख हो गया था परन्तु यह पर्याप्त नहीं था । आदमूस असमञ्जसमें ही पड़े रह गये कि क्या करना चाहिये । वह अपने कर्तव्यके सम्यन्धमें कुछ भी निश्चय नहीं कर सके ।

इधर भाग्यने फिर पलटा लाया । नवाबको सेनाके एक अफसर नजीफखांको ( जिनका वर्णन पहले कर दिया गया है ) पता लगा कि तालाब ओर दलदल होकर एक छोटासा मार्ग निकला है जिसके द्वारा अंगरेजोंके पडावमें आसानीसे पहुँच सकते हैं । फिर क्या था । एक रातको नजीफ उसी रास्तेसे जाकर अंगरेजी नौपर टूट पड़े और उसके दरमियान खलयत्ता मचा दी । नवाब मीर जाफर ताँ मरते मरते धचे । वह भाग कर नदीमें डूबने ही वाले थे कि इतनेमें थोड़ेसे अंगरेजी सिपाहियोंने उन्हें देखा और घचा लिया । इस प्रकार नजीफखाँ नित्यप्रति अंगरेजापर आक्रमण करते थे । उनका नाकाँ दम होगया । अब वे उस मार्गका अनुसन्धान करने लगे जिससे होकर नजीफ आते थे ।

कुछ दिन पहले एक अंगरेज अपनी सेना छोडकर नवाबसे मिल गया था । उसने नजाफको उक्त मार्गसे जाते देखा था । एक रातको उसने अंगरेजी सेनाके निकट जाकर कहा कि यदि मुझे क्षमा प्रदान की जाय तो मैं उक्त मार्गका पता बतला दूँ । आदमीने उसकी प्रार्थना स्वीकार की । उस आदमीने रास्ता बतला दिया । अंगरेजोंने सीढियाँ तैयार कीं और रातके समय कप्तान अरविंगरू अवीन सिपाहियोंका दो पलटनें और कुछ यूरोपियन रेजीमण्ट रवाना हुई । कुछ फौज कप्तान मारनके अधीन खाईके पास गयी । कुछ लाग चारनाककी मातहतीमें जरूरतके लिए रख छोडे गय । बाकी लाग पडावकी रक्षाके लिए रह गये ।

मिस्टर अरविंग सेना लिये घाट ( फोर्ड ) होकर चल

तो अग्रश्य दिये, परन्तु उन्हें कठिनाइयोंका पता नहीं था । घाट इतना गहरा था कि तोपें, सीढियाँ आदि तमाम सामान माधेपर ले जाना पडा । यदि शत्रु-दलका एक भी आदमी इन सब घटनाओंको देखता तो निसन्देह तमाम अंगरेजी सेना विनाशको प्राप्त हो जाती । परन्तु वे लोग तो निश्चिन्त होकर साये पड़े थे । उन्हें क्या पता था कि अंगरेज गुप्त मार्गसे आक्रमण करेंगे ? अंगरेजों सेना दीवार तक पहुँच गयी । वह सीढियों लगा कर दुर्गप्राचीरपर चढ़ गयी और वहाँ अपना अधिकार जमा लिया । प्राचीरपर पहुँच कर इन लोगोंने मशाल जलाई । मोरनने, जा पार्सियों तरफ भेजे गये थे, जब इन मशालोंको देखा तो उन्हें प्रारम्भिक विजयका पता लग गया । फिर क्या था ! वह उस सूर्यास्की तरफ बढ़े जिसका घर्जन पहले ही कर दिया गया हे । परन्तु उस सूर्यास् होकर सारी सेनाके लिए भीतर जाना बडा कठिन था । उसमें एक बार फेरल एक ही आदमी जा सकता था । मैलिसन साहय लिखते हे कि 'इस अवसरपर यदि शत्रुदल कुछ भी साहससे काम लेता तो अंगरेजोंके किये कुछ भी न होता ।'

यद्यपि इस बीचमें नवाबकी सेना सावधान हो गयी थी परन्तु उसमें अभी गडबडा फेली हुई थी । वह कुछ भी न कर सकी । इधर अंगरेजोंने दीवारपर सीढियाँ लड़ी कर दीं । दो एक आदमी भीतर दाखिल होगये और फाटकर पोल दिया । सब लोग भीतर घुस गये और अरविंगकी सेनामें जा मिले । नवाबकी सेनापर अग्नि वर्षा आरम्भ होगयी । बहुतसे आदमी मारे गये । ये

लोग भागनेमें भी असमर्थ थे । नालापार पुलपर नवाबकी एक सेना थी । उसे यह आज्ञा थी कि कोई भी सिपाही यदि पीठ दिखावे तो मार डाला जाय । एक तरफ अंगरेजी सेना मारती और दूसरी ओरसे वे अपने ही आठमियों द्वारा कालके मुहमें डकेले जाते । इस प्रकार सेनाके बहुत आदमी हत हुए । बहुतसे तां नदीमें डूब मरे । मैलिसन लिखते हैं कि आदमून्ने नवाबकी सेनाको केवल हराया ही नहीं बरन् पूर्णतया नष्ट भी कर डाला । अब इन लोगोंमें यह साहस नहीं रहा कि राजमहलमें ठहरें या अन्य किसी सुरक्षित स्थानमें पडाव डालें और युद्धकी तैयारी करें ।

इस प्रकार उदवानालाकी लड़ाईका अन्त हुआ । 'यह केवल उस व्यक्तिका काम था जिसने अंगरेजोंको गुप्तमार्ग का पता बताया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंगरेजों की निराशा विजयमें परिणित होगयी' और नवाबकी कुल आशाएँ उदवानालाकी रणभूमिमें निर्मूल हो गयी ।

यथासमय नाराय मीर कासिमका भी उदवानालाके युद्धका हाल मालूम हो गया । अपनी पराजयका समाद पाकर उनका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया । अब उन्हें सफलताकी कोई आशा न दीख पडी । रातके समय वह मुँगेर चले गये और वहाँपर दो दिन रह कर अपनी सेनाकी देखभाल करते रहे । तत्पश्चात् उन्होंने अजीमाबादकी यात्रा की । किलेकी रक्षाका भार अरब निवासी अरीब

\* It was the act of a single individual which converted the despair of the English into confidence

अलीको लोपते गये । नवाब अपने साथ सत्र अंगरेज कैदियोंको भी लेते गये । रास्तेमें गुरगीनखॉको मृत्यु यत्नणा सहन कानी पडी ।

मुताफरीनके लेखक सैयद गुलामहुसैनके रूथनानुसार गुरगीनकी मृत्युकी कहानी यह है कि दो सिपाही इनके पास तनखाह माँगने आये और उन्होंने दो चार अनुचित शब्द इनके लिए प्रयुक्त किये । इसपर गुरगीनको क्रोध आया और उन्होंने आवाज दी कि दोनों सिपाही कैद कर लिये जायें । उन दोनोंने यह सुन कर अपना भाला खेंच लिया और गुरगीनका काम तमाम किया । सैयद गुलामहुसैन लिखते हैं कि—“जीवन पर्यन्त जिसने कपडा बेचा वह सौदागर गुरगीन भला अपने सिपाहियोंपर अपना दबदबा कैसे जमा सकता था” मुताफरीनके लेखकके मतानुसार दो सिपाहियोंने ही गुरगीनको मारा, यह ठीक है । परन्तु जो कारण उन्होंने दिया है रास्तेमें वह गुरगीनकी मृत्युका कारण नहीं था । गुलामहुसैनने स्वयं स्वीकार किया है कि नवाब मीर कासिमके सिपाहियोंकी तनखाह समयपर मिल जाया करती थी । असल बात यह है कि गुरगीनकोपर नवाबको यह सन्देह हो गया कि वह हमारे विरुद्ध अंगरेजोंसे मिलकर पड्यन्त्र कर रहा है । गुरगीनका भाई खाजा पेटरुस\* अंगरेजोंका मित्र था । गवर्नर और हेस्टिंग्सकी प्रार्थनाके अनुसार वह अपने भाई गुरगीनखॉके साथ पत्र-व्यवहार कर रहा था कि वह अपनी सेनाके साथ अंगरेजोंसे मिल जायें और मीर कासिमको पकड कर अंगरेजोंके सिपुर्द करें । इस पर

\* Khwaja Petrus



दी। डाकूर फुलरटनके अतिरिक्त अन्य कुल अंगरेजोंको मृत्यु-यन्त्रणा भागनी पडी।

यह घटना सवत् १८२० (सन् १७६३ ई० के अक्टूबर मास) की है। जब इसकी सूचना कलकत्ता पहुँची तो वहाँके अंगरेजोंमें बड़ी सनसनी फैली। दो सप्ताह तक शोक मनाया गया। अंगरेजोंने एक रोज उपवास भी किया और राष्ट्रीय अपमानका दिवस मनाया। यह घोषणा की गयी कि जो व्यक्ति मीर कासिमको अंगरेजोंके हाथ गिरफ्तार करा देगा उसे एक लाख रुपया इनाममें दिया जायगा। समरूकी गिरफ्तारीके लिए भी चालीस हजार रुपया पुरस्कार नियत हुआ।

उपर्युक्त दण्ड निर्धारणके लिए बहुतसे इतिहासकारोंने नवाब मीर कासिमको दोषी ठहराया है और उनकी कड़ी आलोचना की है। उनकी सम्मतिमें यह दण्ड निर्धारण नहीं बरन् हत्याकाण्ड था। इतिहासमें यह घटना पटना हत्याकाण्डके नामसे प्रख्यात है। वेवरिज साहब लिखते हैं कि 'यह घटना कलकत्तेकी काल फोठरीके हत्या काण्डसे भी अधिक भयानक और दुष्कर थी।' बंगालके तत्कालीन गवर्नर वानसीटाटने अपने शासनकालमें सवदा नवाब का ही साथ दिया था। परन्तु अपने देशवासियोंके प्रति नवाबके इस व्यवहारको वह भी किसी प्रकार सहन नहीं कर सके! वह लिखते हैं "इस घोर हत्याकाण्डके द्वारा नवाबने अपने माथेपर कलकत्ता जो टीका लगाया है उसपर दृष्टिपात करते हुए यह बात इतिहासके अधिकारसे बाहर की जा गयी है कि वह नवाबके साथ न्याय करे और उनके



व्यवहारका पता नवाबको अपने गुप्तचरविभाग द्वारा मिला । उन्होंने गुरगोनको मरवा डाला ।

पटना पहुँच कर नवाबने जाफरखॉके बागमें पडाव डाला । वहाँसे उन्होंने आज्ञा भेजी कि पटनेके दुर्गकी रक्षाका उचित प्रबन्ध किया जाय । दो चार दिन बाद नवाबको खबर मिली कि मुँगेरका दुर्ग अँगरेजोंके हाथमें चला गया । जिस अरीय अलीखॉको दुर्गका भार नवाब सौंप आये थे उसने धोखा दिया । जब अँगरेजोंने दुर्गपर घेरा डाला ता अरोब अलीने कहला भेजा कि यदि मुझे कुछ रुपया दिया जाय ता मैं दुर्ग अँगरेजोंके सिपुर्द कर दूँ । अँगरेजोंको तो मीर कासिमको पकडनेकी जल्दी पडी थी ही । रुपया दे दिया गया और दुर्गपर अँगरेजी पता का फहराने लगी ।

### ३५—प्राणदण्ड या हत्याकाण्ड ?



दवानालाके युद्धमें परास्त होकर जब नवाब मीर कासिम मुँगेर होते हुए पटने को लौट रहे थे तब उन्होंने अपने साथ उन अँगरेज अभियुक्तोंको भी ले लिया था जिन्होंने कुछ दिनों पूर्व पटना शहरपर आक्रमण किया था और प्रजाके धन

तथा सम्पत्तिको अपहरण किया था । पटना पहुँच कर नवाबने इन अभियुक्तोंके लिए प्राणदण्ड निर्धारित किया ।

उन्होंने समरूको उन लोगोंका काम तमाम करनेकी आज्ञा

दी। डाकूर फुलरटनके अतिरिक्त अन्य कुल अंगरेजोंको मृत्यु यन्त्रणा भागनी पडी।

यह घटना सवत् १८२० (सन् १७६३ ई० के अक्टूबर मास) की है। जब इसकी सूचना कलकत्ता पहुँची तो वहाँके अंगरेजोंमें बड़ी सनसनी फैली। दो सप्ताह तक शोक मनाया गया। अंगरेजोंने एक रोज उपवास भी किया और राष्ट्रीय अपमानका दिवस मनाया। यह घोषणा की गयी कि जो व्यक्ति मीर कासिमको अंगरेजोंके हाथ गिरफ्तार करा देगा उसे एक लाख रुपया इनाममें दिया जायगा। समरूको गिरफ्तारीके लिए भी चालीस हजार रुपया पुरस्कार नियत हुआ।

उपर्युक्त दण्ड निर्धारणके लिए बहुतसे इतिहासकारोंने नवाब मीर कासिमको दोषी ठहराया है और उनकी कड़ी आलोचना की है। उनकी सम्मतिमें यह दण्ड निर्धारण नहीं धरन् हत्याकाण्ड था। इतिहासमें यह घटना पटना-हत्याकाण्डके नामसे प्रख्यात है। वेवरिज साहय लिखते हैं कि 'यह घटना कलकत्तेकी काल कोठरीके हत्या काण्डसे भी अधिक भयानक और दुष्कर थी।' बंगालके तत्कालीन गवर्नर वानसीटाटने अपने शासनकालमें सर्वदा नवाब का ही साथ दिया था। परन्तु अपने देशवासियोंके प्रति नवाबके इस व्यवहारको वह भी किसी प्रकार सहन नहीं कर सके। वह लिखते हैं "इस घोर हत्याकाण्डके द्वारा नवाबने अपने माथेपर कलकत्ता जो टीका लगाया है उसपर दृष्टिपात करते हुए यह बात इतिहासके अधिकारसे बाहर की जा गयी है कि वह नवाबके साथ न्याय करे और उनके

पिछले गुणोंकी ओर ध्यान दे ।” थॉर्नटन साहबने भी इस घटनाके कारण नवाबके लिए लुच्चा और बदमाश शब्दोंका प्रयोग किया है ।

परिपाटी अथवा सम्कारका प्रभाव बड़ा ही प्रबल होता है । जो सस्कार एक बार हृदयमें बैठ जाते हैं उनका निकालना प्रायः बहुत कठिन हुआ करता है । यह बात जिस प्रकार सामाजिक प्रथाओंके सम्बन्धमें लागू है, उसी तरह इतिहास भी इस नियमसे मुक्त नहीं है । डफ आदि कुछ अँगरेज लेखकोंने शिवाजीको ‘डाकू’ और ‘लुटेरा’ आदि शब्दोंसे आभूषित किया था । अन्य लेखकोंने भी आँख मूँदकर उन्हींका अनुसरण किया । यह बात इतिहासका एक अंग बन गयी और जब तक मराठा इतिहासकारोंने वारतविक सत्यका अनुसंधान नहीं किया, तब तक इतिहास लिखनेवालोंके लिए यह ब्रह्मवाक्य बना रहा । उसी प्रकार कालकोठरीकी घटनाको भी सत्य मानकर इतिहास लेखकोंने उसकी भयङ्करता तथा सिराजुद्दौलाकी निरकुशता प्रदर्शित करनेके निमित्त अपनी बुद्धि और विद्याका समस्त भण्डार खर्च कर डाला । यद्यपि यह बात लगभग प्रमाणित हो चुकी है कि कालकोठरीकी घटना हालवेल द्वारा गढ़ी हुई एक कपोल कल्पित कहानी मात्र थी, फिर भी पुरानी परिपाटीके अनुसार यह घटना आज भी ऐतिहासिक सत्य मानी जा रही है । मीर कासिमको बदनाम करनेके लिए और उनकी अपकीर्तिकी आड़में अपने देशवासियों द्वारा किये गये लज्जाजनक एवं निन्दनीय आचरण पर परदा डालनेके अभिप्रायसे अँगरेज इतिहास लेखकोंने

पटनेकी उपर्युक्त घटनाको तिलका पहाड बना दिया । शासककी हैसियतसे नवाबने जो कुछ किया उसे उन लोगोंने 'निर्दय हत्या'के नामसे मशहूर कर दिया । इन इतिहासकारोंकी बात आगे चलकर देरकी लकीर बन गयी और बादकी पीढीके लेखक उन्हींकी हॉमें हॉ मिलाने लगे ।

इन समस्त इतिहासकारोंकी पोथियोंको तालपर रख कर अन्तर्निष्पन्न होकर यह अनुसन्धान करनेकी जरूरत है कि क्या सचमुच नवाब मीर कासिमने कोई अज्ञान्य अपराध किया । कुछ इतिहासलेखकोंने नवाब मीर कासिमको दोषी बतलाते हुए भी इस बुनियादपर उन्हें क्षमा प्रदान की है कि 'जिस स्थितिमें नवाब पड गये थे उसमें रह कर उक्त प्रकारका अपराध उनके हाथों होना अस्वाभाविक नहीं था । वह अंगरेजोंके अत्याचारोंसे तग आ गये थे । उनमें साथ बड़े बड़े अन्याय अंगरेजों द्वारा किये गये थे जिन्हें सहन करने करते उनका धैर्य छूट गया था । इसी कारण अधीर होकर उन्होंने ऐसा हत्याकाण्ड कर डाला । ऐसी स्थितिमें उनका अपराध क्षम्य है ।' निस्सन्देह यदि नवाबका अपराध मान भी लिया जाय तो भी परिस्थिति का विचार करने हुए उन्हें क्षमा करना पड़ेगा । परन्तु नवाबके कारनामे तो क्षमाके भिन्नारी हैं ही नहीं । लेखक तो परिस्थितिको किनारे रखकर—केवल उचित अनुचितका ही ख्याल करते हुए—यह प्रमाणित करनेका तैयार है कि नवाब मीर कासिमने उपर्युक्त घटनाके न्यूनन्धमें जो कुछ किया वह पूर्णतः न्याययुक्त था । उसमें बदलेकी या विद्वेषकी गन्ध नहीं थी । केवल नीति और न्यायका भाव ही उसमें वर्तमान था ।

पाठकोंको स्मरण होगा कि पटनेमें जो अंगरेजी सेना रक्षायी गयी थी उसका खर्च नवाब द्वारा मिलता था । नवाबने तीन जिले अंगरेजी सेनाके खर्चके लिए दे डाले थे । यह सेना केवल इस लिए थी कि शत्रुओंसे नवाबकी रक्षा करे और उन्हें राज्य सञ्चालनमें सहायता पहुँचावे । अंगरेजोंका एक मात्र कर्तव्य यही था कि वे नवाबकी सहायता करते, सेवा करते और समयपर उनके काम आते । परन्तु इन लोगोंने प्रारम्भसे ही इस कर्तव्यकी अवहेलना की । सन् १८१८ ( सन् १७६१ ई० ) में जब नवाब बिहारकी राज्य व्यवस्था ठीक करनेके निमित्त पटना आये हुए थे, उस समय एक रात्रिको मिस्टर कूटने ससैन्य उनके खेमोंपर हमला कर दिया । नवाब यदि चाहते तो उसी समय उन्हें उपयुक्त दण्ड दे सकते थे, परन्तु उन्होंने कोई भी प्रतिकार नहीं किया । इसके पश्चात् एलिसके हाथ भी उन्हें कई बार अपमानित होना पड़ा था । फिर भी नवाबने प्रति बार सब्रसे काम लिया । किन्तु पटनेपर अंगरेजोंका रातोंरात आक्रमण, लूट पाट और कब्जा बड़ेसे बड़े सहनशील शासकके लिए भी असह्य था । यदि कोई शासक उसे सहन करता तो उसका अर्थ यही होता कि उसमें शासनको योग्यता ही नहीं है । मुताखरीनके लेखानुसार अंगरेजी सेनाने बहुतसे घरोंमें एक दाना भी नहीं छाड़ा । कई घरोंमें आग लगा दी । इस बड़े अपराधका दण्ड क्या हो सकता था ? पाठक स्वयं सोचें । शासनके अन्दर इतना बड़ा अपराध यदि कोई व्यक्ति करे तो उसके लिए मृत्युसे कम कोई दण्ड हा ही नहीं सकता, खासकर ऐसी अवस्थामें जब

वह अपराध ऐसे व्यक्तियों द्वारा हुआ हो जिनके हाथ रक्षाका भार सौंपा गया था। ऐसे विश्वासघातका दण्ड किसी भी राज्यमें मृत्युसे कम हुआ हो तो लेखकको उसका पता नहीं है।

अंगरेजोंके उक्त कृत्यको विश्वासघात कहना केवल लेखककी बुद्धिका ही आप्रिप्कार नहीं है। गवर्नर वानसी टार्ट महाशयने, जा नवाब मार कासिमको अंगरेज अभियुक्तोंके प्रति उनके न्याययुक्त आचरणके लिए किसी प्रकार क्षमा प्रदान करनेको तैयार नहीं है, साफ शब्दोंमें स्वीकार किया है कि अंगरेजोंका पटनेपर आक्रमण करना विश्वासघातसे कम नहीं था। यह लिखते हैं "कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति अपनेको मीर कासिमके स्थानपर रखे और घत लावे कि क्या वह उक्त परिस्थितिमें रहकर अंगरेजोंके इस आचरण ( पटनेपर आक्रमण ) को विश्वासघातके अतिरिक्त और कुछ समझ सकता था ?" \*

पाठक लेखकके विचारोंको किनारे रखकर अपनेको वानसाटाटके ही स्थानमें रखें—उन वानसीटार्टके स्थान पर नहीं जिन्होंने अपने देशवासियोंकी छुदगाको देख कर न्याय विचारको तिलाञ्जलि दे दी हा बल्कि उन वानसाटाटके स्थानपर रहकर जिन्होंने अपने देशवासियोंके कृत्यको विश्वासघात कहने हुए उसकी निन्दा का है—और बतलावें कि वे इन अभियुक्तोंके लिए क्या दण्ड निर्धारित करेंगे ?

\* Let any impartial person now put himself in the place of Meer Kassim and say whether he could have regarded this assault on the city of Patna, in any other light than as an act of treachery ?

यह भी कहा जाता है कि ये अभियुक्त युद्धके कैदी थे । इन्हें मारना युद्धनियमोंके विरुद्ध था । लेपकका जहाँ तक युद्ध-बन्दियोंकी परिभाषा मालूम है उसमें ये अंगरेज अभियुक्त नहीं आते । असल बात तो यह है कि इन लोगोंकी हैसियत नवाबके शत्रुओंकी नहीं थी बल्कि उनके रक्षकोंकी थी । वास्तवमें ये लोग उनके सिपाही थे । इसके अलावा इन लोगोंकी गिरफ्तारी युद्धको घोषणाके पूर्व हुई थी । अतः ये लोग युद्ध-बन्दी नहीं कहे जा सकते ।

मोर कासिमके विरुद्ध एक दलील यह दी जाती है कि यदि वह दण्ड देना चाहते थे तो उन्हें चाहिए था कि उन अभियुक्तोंपर बाकायदा मुकद्दमा चलाते । निस्सन्देह नवाबने नियमित रूपसे मुकद्दमा नहीं चलाया—चला भी नहीं सकते थे, नहीं तो वह ऐसा अवश्य करते । पाठकोंको मालूम है कि उदवानालाके युद्धमें नवाब अपना सर्वस्व खो चुके थे । इस समय वह भागनेकी अवस्थामें थे । अंगरेजी सेना उनके पीछे लगी थी । एक एक पल उनके लिए एक एक युगके समान था । परिस्थिति पूर्णतः उनके प्रतिकूल थी । हर जगह उनके विरुद्ध बगावतें शुरू हो गयी थीं । इतना समय नहीं था कि वह इन अभियुक्तोंको दण्ड देनेके लिए बाजाब्ता कचहरी बैठाते । ऐसी दशा में उनकी आज्ञा ही सर्वोपरि अदालत माना जानी चाहिए ।

कहा जाता है कि ये लोग निरस्त्र थे । निरस्त्रोंपर हाथ उठाना नीतिविरुद्ध है । ठीक है, किन्तु कब ? जब दो सेनाएँ आपसमें लड़ती हों, तब एक सेनाके लिए यह अनुचित हो सकता है कि दूसरी सेनापर, यदि वह निरस्त्र है तो, हाथ न उठावे । परन्तु क्या अभियुक्तोंके

लिए भी यही नियम लागू है ? क्या कोई सरकार जब किसी व्यक्तिको फाँसीकी सजा देती है तब उसके हाथमें पिस्तोल दे देती है और कहती है कि मुकाबला करते हुए फाँसीपर चढ़ो ? ठीक इसी श्रेणीमें क्या ये अंगरेज बन्दी भी नहीं रक्षित जा सकते ? आज सत्सारीकी सभ्यता पहिलेसे अधिक उन्नत है परन्तु किस राष्ट्रने अपने अभियुक्तोंको यह अधिकार दिया है ? उक्त अंगरेज भी अभियुक्तोंकी श्रेणीमें थे—उन्हें दण्ड दिया गया था और तदनुसार उनके साथ व्यवहार होना सर्वथा न्यायसङ्गत था ।

किसी भी पहलुमें विचार किया जाय, परिणाम यहीं निकलेगा कि मीर कासिमने बदला लेने या विद्वेषके भावसे नहीं बरन् केवल न्यायभाजसे प्रेरित होकर अंगरेज अभियुक्तोंको प्राणदण्ड दिया था । यदि उन्हें कुल अंगरेज जातिसे दुश्मनी होती (यद्यपि अंगरेजोंने जो सलूक उनके साथ किया था उसपर ध्यान देते हुए ऐसी दुश्मनी भी क्षम्य है) तो वह अपराधी और निरपराधी सबके साथ एक समान व्यवहार करते । परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । पाठकोंको शायद मालूम होगा कि फुलरट्टनको नवाबने मुक्त कर दिया था । यह पट्टनेमें डाकूरी करते थे । इन्होंने नवाबके सामने अपनी निरपराधिता प्रमाणित की, अतः नवाबने इन्हें छोड़ दिया ।


कुछ लेखकोंने बड़ेही मर्मस्पर्शी शब्दोंमें वर्णन किया है कि मीर कासिमने पुरुषोंके अतिरिक्त स्त्रियोंको भी मरवा डाला । लेखकोंको मालूम नहीं किस आधारपर नवाबपर यह दोषारोपण किया जाता है । तीन प्रमाण इसके बिलकुल खिलाफ हैं । मिस्टर वेवरिजको ब्रिटिश म्यूजियममें एक



झायरी मिली थी जो किसी डाकूरेके हाथकी लिखी थी । यह महाशय भी उन अभियुक्तोंमें थे जिन्हें नवाबने प्राण दण्ड दिया था । अपनी मृत्युके पहिलेकी तमाम घटनाओंका इन्होंने उल्लेख किया है । यह महाशय एक नावपर बैठकर अन्य बहुतसे अंगरेजोंके साथ भागे जा रहे थे । नवाबके आदमियोंने इनका पीछा किया । वेवरिजने इनकी डायरीके आधारपर लिखा है कि पुरुष गिरफ्तार कर लिये गये, किन्तु स्त्रियाँ तथा बच्चे छोड़ दिये गये ।\* इसके अतिरिक्त कलकत्ता कौन्सिलके आदेशानुसार फुलरटनने इस घटनाका पूरा व्यौरा तैयार किया था । उन्होंने उन लोगोंकी एक फिहरिस्त तैयार की थी जो मारे गये थे । उस सूचीमें किसी भी स्त्रीका नाम नहीं आता । तीसरा बड़ा प्रमाण सैरुल मुताखरीन हे । मुताखरीनके लेखकने अपनी पुस्तकमें अदनी अदनी बानोंका वर्णन भी नहीं छोड़ा है । उसने भी अपनी पोथीमें किसी भी स्त्रीके मारे जानेका हाल नहीं दिया है । यदि इन मौलिक लेखोंके अलावा कोई प्रमाण इतिहासकारोंके पास हो तो उसका पता लेखकको नहीं है । यदि इतिहासकारोंकी घातोंपर थोड़ी देरके लिए विश्वास भी कर लिया जाय कि उक्त अवसरपर कोई निरपराधी भी मार डाले गये (जिसके माननेका कारण मौजूद नहीं है) तो भी उसका दोष नवाबपर नहीं बरन् मारनेवाले पर है । नवाबकी इच्छा केवल अपराधियोंको ही दण्ड देनेकी थी ।

\* I gather from this narrative that women and boys mentioned as having been in the boat were not imprisoned

नवाब मीर कासिमके प्रतिकूल केवल एक बात है जिसके कारण वह भले ही दोषी कहे जायें। वह युद्धमें परास्त हुए थे, उनका राज्य हाथसे निकल गया। यदि वह विजयी हुए होते तो उनके लिए सब कुछ क्षम्य होता। सत्कारका ऐसा ही नियम है। यदि कोई पराधीन राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रताके निमित्त युद्ध करते हुए परास्त होता है तो उसके कार्यको 'वगावत' कह कर उसको धजियाँ उड़ायी जाती हैं। यदि वह अपने उद्देश्यमें सफलीभूत हो जाता है तो उसका नाम इतिहासके पृष्ठोंपर स्वर्ण क्षरोंमें लिखा जाता है। यदि कोई शक्तिसम्पन्न व्यक्ति या राष्ट्र घोरसे घोर अमानुषिक कृत्य भी कर डाले तो भी वह सभ्य समझा जाता है। परन्तु पराभूत व्यक्ति या पराजित कौमकी न्यायप्रियता या गुणोंमें भी दोष निकालनेकी चेष्टा की जाती है। हारे हुए मीर कासिमका न्याय इतिहासमें (कोल्ड ब्लडेड मर्डर) निष्ठुर हत्याका कार्य कहलाने लगा परन्तु यदि वह विजयी हुए होते तो वही कार्य शासकका कर्तव्यपालन कहलाता। जो हो, इतिहासकारका कर्तव्य निष्पक्ष होकर वास्तविकताका अनुसन्धान करना है और लेखकने भी उक्त कर्तव्यके पालन करनेको चेष्टा की है। अब यह बात पाठक स्वयं सोच लें कि लेखकका मत कहाँतक ठीक है अर्थात् अँगरेज अभियुक्तोंके सम्बन्धमें मीर कासिमके आचरणको 'प्राणदण्ड' कहा जाय या 'हत्याकाण्ड'।




नहीं । हम लोग बार बार उनपर हमला करेंगे, उनकी गाड़ियाँ नष्ट कर देंगे, उनकी रसद जला डालेंगे, उनको सर्वदा चिन्तित अवस्थामें रखेंगे और उनका ठहरना असंभव कर देंगे । यदि इस प्रकार उत्साहके साथ कार्य जारी रहा तो ये लोग अजीमाबाद लौट जायेंगे । फिर हम लोग सहसराम जाकर बरसात काटेंगे । इस दरमियानमें कुछ लोग सारन भेजे जायें । वे उस स्थानको तथा उसके आसपासके और कई स्थानोंको, जिनकी रक्षाका कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है, अधिकारमें कर लें । वहाँके निवासियोंके साथ जर्मनकी मालगुजारीका बन्दोबस्त थोड़े ही दाममें कर लें और उन्हें अपनी ओर मिलाये रखनेका यत्न करें । इस प्रकारका प्रबन्ध इधर बक्सर से अजीमाबादतक भी किया जा सकता है । कुछ लोग अजीमाबादके आस पास गङ्गाके किनारे छितरे रहें और अँगरेजोंकी जो नावें अजीमाबादकी ओर जायें उन्हें नष्ट कर डालें । इस प्रकार रसदका भीतर आना एकदम बन्द हो जायगा । अन्तमें फल यह होगा कि अँगरेज बंगाल विहार छोड़कर लौट जायेंगे । फिर हम लोग सोचेंगे कि आगे चलकर क्या करना चाहिये ।”

उपर्युक्त सलाह विशेषकर उस समयके लिए बड़ी युक्तिसंगत थी । अँगरेजी सेना भी उस समय अच्छी अवस्था में नहीं थी । उसमें आपसमें विद्वेष जोर पकड़ रहा था । वे लोग अजीमाबादको लौटने ही वाले थे । इस दशामें यदि बजोर चाहते तो इनके लिए कार्य करनेका बड़ा अच्छा अवसर था । परन्तु यह तो अपनी शक्तिके नशेमें चूर थे । अब्दालीकी ओरसे लड़ कर इनकी सेनाने बड़ी

बहादुरी दिखायी थी । तबसे यह समझने लगे थे कि हमारे सामने सत्कारकी कोई ताकत ठहर नहीं सकती । इन्हें इस बातका पता नहीं था कि पानीपतके युद्धक्षेत्रमें जिन मराठोंको इन लोगोंने परास्त किया था उनमें और अँगरेजोंमें बड़ा अन्तर था । युद्धक्षेत्रमें मराठे लड़ना नहीं जानते थे, उन्हें परास्त करना कोई कठिन बात भले ही न हो परन्तु अँगरेजोंमें लडाकू जातिके तमाम गुण वर्तमान थे । उन्हें सामने सामने लडकर हटाना टेढ़ी खीर थी । परन्तु बजीरको इस बातका ज्ञान नहीं था । अपने अफसरोंकी सलाह सुनकर भी उन्होंने उसपर ध्यान न दिया ।

इधर अँगरेज बहुत दिनोंसे लडते लडते थक गये थे । अब वर्षा ऋतु भी आ पहुँची । इस समय उनमें लडनेका उत्साह नहीं रहा । वे अपना धैर्य खो बैठे । इसके अतिरिक्त शुजाउद्दौलाकी बहादुरीका सिक्का उनके हृदयपर जमा हुआ था । उन्हें भय था कि हम इतने बड़े शत्रुका सामना न कर सकेंगे । उन्होंने बक्सरसे अपना पडाव हटाना ही उचित समझा । अजीमाबादको ही उन लोगोंने अपनी रक्षाके लिए ठीक स्थान समझा । तुरन्त चलनेकी तैयारी की गयी । जल्दी जल्दी वे लोग अजीमाबादकी ओर चल पडे । शुजाउद्दौलाके घमण्डका तो अब धारदार न रहा । मीर कासिम और वादशाह शाह आलमके साथ वह अपनेको विजयी समझते हुए शत्रुका पीछा करनेके निमित्त अजीमाबादकी ओर बढे । अँगरेजोंको बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पडा । शत्रु लगातार पीछा करते ही गये और उनको नुकसान भी पहुँचाया । अन्तमें अँगरेज अजीमाबाद पहुँच गये ।

पानीकी तगीके कारण सीधे सडकसे न चलकर सोनके किनारे किनारे वजीर अपनी सेनाके साथ बढ़े । फुलवा डीमें इनका पडाव डाला गया । यह स्थान अजीमाबादसे चार कोसकी दूरीपर है । यहाँपर एक दिन और ठहर कर वजीर शत्रुपर आक्रमण करनेके लिए चल पडे ।



### ३६—अजीमाबादमें युद्ध ।

अजीमाबाद पहुँच कर अंगरेजोंने अपनी कुछ गोलन्दाज़ सेना बुर्जोंपर रखी और बाकीको लिये हुए वे आगे बढ़े । शहरमें दक्षिणकी ओर एक तालाब था । वर्षा ऋतुमें इसका पानी बढ़ कर चारों ओर शहरमें फैल जाता था । इसी लिए यहाँ एक बाँध बाँधा गया था जिससे पानी रुक जाता था । इस बाँधको अंगरेजोंने और चौड़ा किया । उसके पीछे खाई खोदी और खाईके पीछे अपनी सेना रखी । साथ ही मीर जाफरको देशी सिपाहियों और अपने थोड़ेसे तिलगोंके साथ अपने पीछे रक्षित सेनाके रूपमें रख छोडा ।

इधर वजीरने भी लडनेका बन्दोबस्त आरम्भ किया । राजा बेनीबहादुर और राजा बलवन्तसिंह वजीरकी खाई ओर स्थानापन्न हुए । इसी कतारमें इनायतखाँके अधीन तीन हजार रुठिले भी खडे किये गये । इनसे बिलकुल मिले हुए पाँच हजार नागे भी लडाईके लिए तैयार होकर डट गये । इनके पीछे कुछ दूरीपर समरु मीर कासिमके

तिलगोंकी पाँच पलटनें लिये तैयार थे । इनके साथ पाँच अच्छी तोपें थीं । इनके पीछे, मीर जाफरके बिलाकुल आमने सामने, बेनीबहादुरकी दार्द और छ, या सात हजार घुड़-सवार सेनाको लिये हुए मीर कासिम खड़े थे ।

शुजाउद्दौला आगे बढ़े और खुले मैदानमें अपनी सेना लिये हुए बहादुरीके साथ आ डटे । इधर अंगरेज अग्नि-वर्षा कर रहे थे । कुछ गोले समरूकी सेनापर गिरे परन्तु बहुतसे खाली ही चले गये । समरू और मीर कासिम दोनों तो बचकर इतनी दूरीपर खड़े थे कि इनपर किये गये धारोंका खाली जाना अनिवार्य था । कुछ ही देरमें शुजाउद्दौलाके पाससे एक दूत मीर कासिमके यहाँ आया और वजीरका सन्देश सुनाया कि “तुम पीछे खड़े क्या देख रहे हो ? जिस प्रकार मैं आगे बढ़ रहा हूँ तुम भी बढ़ो और शत्रुको अपनी ओर उलभावो । यदि तुम स्वयं बढ़ना नहीं चाहते तो समरूको सेनाके साथ भेजो ।” मीर कासिमने कुछ ठीक उत्तर नहीं दिया । न वह स्वयं आगे बढ़े और न समरूको कुछ आज्ञा दी ।


इस समय तक धारह वज चुके थे । अब नागे लडने-को आगे बढ़े । परन्तु इनके किये कुछ न हो सका । इनके बहुतसे आदमी मार डाले गये । जो बचे वे जल्दी से भाग खड़े हुए । यह देख शुजाकी सेना पुन इकट्ठी हुई । इनायत खाँ भी रुहिलोंको लिये हुए आगे बढ़े । परन्तु इनकी भी वही अवस्था हुई जो उक्त सन्यासियोंकी हुई थी ।

दिनके तीन बज गये । वजीर शुजाउद्दौलाने तीसरी बार फिर जोर लगानेकी ठानी । अपनी सेना उन्होंने

फिर इकट्ठी की । इस तीसरे प्रयत्नका प्रभाव अँगरेजों-पर भी पड़े बिना न रह सका । उनके दरमियान कुछ गड़बड़ी सी दीख पड़ी । उनके कई बाजा बजानेवाले शत्रु द्वारा पकड़ लिये गये । परन्तु यह अवस्था कुछ ही देर तक रही । तुरन्त उन्होंने अपनी कतार ठीक कर ली और जोरोंके साथ अग्निवर्षा आरम्भ कर दी । वजीरकी सेना टिक न सकी, उसे पीछे हटना पडा । इतने समय तक बलवन्तसिंह और घेनीबहादुर अपने स्थान-पर ही खड़े रहे, आगे न बढ़े । अन्त विजय अँगरेजोंकी ही रही । वजीरने एक दूत द्वारा मीर फ़ासिमको उनकी सुस्तीके लिए बहुत बुरा-भला सुनाया और कहा कि अब मीर फ़ासिमको पडावको लौट चलना चाहिए । मीर फ़ासिमने तदनुसार समरुको भी लौटनेकी आह्वान भेजी । वजीर पहले ही लौट चुके थे । कुछ दिनों तक ये लोग और पडाव डाले रहे । परन्तु अजीमावादका यह युद्ध यहाँ समाप्त होगया । इधर वर्षा समाप्त हो रही थी, अतः इन्हें अब अधिक दिनों तक ठहरनेका भी साहस नहीं हुआ । इन्होंने अपना डेराडण्डा उठा कर बक्सरको ओर लौटनेका निश्चय किया ।

अजीमावादमें मीर फ़ासिमकी हार क्यों हुई ? पाठक-गण विचारपूर्वक देखें तो मालूम हो जायगा कि इसका मुख्य कारण सघटन ( डिस्सिप्लिन ) की कमी थी । यद्यपि अँगरेजोंकी अपेक्षा इनकी ओर बहुत बड़ी सख्ता थी, यदि चाहते तो अँगरेजों जैसी कई सेनाएँ हरा सकते थे, परन्तु इनमें ढीलापन था, निरत्साह था, सघटनका अभाव था । इसीलिए यह कुछ भी न कर सके । बल

बन्तसिंह, बेनीबहादुर आदि अफसर तिम्र तरह लडाईमें उदासीन रहनेके दोषी ठहराये जा सकते हैं, उसी तरह मीर कासिमपर भी यही दोष आरोपित किया जा सकता है । परन्तु हम मीर कासिमकी इस ढिलाईको उत्साहकी कमी या उदासीनता नहीं कह सकते और न इसे काय रता ही कह सकते हैं । इनको तो सूवेदारी प्राप्त करनेकी महत्वाकांक्षा थी । मला निघत्साह होकर यह उस महत्वाकांक्षा तक कैसे फटक सकते थे ? बात यह थी कि मीर कासिम चतुर राजनीतिज्ञ थे, अच्छे शासक थे, परन्तु अच्छे सिपाही न थे । घुरन्धर राजनीतिज्ञके समस्त गुण इनमें वर्तमान थे परन्तु एक लडाके सिपाहोंके गुणोंसे यह खाली थे, यही इनकी ढिलाईका कारण था ।



## ४०—मीर कासिमकी गिरफ्तारी ।

जोमाबादकी लडाईने सर्वदाके लिए नवाब मीर कासिमके भाग्यका निर्णय कर दिया । सूवेदारी प्राप्त करनेकी उनकी रही सही आशा धूलमें मिल गयी । जब बजीर शुजा उद्दौलाकी सेना बनारससे गङ्गा पार कर रही थी उसी समय मीर कासिमके साथ यह तै हुआ कि जबतक यह युद्ध जारी रहेगा तबतक वह शुजाउद्दौलाको फौजके उर्चके लिए ग्यारह लाख रुपये दिया करेंगे । जब अर्जाबादका घेरा पडा हुआ था, तब मीर



कासिमके पास बहुत थोडा ड्रव्य रह गया था । अब उनमें शुजाउद्दौलाको पूर्ववत रुपया देनेकी सामर्थ्य नहीं थी । उन्हें अब यही चिन्ता लगी कि वजीर शुजाके चगुल से किस प्रकार निकलें । बहुत सोच-विचारकर उन्होंने एक युक्ति निकाली । अपने विश्वासपात्र मित्र अली इब्राहम खॉके द्वारा उन्होंने वजीरसे कहला पढाया कि “मुझे मुर्शिदाबाद और बगालकी तरफ भेजिये । अंगरेजों द्वारा नियत कलकूरीको मैं तग करूँगा । उनकी धाक इस प्रान्त में स्थापित न होने दूँगा । अंगरेजोंके पास सेना बहुत कम है । रक्षाका उचित प्रबन्ध उनके पास नहीं है, अतः सफलताकी मुझे बड़ी आशा है ।” मीर कासिमने अपने बचावके लिए उपाय तो अच्छा सोचा था, परन्तु शुजाउद्दौला उनके चकमेमें नहीं आये । मीर कासिमकी चालाकी वह समझ गये । वह मीर कासिमको अलग करनेको तैयार नहीं थे । उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बङ्गाल में अंगरेजी सत्ता घटानेके लिए और कोई आदमी भेजा जायेगा । मीर कासिमको यहाँ ही रहना पडेगा ।

जब बुरे दिन आते हैं तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, सच्चे हितैषी भी मुँह मोड़ लेते हैं । यही बात नवाब मीर कासिमके साथ भी इस समय घटित हो रही-थी । जब खजाना बहुत कुछ खाली हो गया और भाग्यने पलटा घाया तब उनके बडेसे छोटे तक तमाम नौकर उनसे विमुख हो गये । उन्होंने अपनी उच्छृङ्खलता दिखानी शुरू कर दी । जो जिसने पाया लूटना पसोटना आरम्भ कर दिया ।

मीर सुलेमान नवाब मीर कासिमका खजानची था । उसने अपने मालिकके विरुद्ध ही साजिश करना शुरू कर

दिया । वह वजीरके प्रधान प्रधान अफसरोंसे मित्रता स्थापित करने लगा । राजानेके बहुतसे अमृत्य पदार्थ उसने हडप लिये । धीरे धीरे मीर कासिमको भी इसका पता लग गया । उन्होंने अपने मित्रोंसे मीर सुलेमानकी बेईमानीका जिक्र किया । मीर सुलेमानने देखा कि अब मेरे सरपर कुछ आफत आयगी । यदि रुपयेका हिसाब माँगा गया तो और भी कठिन हो जायगा । अतएव उसने मीर कासिमके पडावको छोड़ दिया और शुजाउद्दौलाकी तरफ जाकर मिल गया ।

उक्त घटनाके छ' सप्ताह बाद वजीर शुजाउद्दौलाने पुन मीर कासिमसे रुपयेकी माँग पेग की । इन्होंने अपनी असमर्थता दिखलायी और साथही साथ वजीरके व्यवहारपर असन्तोष प्रगट किया । वजीरको मीर कासिमके विरुद्ध अब एक बहाना मिल गया । वह ऐसा अवसर ढूँढ़ ही रहे थे कि कोई हीला करके वह उन प्रतिज्ञाओंको तोड़ सकें जो उन्होंने मीर कासिमसे की थीं । अन्तमें उन्होंने एक पत्र इनके पास भेजा । उसमें लिखा था कि बादशाह शाह आत्म चाहते हैं कि बगालकी मालगुजारीकी जो रकम उन्हें मिलनी चाहिये वह मीर कासिम शीघ्र दे दें । जब नराय मीर कासिमने यह सन्देश सुना तो उनके होश उड़ गये । उन्होंने तुरन्त अली इब्राहिम जॉको शुजाउद्दौलाके पास भेजा । अली इब्राहिमने अपने मालिककी ओरसे वजीरसे बहुत कुछ अनुनय-विनय की, परन्तु फल कुछ भी न निकला । निराश होकर उन्हें लौट आना पडा । अब मीर कासिमके सामने चारों ओर अन्धेरा ही देख पडने लगा । वह निराशाके समुद्रमें गोते लगाने लगे ।

अली इब्राहिमसे उन्होंने पूछा कि अब क्या करें । इब्राहिमने जवाब दिया "आपके लिए मुझे एक ही उपाय देख पड़ता है । आप अपना पडाव छोड़कर बाहर बैठ जाइए और शुजाके पास यह कहला पठाइए कि मैं आपके यहाँ अपनी रक्षाके लिए आया था और उसीकी आशा मुझे अभीतक है । उनसे कह दीजिए कि मेरा सब कुछ इस समय आपके हाथमें है ।" इस रायमें कुछ लोगोंने और भी नमकमिर्च मिला दिया । उन्होंने कहा कि आप फकीर हो जायें । मीर कासिमने उनकी सलाह भी मान ली । इन्होंने केवल अपना तख्त ही नहीं छोड़ दिया, घरन नवाबी पोशाक भी त्याग दी और मामूली गेरुवा वस्त्र धारण कर बाहर एक चटाईपर बैठ गये । लगभग बीस आदमियोंने वैसाही किया । गेरुवा वस्त्र पहन कर उन लोगोंने भी इनका साथ दिया ।

कौन ऐसा क्रूरहृदय होगा जो बगालके पूर्व पराक्रमी और प्रतापी नवाबकी इस वर्तमान दीन अवस्थापर दो आँसू न बहायगा । परन्तु प्रभुकी लीला अद्भुत है । उसके लिए कोई बात असंभव नहीं । उसकी इच्छासे महा रक भी क्षणभरमें धनी हो सकता है, कुवेरका भंडार भी क्षणभरमें खाली हो सकता है । जब भाग्यने ही पलटा खाया, जब समय ही विपरीत हो गया, तब विचारे मीर कासिमके किये क्या हो सकता था ? यदि उन्हें सफलता प्राप्त न हो सकी तो इसमें उनका क्या दोष ?

वजीर शुजाउद्दौलाने जब सुना कि मीर कासिमने गेरुवा वस्त्र धारण कर लिया है और वह फकीर हो गये हैं तो उनको बड़ी चिन्ता हुई । वह भयभीत हो उठे ।

वह सोचने लगे कि मीर कासिमकी फकीरीसे हमारे नाम पर क्या लगेगा । कयामतके दिन ईश्वरके सम्मुख हम मुँह न दिखा सकेंगे । उन्होंने अपने एक अफसर अली बेग खॉको मीर कासिमके पास उन्हें सान्त्वना देनेकी गरजसे भेजा और उनसे अपने कुव्यवहारके लिए क्षमा प्रार्थना की । अली बेगने अपना कर्तव्य भली भाँति निवाहा । मीर कासिमपर इसका अच्छा प्रभाव पडा । उन्होंने अली इत्राहमको घजीरके पास भेजा । जब यह शुजासे मिले तो उन्होंने कहा कि "यदि मीर कासिम फकीरी बख्र धारण किये रहेंगे तो इससे हमारा मुँह काला होगा । हम ईश्वर के सामने मुँह दिवाने योग्य न रहेंगे ।" इत्राहमने जवाब दिया "मीर कासिमका इसमें दोष ही क्या है ? उन्होंने निराश होकर सत्कारको त्याग दिया है । इस अवस्थामें जो कुछ किया जा सकता था वही उन्होंने किया है । अब आप जो कुछ अपना कर्तव्य समझें सो करें ।" बर्जा स्वयं मीर कासिमके पास जानेको तत्पर हो गये । वहाँ जाकर बडी नम्रताके साथ उन्होंने अपने पिछले कुव्यवहारके लिए क्षमायाचना की और मीर कासिमसे प्रार्थना की कि आप पुन अपना लबास पहन लें, गेहवा बख्र त्याग दें । मीर कासिमने शुजाकी बात मान ली । गेहवा बख्र त्याग कर फिर अपने कार्यकी देख रेख करने लगे ।

इस घटनाके तीन दिन बाद समरूने मीर कासिमके निवास स्थानको घेर लिया और अपनी पिछली तनखाहका बकाया माँगा । उन्होंने किसी तरह समरूका हिसाब चुकता किया । फिर उन्होंने उसे आशा दी कि तमाम गोला बारूद इत्यादि जमा कर दो । हम इतनी सेना

रचना नहीं चाहते । नमकहराम समरुने उत्तर दिया कि ये सब चीजें अब उसके अधीन रहेंगी जिसके कब्जेमें पहले से ही है । समरुने पहलेसे ही वजीरकी सेनामें नौकरी कर ली थी । उक्त बात मीर कासिमसे कह कर वह वजीरकी सेनामें मिल गया । इसी दिन सन्ध्याको अली इब्राहम को खबर लगी कि मीर कासिम दूसरे दिन कैद कर लिये जायँगे । ऐसा ही हुआ भी । दूसरे दिन नौ बजे दिनको मीर कासिमके खेमे घिर गये । चारों ओर पहरा बैठा दिया गया । मीर कासिम गिरफ्तार कर लिये गये । वह हाथीपर बैठा कर वहाँसे लाये गये और वजीरके पडावमें कैद रहे गये । उनका जो कुछ बचा बचाया द्रव्य तथा सामान इत्यादि था वह सब वजीरने अपने कब्जेमें कर लिया ।

आज मीर कासिमके तमाम मनसुबोंका लोप हो गया । उदवानालाके युद्धमें हराये जाने पर भी उन्हें अभीतक यह विश्वास बना हुआ था कि हम अपना लुप्त गौरव पुनः प्राप्त कर सकेंगे । उन्होंने समझा था कि वजीर शुजा उद्दौलाकी सहायतासे हमें फिर वगालकी सूत्रेदारी मिल जायगी । किन्तु आज उन्होंने स्पष्ट देख लिया कि उनके लिए आशाका एक कण भी शेष नहीं रहा । वह ऐसे समुद्रमें गोते लगा रहे थे जहाँसे निकलनेके लिए एक तिनकेका भी सहारा नहीं रह गया था । वगाल, विहार और उड़ीसाका स्वामी आज अपने ही राज्यमें कैदी बना हुआ है । भाग्यका उलट फेर इसे ही कहते हैं !



## ४१—देशी सिपाहियोंका विद्रोह ।



स समय वजीर शुजाउद्दोला अंगरेजोंके साथ युद्धकी तैयारी कर रहे थे उस समय इन लोगोंकी अवस्था बहुत खराब थी । देशी सिपाहियोंमें असन्तोषकी अग्नि सुलग रही थी । मीर जाफरने उन्हें पुरस्कार आदि देनेके

जो कुछ वादे किये थे वे पूरे नहीं किये गये । इसी कारण सेना असन्तुष्ट थी । उधर शत्रुके एजेंट भा इन लोगोंको भडका रहे थे और इन्हें प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाने का यत्न कर रहे थे । बहुतसे सिपाही इनकी बातोंमें आ भी गये और शत्रुको ओर मिलनेको तैयार हो गये । मेजर चारनाक इस समय सेनापति थे । विद्रोहको शान्त करनेकी योग्यता इनमें नहीं थी । यह किंकर्तव्यविमूढ हो गये । इसी समय बक्सरपर वजीरका आक्रमण हुआ । चारनाक जानते थे कि इस अवस्थामें लड़ना हानिकारक है, अत एव वह अजीमवादकी ओर सेनाके साथ चल पडे ।

११ अप्राह (२५ जून) को कोर्ट आफ डायरेक्टर्सके आज्ञानुसार मेजर चारनाकको कम्पनीकी नोकरीसे हटना पडा । मेजर मुनरो बगाल सेनाके सेनापति नियुक्त किये गये । मेजर चारनाक और मीर जाफरसे मिलकर यह फिर सेनामें सम्मिलित हो गये । मुनरो चारनाकके ढगके आदमी नहीं थे । इनकी प्रकृति दूसरीही तरहकी थी । यह बहा दुर और कार्यपरायण सेनापति थे । इनमें उत्साह था, आत्मविश्वास था । यह विद्रोहको शान्त करनेपर तुलने

हुए थे । जब यह पहुँचे तो इन्होंने देशी सिपाहियोंमें विद्रोहके चिह्न पाये । जो अग्नि धीरे धीरे सुलग रही थी वह भभक उठी थी । कप्तान गैलियरकी अधीनस्थ एक देशी पलटन मॉस्कीमें बागी हो गया । उसने अपने अफसरोंको गिरफ्तार कर लिया और शत्रुदलमें मिल जानेकी इच्छा प्रगट की । कप्तान त्रिवानियनके अधीन एक सेना विद्रोहियोंको दवानेके लिए भेजी गयी । जब ये लोग निद्रा वस्थामें थे तब सबके सब एक साथ पकड़ लिये गये । ये लोग छुपरा लाये गये जहाँपर मेजर मुनरो पहलेसे ही इन लोगोंकी इन्तजारी कर रहे थे । जिस समय उनके आनेकी इन्हें आशा थी, उस समय वहाँकी देशी और यूरोपियन सेनाको कवायदके मैदानमें इन्होंने खडा करवाया ।

यथासमय विद्रोही कैदी मेजर मुनरोके सामने लाये गये । मेजर खूनके ग्यासे नहीं थे । परन्तु विद्रोहको शान्त करनेके लिए इन्हें यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि कुछ कडाईसे काम लिया जाय । मुनरोके आज्ञानुसार विद्रोहियोंमें पचास मुखिया चुने गये । बादमें उनकी सख्या चौबीस कर दी गयी । देशी अफसरोंके कोर्ट मार्शल ( फौजी अदालत ) के सामने ये पेश किये गये । ये लोग दोषी ठहराये गये । यह आज्ञा हुई कि जिस प्रकार मुनरो चाहें इन्हें मृत्युदण्ड दे सकते हैं । चारको उन्होंने यह हुक्म दिया कि वे तोपके मुहँपर उडा दिये जायें । वे लोग तोपके मुहँपर बाँधे गये । इसी समय चार और आदमी आगे बढ़ कर आये और कहने लगे कि चूँकि हम लोग सबसे अधिक अगुआ रहे हैं अतएव

पहले हम लोग दागे जायें । उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई । क्षण भरमें ये लोग मृत्युके शिकार होगये । इस भयानक दण्डको अन्य देशी सिपाही भी जो विद्रोही न थे सहन न कर सके । उन्होंने अपने अंगरेजी अफसरों द्वारा मुनरोको सूचित किया कि हम लोग अब इस भयानक दृश्यको नहीं देखना चाहते । परन्तु मुनरो इन घुड़कियोंसे डरनेवाले न थे । वह जानते थे कि ऐसे अब सरोंपर किस तरह काम किया जाता है । उन्होंने थोड़े थोड़े सिपाहियोंके बीचमें कुछ अंगरेजी सिपाहियोंको पडा कर दिया और आशा दी कि ये लोग हथियार पृथ्वीपर रख दें । उन्होंने यह भी धमकी दी कि यदि आज्ञा पालनमें तनिक भी कमी की गयी तो उनपर अग्निचपाँ आरम्भ कर दी जायगी । डर कर उन लोगोंने तत्काल हथियार जमीनपर रख दिये । सोलह सिपाही और तोपके मुँहपर उडा दिये गये । चौबीसमेंसे चार और बच रहे । ये लोग किसी अन्य छावनीमें भेजे गये । वहाँपर भी विद्रोहकी आशङ्का थी । अतएव वहाँके सिपाहियोंको डरानेके अभिप्रायसे वहाँपर उनको मृत्युदण्ड दिया गया ।

इस प्रकार मुनरोने साहसपूर्वक सिपाहियोंके विद्रोहको कुचल डाला और पूर्ण रूपसे सेनामें शान्तिकी स्थापना की । अब वे शुजासे लडनेके लिए तैयारीमें लग गये ।



सेना थी । इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी । पर अपनी बहुसंख्यक सेनापर विश्वास कर इन्होंने स्वयं हमला करनेका निश्चय किया । मुनरोकी इच्छा थी रातके समय अचानक शत्रुदलपर आक्रमण किया जा परन्तु जब शत्रुने स्वयं आक्रमण कर दिया तो उनके भी सिवा मैदानमें लड़नेके और कोई उपाय न देख पडा एक तरफ शुजाउद्दौलाकी सेना लड़नेके लिए प्रस्तुत हु वेनीबहादुर गङ्गाके किनारे खडे हुए । उनके बगलमें स और मारकर तिलहोंकी आठ पलटनें लिए तैयार थे । लोगोंके पीछे शुजाकुलीखॉ ६ या ७ हजार पैदल घुडसवार सेना लिए तैयार खडे थे । स्वयं शुजाउद्दौ मियों शुजाकुलीखॉकी दाहनी ओर सेना लेकर खडे होगे

युद्ध आरम्भ हुआ । दोनों ओरसे अग्निवर्षा शुरू हु दोनों दलोंके बहुतसे आदमी मारे गये । आरम्भमें ऐसा मालूम पडा कि विजय शुजाउद्दौलाकी ही होग शुजाने थोडेसे चुने हुए सिपाहियोंको लेकर मुनरो घुडसवार सेनापर आक्रमण कर दिया । उन लोगों पीछे हटना पडा । अंगरेजी सेनामें गडबडी भव गय इसी समय मेजर मुनरोको एक युक्ति सूझ गयी । थोडी अंगरेजी सेना बहुत दूरीपर, शत्रुकी पहुँचके बाहर, ख थी । इस पलटनमें बहादुर सिपाही और कई यो सेना संचालक थे । मुनरोने हुफम दिया कि गङ्गाकी बढ कर वे लोग वेनीबहादुरपर हमला करें । वे अचा वेनीबहादुरको सेनापर टूट पडे । वेनीबहादुरकी से युद्धमें अधिक देरतक नहीं ठहर सकी । बहुतसे आद मारे गये और बहुतेरे डरकर भाग गये । फिर

वेनीबहादुर कुछ देर तक डटे रहे । परन्तु अन्तमें जब अपनेको लड़नेमें अशक्य पाया तो मैदान छोड़कर वह भी भाग खड़े हुए । वेनीबहादुरको पीछे हटा कर अंगरेजों सेनाने खाई पार की ओर शुजाके पडावमें घुस पड़ी । वहाँपर वजीरके बहुतसे सिपाही थे । परन्तु अंगरेजों सेनाको अचानक आते देखकर ठहरनेकी किसीकी हिम्मत न पड़ी । सब अपना अपना सामान जहाँका तहाँ छोड़ कर भाग खड़े हुए । वजीरकी सेनामें गडबडी मच गयी । मुगल सिपाहियोंने इस गडबडीसे खूब लाभ उठाया । अपने ही आदमियोंको उन्होंने जहाँ पाया लटना पसोटना आरम्भ कर दिया । जिधर जिसने अक्सर देखा भाग खड़ा हुआ । वजीर भी न टिक सके । उन्होंने भी भागनेवालोंका साथ दिया । तीन घंटे तक युद्ध जारी रहा । अन्तमें विजय अंगरेजोंकी रही । इस लड़ाईमें वजीरके चार हजार आदमी मारे गये और १३० तोपें अंगरेजोंके हाथ लगीं । अंगरेजों सेनाके ८४७ आदमी मरे ।

बक्सरके युद्धके पश्चात् बादशाह शाह आलम एकदम पस्त हो गये । इनकी शक्ति तो पहले ही व्यस्त हो चुकी थी । शुजाउद्दौलासे थोड़ी बहुत आशा अशक्य थी । परन्तु बक्सरकी लड़ाईमें वह भी हार गये । अब इन्होंने अंगरेजोंसे सन्धि करना ही उचित समझा । गङ्गाके दूसरे किनारे यह बैठे थे । इन्होंने अंगरेजोंको बुलाया । अंगरेज तो यह चाहते ही थे । वह तो पहलेसे ही इस यत्नमें थे कि शाह आलमको अपने हाथमें कर । भला इस बक्सरको वे कैसे हाथसे जाने दे सकते थे ? तुरन्त नदी पार कर आ पहुँचे । तबसे शाह आलम बराबर अंगरेजों

सेना थी । इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी । परन्तु अपनी बहुसंख्यक सेनापर विश्वास कर इन्होंने स्वयं ही हमला करनेका निश्चय किया । मुनरोकी इच्छा थी कि रातके समय अचानक शत्रुदलपर आक्रमण किया जाय । परन्तु जब शत्रुने स्वयं आक्रमण कर दिया तो उनके लिए भी सिवा मैदानमें लड़नेके और कोई उपाय न देख पडा । एक तरफ शुजाउद्दौलाकी सेना लड़नेके लिए प्रस्तुत हुई । वेनीबहादुर गङ्गाके किनारे खडे हुए । उनके वगलमें समरु और मारकर तिलङ्गोंकी आठ पलटनें लिए तैयार थे । इन लोगोंके पीछे शुजाकुलीखॉ ६ या ७ हजार पैदल और घुडसवार सेना लिए तैयार खडे थे । स्वयं शुजाउद्दौला मियाँ शुजाकुलीखॉकी दाहनी ओर सेना लेकर खडे होगये ।

युद्ध आरम्भ हुआ । दोनों ओरसे अश्रिवर्षा शुरू हुई । दोनों दलोंके बहुतसे आदमी मारे गये । आरम्भमें तो ऐसा मालूम पडा कि विजय शुजाउद्दौलाकी ही होगी । शुजाने थोडेसे धुने हुए सिपाहियोंको लेकर मुनरोकी घुडसवार सेनापर आक्रमण कर दिया । उन लोगोंको पीछे हटना पडा । अंगरेजी सेनामें गडबडी मच गयी । इसी समय मेजर मुनरोको एक युक्ति सूझ गयी । थोडीसी अंगरेजी सेना बहुत दूरीपर, शत्रुकी पहुँचके बाहर, खडी थी । इस पलटनमें बहादुर सिपाही और कई योग्य सेनासचालक थे । मुनरोने हुक्म दिया कि गङ्गाकी ओर बढ़ कर वे लोग वेनीबहादुरपर हमला करें । वे अचानक वेनीबहादुरकी सेनापर दृष्ट पडे । वेनीबहादुरकी सेना युद्धमें अधिक देरतक नहीं ठहर सकी । बहुतसे आदमी मारे गये और बहुतेरे डरकर भाग गये । फिर भी

वेनीबहादुर कुछ देर तक डटे रहे । परन्तु अन्तमें जब अपनेको लड़नेमें अशक्य पाया तो मैदान छोड़कर वह भी भाग खड़े हुए । वेनीबहादुरको पीछे हटा कर अंगरेजी सेनाने खाई पार की ओर शुजाके पड़ावमें घुस पड़ी । वहाँपर वजीरके बहुतसे सिपाही थे । परन्तु अंगरेजी सेनाको अचानक आते देखकर ठहरनेकी किसीकी हिम्मत न पड़ी । सब अपना अपना सामान जहाँका तहाँ छोड़ कर भाग खड़े हुए । वजीरकी सेनामें गड़बड़ी मच गयी । मुगल सिपाहियोंने इस गड़बड़ीसे खूब लाभ उठाया । अपने ही आदमियोंको उन्होंने जहाँ पाया लूटना खसोटना आरम्भ कर दिया । जिधर जिसने अवसर देखा भाग बड़ा हुआ । वजीर भी न टिक सके । उन्होंने भी भागनेगालोंका साथ दिया । तीन घंटे तक युद्ध जारी रहा । अन्तमें विजय अंगरेजोंकी रही । इस लड़ाईमें वजीरके चार हजार आदमी मारे गये और १३० तोपें अंगरेजोंके हाथ लगीं । अंगरेजी सेनाके २४७ आदमी मरे ।

बक्सरके युद्धके पश्चात् बादशाह शाह आलम एकदम पस्त हो गये । इनकी शक्ति तो पहले ही ध्वस्त हो चुकी थी । शुजाउद्दौलासे थोड़ी बहुत आशा अवश्य थी । परन्तु बक्सरकी लड़ाईमें वह भी हार गये । अब इन्होंने अंगरेजोंसे सन्धि करना ही उचित समझा । गद्दाके दूसरे किनारे यह बैठे थे । इन्होंने अंगरेजोंको बुलाया । अंगरेज तो यह चाहते ही थे । वह तो पहलेसे ही इस यत्नमें थे कि शाह आलमको अपने हाथमें कर । भला इस अवसरको वे कैसे हाथसे जाने दे सकते थे ? तुरन्त नदी पार कर आ पहुँचे । तबसे शाह आलम बराबर अंगरेजों

के साथ रहे । वादको, जैसा कि हम आगे देखेंगे, शाह आलमके साथ अँगरेजोंका सन्धि हुई । इलाहाबाद इनके रहनेके लिए दिया गया और बहालकी दीवानी अँगरेजोंको प्राप्त हुई ।



### ४३—मीर कासिमके अन्तिम दिन ।

स भाद्र सवत् १८२१ (१५ सितम्बर १७६४) को बक्सरकी लड़ाई हुई । इस युद्धके एक दिन पहले बजीर शुजाउद्दौलाने मीर कासिमको मुक्त कर दिया । इन्हें एक लँगडी हथिनी दी गयी जिसपर चढ़कर यह भाग निकले । अभी मीर कासिमके भाग्यमें घुरे दिन दराना और भी बदा था । तभी तो सर्वशक्तिमान्ने अन्तिम बार शत्रुके हृदयमें भी दयाका भाव जागृत किया जिससे उसने अपने असहाय कैदी मीर कासिमको उदारतापूर्वक रिहा कर दिया ।

बक्सरकी लड़ाईका फल क्या हुआ, यह हम देख ही चुके । इस युद्धने बगालमें अँगरेजोंकी सत्ता सुदृढ नीवपर स्थापित कर दी । बजीर शुजाउद्दौलाकी गहरी हार हुई । जब सन्धिकी बात चली तो अँगरेजोंने सबसे पहले यह माँग पेश की कि मीर कासिम और समस्त उनके सिपुर्द किये जायँ । जब मीर कासिमको सन्धिकी ये बातें मालूम हुईं तो उन्होंने अपनी चाल और तेज की । जल्दी जल्दी वह इलाहाबादकी ओर भागे । वहाँसे अपने परिवारको लेकर बरैलीकी ओर चल पडे । बहुत दिनों तक

रहिलोंकी शरणमें रहे । कहा जाता है कि नजीफ उद्दौला ( जिसका वर्णन पहले उदवाके युद्धमें आ चुका है ) इनके पालन पोषणके लिए पेन्शन देता रहा ।

ऐसा पता लगता है कि सन् १७२३ ( १७६६ ई० ) में मीर कासिमने अहमद शाह अब्दालीसे सहायतार्थ प्रार्थना की । ✽ अहमदशाहने तदनुसार अटक पार भी किया और लाहोरसे १२० मीलकी दूरीपर आगया । परन्तु इस समय भारतवर्षकी अवस्था वह नहीं रही थी जो पानीपत की लड़ाईके समय थी । उस समय तमाम मुसलमान सरदार अब्दालीकी ओर थे । इस वार सबसे बड़ा मुसलमान सरदार शुजा अंगरेजोंका मित्र बना हुआ था । सिक्ख अब्दालीके विरुद्ध थे ही । अतएव उसके लिए यह सम्भव नहीं जान पडा कि अंगरेज, शुजा और सिक्ख तीनोंसे एक साथ मिल कर लडे । अतः उसने मीर कासिमसे अपनी असमर्थता प्रगट की और अपने देशको छोड गया ।

---

\*The fugitive Nawab Mir Kassim in 1766 invited Ahmad Shah Abdali to come and help him. On the second February 1767 the governor received a letter from Mir Raza Khan informing him that Ahmad Shah had crossed the Attock and was 120 miles from Lahore. But a great change had taken place in the political situation in India. In 1759 all the Muhammedan chiefs of Hindustan were on one side. Now the most powerful of them all Nawab Shujaudaulah stood aloof and was actually leagued with the very power whom he might have engaged in battle. The Shah was not prepared to meet a confederacy of the English, the Sikhs and the Vezir. He therefore gave a curt reply to Mir Kassim and returned to his country.

Introduction to third vol, of the Calender of Persian correspondence

इसके बाद दस वर्षतक मीर कासिमका कुछ भी पता नहीं चलता । सन् १८३४ (सन् १७७७) में दिल्लीकी एक भोपडीमें एक आदमी मरा पाया गया । इसके शरीरपर केवल एक दोशाला था । उसीको वेच कर इसके लिए कफन आदि जुटाया गया । जब इसका शव गाडा जा रहा था तब एक व्यक्तिने धीरेसे कहा “यह तो मीर कासिम है” । इस प्रकार नवाब मीर कासिमकी मृत्यु हुई । इस समय इनकी मृत्युपर शोक प्रगट करनेवाला, दो आँसू बहानेवाला भी कोई न रहा । प्रभुकी लीला बड़ी विचित्र है !



### ४४—शुजाउद्दौलाका भाग्यनिर्णय ।

वसरकी लडाईने वजीर शुजाउद्दौलाकी शक्ति पूर्णत ध्वस्त कर दी । अब उनमें इतनी सामर्थ्य न रही कि अंगरेजोंके विरुद्ध मैदानमें डट सकें । उन्होंने अब किसी दूसरे राज्यमें शरण लेना ही उचित समझा । तदनुसार उन्होंने अपने कुछ विश्वासपात्र आदमियोंको फैजावाद और लखनऊको बिदा किया । उन्हें यह आज्ञा थी कि ये वजीरके परिवार और धनादिको लेकर रुहिला सरदार हाफिज रहमत खॉके राज्यको चले जायें और बरैलीमें रहें । वह सत्रय इलाहाबाद गये, किलेका भार अलीबेग खॉको सौंपा, और अपनी माता तथा स्त्रीको लिये हुए बरैली पहुँचे । इसी समय वेनीबहादुर भी आ पहुँचे ।

उन्होंने शुजाउद्दौलाको अंगरेजोंके साथ सन्धि करनेकी राय दी । परन्तु शुजाने इससे साफ साफ इनकार किया । वह सन्धिके लिए तैयार नहीं थे । वह पेना करना स्वामिमानके विरुद्ध समझते थे । अभी युद्ध करनेका हौसला उनमें बाकी था । उन्हें शेरकी सहायता पानेकी आशा अभी बनी हुई थी । उन्होंने समझा था कि अफगानों शेर मराठा सरदार महाररात्र होलकरकी सहायता से हम अंगरेजोंके विरुद्ध अपने भाग्यकी परीक्षा कर सकेंगे । उन्होंने बेनीवहादुरको अंगरेजोंके पास भेजा कि उन्हें बातचीतमें उलझाये रहें ।

शुजाउद्दौलाके लिए अफगानोंसे मददकी आशा करना फूल था । विश्वास तो सभीने दिलाया कि हम लटार्ड में आपको सहायता देंगे, लेकिन समयपर कोई काम न आया । कुछ न कुछ बहाना कर सब तटस्थ रहे । वजीर के आदमियोंने मराठा सरदार महाररात्रको रुपयेका बहुत लालच दिखलाया । वह वजीरकी ओर होकर लडनेको तैयार होगये । अपनी सेना लेकर वह आ भी पहुँचे ।

अंगरेजोंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है । अतएव उन्होंने भी तैयारी आरम्भ कर दी । बनारसके राजा बलवन्त सिंहको उन लोगोंने अपनी ओर मिला लिया था । बलवन्त सिंहको सलाहसे उन लोगोंने चुनारगढ़ लेनेका निश्चय किया । एक बड़ी सेना चुनारगढ़पर चढ़ाई करनेके लिए भेजी गयी । परन्तु वहाँ लेनेके देने पड गये । किलेके सिपाहियोंने बहादुरीके साथ किलेको रक्षा की । कई अंगरेज अफसर और बहुतसे सिपाही मार डाले गये । अंगरेजोंको घेरा उठाकर लौटना पडा ।



इस समय मिरजा नजीफ खॉ अंगरेजोंसे मिल गये थे । उन्हींकी सहायतासे इलाहाबादके किलेपर अंगरेजों का कब्जा हुआ । उन लोगोंने इलाहाबादके किलेपर आक्रमण किया । नजीफ खॉको एक भागका पता था जिसमें कोई दुर्ग प्राचीर नहीं था । इसी ओरसे अंगरेजों ने अग्निवर्षा आरम्भ कर दी । किलेकी रक्षामें जो सिपाही थे उन्हें उसे अंगरेजोंके सिपुर्द करना पडा ।

इधर जय वजीर और मल्हारराव दोनों मिल गये तब दोनोंने अंगरेजोंपर हमला किया । परन्तु वे लोग बालूपर इमारत खडी कर रहे थे । सेनामें किसीमें यह दिमाग नहीं था कि लडाईके ढगको सोच सके । वजीरके सिपाहियोंमें निराशा भरी हुई थी । वे बम्सरकी लडाईमें हार चुके थे । अब उनमें खडे होनेका दम बाकी न था, पास कर उसी शत्रुके विरुद्ध खडे होनेका जिसके साथ वे एक बार लड चुके थे । कोरामें लडाई हुई । वजीरकी सेनाने तुरन्त ही पीठ दिखा दी । मल्हारराव भी अंगरेजोंकी अग्निवर्षाके सामने न टिक सके । वह जी छोड कर भागे और ग्वालियरमें ही पहुँच कर दम लिया । वजीरकी यह अन्तिम चेष्टा थी । दूसरोंकी सहायताका आसरा कर उन्होंने आखरी बार कोशिश की परन्तु निष्फल रहे । अब उनका रहा सहा हौसला भी जाता रहा ।

इस बार लडाईमें हार कर वह फिरोजाबाद गये । अफगानोंसे शिकायत की कि आप लोगोंने मुझे समयपर धोखा दिया । सबने कुछ न कुछ बहाना बना दिया । अहमद शाह बङ्गशने शुजाउद्दौलाको सलाह दी कि आप अंगरेजोंके साथ सन्धि कर लें । वे बडी खुशीके साथ

आपसे सुलह कर लेंगे । शुजाउद्दौलाको भी यही राय पसन्द आयी । दूसरी बात वह कर ही क्या सकते थे ? उनके हाथमें शत्रु रहा ही क्या था जिसके वृत्तेपर वह क्रुद्ध सकते । चुनारमें एक चार अंगरेजोंको नीचा अवश्य देखना पड़ा था । परन्तु उन्होंने दूसरी बार पुनः आक्रमण कर चुनारगढ़को ले लिया था । शुजाउद्दौला एक पालकीमें सवार होकर थोड़ेसे सिपाहियोंके साथ अंगरेजी सेनाकी ओर चल पड़े । अंगरेजोंने बड़ी नम्रतासे व्यवहार किया । तीन चार रोजतक सन्धिष्ठी बात चलती रही । अन्तमें अंगरेजोंके साथ शुजाउद्दौलाकी सन्धि हो गयी । यह ते हुआ कि "वजीर पचास लाख रुपया लडाईके खर्चका अंगरेजोंको देंगे । उसमेंसे बीस लाख तो अभी देना होगा और शेष भविष्यमें देंगे । इलाहाबादसे अपना अधिकार वजीरको हटा लेना पड़ेगा । वह स्थान शाह आलमके रहनेको दिया जायगा । अंगरेजोंकी एक पलटन बादशाह शाह आलमकी रक्षाके लिए इलाहाबादमें रहेगी । एक अंगरेज रेजीडेण्टके तौरपर शुजाउद्दौलाके दरबार में रहा करेगा । बलवन्त सिंहने अंगरेजोंका साथ दिया था, इसके लिए शुजा उन्हें दण्ड न दे सकेंगे, वरन् क्षमा कर देंगे ।" इस प्रकार वजीर और अंगरेजोंका युद्ध समाप्त हुआ और शान्ति स्थापित हुई ।

अब वजीरको रुपयेकी चिन्ता हुई । इन्होंने अपने मित्रों, कुटुम्बियों तथा नौकरों आदिसे रुपया माँगा । परन्तु सब अपने ही स्वार्थमें मत्त थे । वजीरको यथेष्ट सहायता न मिल सकी । कहते हैं कि वजीर शुजाकी खाने अपने कर्तव्यको भलीभाँति निवाहा । उसके पास

जा कुछ था वह सब उसने दे डाला । अपने शरीरके तमाम गहने भी उतार कर दे दिये । जब किसीने उससे पूछा कि यह मूर्खता क्यों कर रही हो ? तब उसने जवाब दिया कि ये गहने उसी समय शोभा देंगे जब हमारे स्वामी सुखी रहेंगे । वजोरके पास काफी रुपया इकट्ठा नहीं हुआ, फिर भी किसी तरह गहने जवाहगत इत्यादि जो कुछ था उसे देकर प्रथम अदायगीसे अपना पिएड छुड़ाया ।

इसके पश्चात् क्या हुआ, इसकी छानबीन करनेकी आवश्यकता इस पुस्तकमें नहीं है । बक्सरकी लड़ाईके बाद बगालमें तो अंगरेजोंकी सत्ता स्थायी रूपसे जम ही चुकी थी । अवधके दरवारमें भी अब उनका पाँव पड गया । धीरे धीरे वे वहाँके प्रबन्धमें भा हस्तक्षेप करने लगे और बादको डलहौजीके समयमें यह प्रान्त अंगरेजी राज्यमें मिला लिया गया ।

### ४५—नचावोंका अन्त कैसे हुआ ?

लुपित आत्माके लिए सुख सर्वदा स्वप्न है । राज-प्रासादमें भी उसको आनन्द दुर्लभ है । जहाँ भी वह रहता है, शान्ति और सुख उसकी छायासे कोसों दूर भागते हैं । अपने दुष्कर्मोंका फल उसको मिलकर ही रहता है । यह इस मसारका नियम ही है कि जैसा जो बोयेगा वैसा ही काटेगा, जो जैसा करेगा वैसा ही फल चखेगा । मीर

जाफरका भी यही हाल हुआ । अपने मालिक सिराजु-होलाको उन्होंने धोखा दिया, अपने स्वाभिमान, प्रतिष्ठा और धर्मको विदेशियोंके हाथ बँच दिया । बाहरी मान और प्रतिष्ठाके लिए उन्होंने अपने आत्मगौरवको तिलाञ्जलि दे दी । उन्होंने समझा था कि इन दुष्कर्मोंको करके मैं सुखी होऊँगा, ऐश्वर्य्य भोग करूँगा । परन्तु ऐसी आशा वरके मानो वह हवामें इमारतें खड़ी कर रहे थे । एक बार सिराजको धोखा देकर वह नवाब हुए थे । उसका फल उन्होंने कुछ ही दिनोंके भीतर पा लिया । जब सेनाने वेतनके लिए उनके महलोंको घेर लिया था और उनकी जानके लाले पड़ गये थे तभी उन्होंने समझ लिया था कि भोपड़ियोंमें रहने वाला—मेहनत मजदूरी करके खानेवाला मजदूर—मुझसे कहीं अधिक सुखी है । प्रथम बार जब वह गद्दीसे उतारे गये तो उनमें सम्हल जाना चाहिये था । परन्तु उनकी बुद्धि मारी गयी थी । विवेक तो उनमें था ही नहीं । जब मोर कासिमने अंगरेजोंकी लज्जाजनक शर्तोंको न माना और उन्हें गद्दीसे अलग होना पड़ा, तब मोर जाफरने उन्हीं शर्तोंको मान कर नवाब होना स्वीकार कर लिया । एक बार धक्का खाकर भी उन्होंने पुनः अपनेको विदेशियोंके हाथ बँच दिया । परन्तु उनके लिए सुख दुर्लभ था । जिन अंगरेजोंकी कृपासे मोर जाफरको सिंहासन प्राप्त हुआ था उनके हाथोंसे इन्हें और भी कष्ट भोगने पड़े । उन्होंने तो अपना मतलब साधनेके लिए ही इन्हें नवाब बनाया था । जब कार्य सिद्ध हो गया, जब वे अपनी शक्तिके शिखरपर चढ़ गये, तो उन्होंने इन्हें ठुकरा दिया । जिस निदर्यता और बुरे ढंगसे उन्होंने इनसे अपना रूपया

वसूल किया वह इन्हें सहन न हो सका । कुछ ही दिनों बाद अर्थात् फाल्गुन १८२१ ( फरवरी १७६५ ई० ) में इनका देहान्त हो गया ।

मीर जाफरके पश्चात् उनके ज्येष्ठ पुत्र नजीमुद्दौला नवाबके पदपर अभिषिक्त हुए । इनके साथ अंगरेजोंने नयी सन्धि की । इसके अनुसार नायब नाजिमका पद कायम हुआ और इसका भार गवर्नर और कोसिलके आदेशानुसार मुहम्मद रजा खाँको दिया गया । यह तै हुआ कि मुतसद्दियोंको वहाल और बरखास्त करना गवर्नर और कोसिलकी इच्छाके अधीन रहेगा । मुतसद्दियोंको अधिकार रहेगा कि नवाबकी नौकरीमें जो बुरे लोग हों उन्हें वे नवाबको बतला दें और नवाबको उनकी बातोंपर खयाल करना होगा । फौजके सम्बन्धमें यह निश्चय हुआ कि नवाब उतनी ही सेना रख सकेंगे जो उनके सम्मान, प्रतिष्ठा, राज्यसञ्चालन और करवसूलीके लिए पर्याप्त हो । किसी यूरोपियनको वह नौकर न रख सकेंगे । फ्रांसीसियोंको किले बनाने या बसनेकी आज्ञा न देंगे । इन शर्तोंके द्वारा नवाबकी शक्ति बहुत कुछ कम कर दी गयी । पहले नजीमुद्दौलाने आनाकानी की । परन्तु जब कुछ भी सुनवाई न हुई तो उनको इन शर्तोंके आगे माथा झुकाना पडा ।

बनसरकी लड़ाईके बाद अंगरेजोंको शाह आलमके द्वारा बंगाल विहार और उड़ीसाकी दीवानी प्राप्त हुई । तदनुसार यह तै हुआ कि अंगरेज २६ लाख रुपया सालाना शाही खजानेमें देंगे और नजामतके प्रबन्धके लिए रुपया देकर शेष अपने पास रखेंगे । अब नजीमुद्दौलाके साथ

दूसरी सन्धि १४ आश्विन १८२२ ( ३० सितम्बर १७६५ ई० ) को हुई । नजामतके खर्चके लिए ५३ लाख ८६ हजार १३१ रु० ६ आने नवाबको मिलना निश्चित हुआ । यह सवत् १८२३ ( १७६६ ई० ) में मरे । इनके बाद इनके भाई सेफुद्दौला नवाब नाजिम हुए । इनके साथ अंगरेजोंने पुनः नवीन सन्धि की । निजामतका खर्च घटाकर ४१, ८६, १३१॥ ) कर दिया गया । सेफुद्दालाने राज्य रक्षाका सम्पूर्ण भार अंगरेजोंको साँप दिया । सवत् १८२६ ( १७७० ई० ) में मुबारक उद्दौला नवाब बनाये गये । इस समय यह केवल १० वर्षके थे । ७ चैत्र सवत् १८२६ ( २१ मार्च १७७० ) को इनके साथ दूसरी सन्धि अंगरेजोंकी हुई और नजामतका खर्च घटाकर ३१, ८१, ६६१॥ ) कर दिया गया । ते तो यह हुआ या कि यह सन्धि अप सदाके लिए अंगरेजोंको मान्य रहेगी । परन्तु कुछ ही दिनों बाद १७७२ में बिना नई सन्धि किये ही यह खर्च घटा कर ३१ लाखसे १६ लाख कर दिया गया ।

इस प्रकार अंगरेजोंने धारे धारे नवाबोंकी शक्ति छीनना आरम्भ कर दिया । उन्होंने एकदम तमाम अधिकार अपने हाथमें नहीं किया । उन्हें डर था कि ऐसा करनेसे कहीं असन्तोष फैल जाय और विद्रोहकी अग्नि भभक उठे । तब उसे दबाना भी कठिन होगा और आश्चर्य्य नहीं यदि हमारी सत्ताका समूल नाश हो जाय । इसीसे उन्होंने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाना और नवाबोंकी शक्ति कमजोर करना आरम्भ किया । जो जो नये नवाब होते उनके साथ नयी नयी सन्धि होती । अंगरेज उनका खर्च भी धीरे धीरे घटाते गये । सवत् १८६५ ( १८३८ ई० ) में मन्सूर अलीने

बगालका निजामत पद ग्रहण किया । सवत् १६११ (१=५४ ई०) में डलहौजीने उनपर यह दोषारोपण किया कि शिकार खेलते समय उनके आदमियों द्वारा दो मनुष्योंका म्रून हो गया था । मन्द्र अलीको इसका कुछ भी पता नहीं था । अँगरेजी अदालतने नवाबके नौकरोंपर मुकदमा चलाया । परन्तु वे छोड़ दिये गये । नवाबने उन्हें फिर से नौकर रख लिया । इसपर डलहौजी बहुत विगडे । अब पुलिसका पहरा इनपर रहने लगा । विना पुलिसकी निगरानीके यह शिकार खेलने नहीं जा सकते थे । इनके कई अधिकार भी छीन लिये गये । सवत् १६१४ (१=५७ ई०) के विद्रोहमें इन्होंने अँगरेजोंकी सहायता नहीं की थी, अत वे इनसे असन्तुष्ट थे । सवत् १६२६ (१=६६ ई०) में यह इंग्लैण्ड चले गये और वहीं रहने लगे । स० १६३७ (१=८० ई०) में इन्हें अँगरेजोंके साथ नयी सन्धि करनी पडी । उसके अनुसार नवाब नाजिमका खिताब इन्हें छोड़ना पडा । एक लाख रुपयेकी सालाना पेन्शन मिलनी निश्चित हुई । इनके ज्येष्ठ पुत्र अली कादिरको नवाब मुर्शिदाबादका खिताब दिया गया । इस तरह सवत् १६३७ के १५ कार्तिक (१=८० को पहली नवम्बर) को बगालके देशी राज्यका दीपक सदाके लिए बुझ गया । रही-सही नवाबकी शक्ति भी लुप्त हो गयी ।

# परिशिष्ट ।

( १ )

कम्पनीके साथ

मीर जाफरका प्रथम सन्धिपत्र ।

I Whatever articles were agreed to in the time of peace with the Nabob Surajah Dowlah I agree to comply with II The enemies of the English are my enemies III All the effects and factories belonging to the French in Bengal Behar and Orissa shall remain in the possession of the English nor will I ever allow them any more to settle in the three provinces IV In consideration of the losses which the Company have sustained by the capture and plunder of Calcutta by the Nabob I will give them one crore of rupees V For the effects plundered from the English inhabitants of Calcutta, I agree to give fifty lacs of rupees  
IA All the land lying south of Calcutta as far as Culpee shall be under the Zemindary of the Company The revenues to be paid by the Company in the same manner as other Zemundars X When ever I demand the assistance of the English I will bear the charge of the maintenance of their troops XI I will not erect any new fortifications near the Ganges below Hughley — Dated the 15th of Remazan in the 2nd year of the present reign

( २ )

मीर कासिमका सन्धिपत्र ।

FIRST The Nabob Meer Mahomed Jaffer Cawn shall continue in the possession of his dignities and all affairs be transacted in his name and a suitable income shall be allowed for his expenses



'SECOND The Nabob of the Soubdaree of Bengal, Azimabad and Orissa, etc shall be conferred by his Excellency the Nabob on Meer Mahomed Cossim Cawn He shall be vested with the administration of all the affairs of the provinces and after his Excellency he shall succeed to the government

'THIRD Betwixt us and Meer Mahomed Cossim Cawn, a firm friendship and union is established His enemies are our enemies and his friends are our friends

'FOURTH The Europeans and seepoys of the English army shall be ready to assist the Nabob Meer Mahomed Cossim Cawn in the management of all affairs and in all affairs dependent on him, they shall exert themselves to the utmost of their abilities

'FIFTH For all charges of the Company and of the said army and provisions for the field etc the lands of Burdwan Midnapoor and Chittagong shall be assigned, and sunnuds for that purpose shall be written and granted The Company is to stand to all losses and receive all the profits of these three countries and we will demand no more than the three assignments aforesaid

SIXTH One half of the Chunan produced at Silhet for three years shall be purchased by the Gomastahs of the Company, from the people of the Government at the customary rate of that place The tenants and inhabitants of that place shall receive no injury

SEVENTH, The balance of the former uncaws shall be paid according to the Kistbuntee agreed upon with the Royroyan The jewels which have been pledged shall be received back again

EIGHTH, We will not allow the tenants of the Sircar to settle in the lands of the English Company Neither shall the tenants of the Company be allowed to settle in the lands of the Sircar

'NINTH, We will give no protection to the dependants of the Sircar in the lands or factories of the Company, neither shall any protection be given to the dependants of the Company in the lands of the Sircar and whoever shall fly to either party for refuge shall be given up

## परिशिष्ट

TENTH The measures for war or peace with the  
and raising supply of money and the concluding both  
shall be weighed in the scale of reason and whatever  
expedient shall be put in execution and it shall be so con-  
our joint counsels that he be removed from this co-  
suffered to get any footing in it Whether there be peace  
Shahzada or not our agreement with Meer Mahomes  
Crown we will by the grace of God inviolably observe as  
the English Company's factories continue in the country —  
Dated 27th September 1760 in the year of the Hegira

( ३ )

## मीर जाफरका दूसरा सन्धिपत्र ( पृष्ठ १८० देखिये )

I The treaty which I formerly concluded with the Company upon my accession to the Nizamut I now confirm and ratify  
II I do grant and confirm to the Company for defraying expenses of their troops the chuckris of Burdwan, Midnapore and Chittagong which were before ceded for the same purpose  
III I do ratify and confirm to the English the privilege granted them by their firmans and several husbandries of carrying on their trade by means of their own dustoms free from all duties taxes and impositions except salt on which a duty of two and a half per cent is to be levied on the Rowina or Hooghly market price IV I give to the Company half the saltpetre which is produced in Pooree which their gomastahs shall send to Calcutta the other half shall be collected by my fougedar and I will suffer no other person to make purchases of this article in that country V In Sylhet for the space of five years my fougedar and the Company's gomastah shall jointly prepare Chunam half the Chunam shall be given to the Company and the other half shall be for my use VI The lite perwana issued by Cossim Ali Khan granting to all merchants the exemption of all duties

the space of two years, shall be reversed and called in, and the duties collected as before IX I will cause the rupees coined in Calcutta to pass in every respect equal to the siccas of Moorshedabad, without any deductions of batta, and whosoever will demand batta will be punished X I will give 30 lacks of rupees to defray all expenses and loss accruing to the Company from the war and stoppage of their investment if I should not be able to discharge this in ready money I will give assignment of land for the amount XII If the French come into the country I will not allow them to erect any fortification maintain forces, or hold lands—the 10th of July 1764

( ४ )

## मीर जाफरकी ओरसे पेश की गयी माँगोंकी सूची ।

*Demands made on the part of the Nabob Meer Mahomed Joffier Laun to the Governor and Council at the time of signing the treaty*

'FIRST,—I formerly acquainted the Company with the particulars of my own affairs and received from them repeated letters of encouragement with presents, I now make this request that you will write to the Company the particulars of our friendship and procure for me writings of encouragement, that my mind may be assured from that quarter that no breach may ever happen between me and the English

SECONDLY—Since all the English Gentlemen confirm me in the Nizamut I request that to whatever I may at any time write they will give their credit and assent, nor regard the stories of designing men to my prejudice that all my affairs may go on with success and no occasion may arise for jealousy or ill will between us

THIRDLY—Let no protection be given by any of the English Gentlemen to any of my dependants who may fly for shelter to

Calcutta or other of your districts but let them be delivered up to me on demand I shall strictly enjoin all my fougedars jumils on all accounts to afford assistance and countenance to such of the gomastahs of the Company as attend to the lawful trade of their factories and if any of the said gomastahs shall act otherwise let them be checked in such a manner as may be an example to others.

FOURTHLY — From the neighbourhood of Calcutta to Hooghly and many of the pragnahs bordering upon each other it happens that on complaints being made people go against the taalookdars reats and tenants of my towns to the prejudice of the business of the sizar wherefore let strict orders be given that no peons be sent from Calcutta on the complaint of any one upon my taalookdars or tenants but on such occasions let application be made to me or the Naib of the fougedars of Hooghly that the country may be subject to no loss or devastation

FIFTHLY, — Whenever I may demand my forces from the Governor and Council for my uses ince let them be immediately sent to me and no demand made on me for their expenses

The demands of the Nabob Meer Mahomed Jaffier Cawn Bahadur Mohabut Jung, we the President and Council of the English Company do agree and set our hands to in Fort William the 10th of July 1763

( ५ )

गुरुगीन खॉकी मृत्यु ।

( पृष्ठ १९७ )

मीर कासिमके लिखे गुरुगीन खॉके प्रति सन्देह करनेका कारण था, इसका आभास मेजर बादमसके निम्नलिखित पत्रमे भी मिलता है—

Dear Sir — We had a report yesterday that Coja Gregory has been wounded by a party of Mool cavairy who mutinied for want

of their pay, it is just now confirmed by a hurearr: though it was imagined that the Moguls were induced to affront and assault Major Gregory by Cossim Ally Khan who began to grow very jealous of him on account of his good behaviour to the English.

---

( ६ )

‘पटना हत्याकाण्ड’ ।

( पृष्ठ २०५ )

जिन लेखकोंने मीर कासिमको “पटना हत्याकाण्ड” के कारण दोषी ठहराया है और उनपर पुरुषोंके अतिरिक्त स्त्रियोंको भी मरवा डालनेका दोषारोपण किया है उनमेंसे ब्रूमका कथन नीचे दिया जाता है—

The intelligence of the fall of Moughar filled up the measure of Meer Kassim's fury, the surrender being attributed to treachery. He now issued the fatal order for the massacre of his unfortunate prisoners but so strong was the feeling in the subject that none amongst his officers could be found to undertake the office until Sumroo offered his services to execute it —Broome's Bengal Army, Vol I p 390

“Their very executioners struck with their gallantry requested that arms might be furnished to them when they would set upon them and fight them till destroyed, but that this butchery of unarmed men was not the work for Sipahis but for ‘Hullal Khores. Neither age nor sex was spared and Sumroo consummated his diabolical villany by the murder of Mr Ellis's infant child —Broome's Bengal Army Vol I p 339

---

## अनुक्रमणिका ।

---

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| अंगरेज अफसरोंकी गिरफ्तारी १५०                                 | अंगरेजों का पलायन, पटनासे १०४            |
| अंगरेज और मराठे २१९                                           | „ का विरोध, डचों द्वारा ३०               |
| अंगरेज कर्मचारियोंका उत्पात<br>९५, ९६, १०२                    | „ „ सुनिंदकुली<br>साँ द्वारा ३२          |
| „ कदियोंकी प्राणदण्ड २३, १९९                                  | „ की कूटनीति ३३                          |
| अंगरेज वणिकोंकी तुलना,<br>हाकुभोंसे, मैलिसन<br>द्वारा १९, २०  | „ की गिरफ्तारी २१, १७१                   |
| अंगरेज वणिकोंके सम्बन्धमें<br>वारेन हेस्टिंग्स इत्यादि १२, १३ | „ की पराजय, फ्रांसीसियों<br>द्वारा ३८    |
| अंगरेज, शाहस्ता साँकी कैद<br>में ३१, ३२                       | „ की परिस्थितिमें अन्तर १३९              |
| अंगरेजी सेनाकी उत्तमता ८८                                     | „ की विजय, उदवानालामें<br>१९६            |
| अंगरेजों का अत्याचार, मीर जाफ-<br>रके शासनमें ११-१३, १०५      | „ „ कतवामें १८६                          |
| „ का अधिकार, हलाहाबादके<br>किलेपर २४०                         | „ „ अजीमाबादमें २२२                      |
| „ „ पटना दुर्गपर २१०                                          | „ „ फौरामें २४०                          |
| „ „ पटनापर १७३                                                | „ „ बक्सरमें २३५                         |
| „ „ सुँगेर इत्यादि<br>पर २४, २५, १९८                          | „ „ सूतीमें १९०, १९१                     |
| „ का आगमन, भारतमें २९                                         | „ की सधि, शाह आलम<br>के साथ ७६, २३५, २३६ |
| „ का आत्मसमर्पण १७५                                           | „ की सच्चाका आरंभ २, ३६                  |
|                                                               | „ के अत्याचारका प्रभाव,<br>खेतीपर १२०    |
|                                                               | „ के भगडेका कारण,<br>मीर कासिमके साथ १०  |



रानी, नवाय

के साथ ११४

द शिकायत

१३१, १३२, १५१

र, भामियाटका १७१

नवायकी आज्ञा

का विरोध १३६

यके साथ भगडे-

का मुख्य कारण १४९

श्री

शमा प्रार्थना,

अंगरेजोंकी ३१

फ

पुटेशन, फरुखसि-

घरले पास ३२

भ, सीर कासिमकी

नवाय बनानेसे ६०

रचारियोंकी

उच्छृंखलता १४९

२१, १८४-१८७

का उत्पात ६६

नयन १९, ७१, ७२

न, अंगरेजी



|                                          |          |                                      |              |
|------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| अंगरेजों के विरुद्ध युद्धयागा            | १८३      | अवध, अंगरेजी राज्यका                 |              |
| „ के शक्ति विस्तारका                     |          | अंग                                  | २४२          |
| कारण, भारतमें                            | २९       |                                      |              |
| „ को बंगालमें व्यापार                    |          | आ                                    |              |
| करनेकी स्वतंत्रता                        | ३१       | भाहरनसाहब द्वारा मुँगेरके            |              |
| „ पर अलीवर्दीकी कृपा                     |          | किलेकी तलाशी                         | ११६, ११७     |
| दृष्टि                                   | ३३       | भाक्रमण, अंगरेजोंपर                  | १९४, २४०     |
| „ पर एल्लु मार्गसे आक्रमण                | १९४      | „ कलकत्तेपर                          | ३४           |
| „ पर हमला, गुजा और मराठोंका              | २४०      | „ फूट द्वारा                         | ८२, २०२      |
| अजीमाबाद का युद्ध                        | २२१      | „ ग्नेनपर                            | ९८४          |
| „ में युद्धकी तैयारी                     | २२०      | „ चटगाँवपर                           | ३१           |
| अड्डाली का आक्रमण                        | ७४       | „ नवाबी सेनापर                       | १९५          |
| „ से मीर कासिमकी प्रार्थना, सहायताके लिए | २५, २३७  | „ पटनेपर                             | २०, २१, १७१  |
| अमवियानाका हत्याकांड                     | ३०       | „                                    | १७३, २०२     |
| अराजकता, बंगाल बिहारमें                  | ६७       | „ फ्रांसीसियोंपर                     | ३५           |
| अरीम अलीका विश्वासघात                    | १९८      | „ खौरभूमपर                           | ६७ ६८        |
| अली इब्राहिम खाँ १४८, २२४-२२७            |          | „ शाहजालम द्वारा,                    | ५, ३९        |
| „ की योजना, मीर कासिमके सम्बन्धमें       | ५१       | आदम्स                                | १८७ १८९, १९३ |
| अली कादिर, अन्तिम नवाबके पुत्र           | २४६      | „ की नियुक्ति, प्रधान सेनापतिके पदपर | १७८          |
| अलीनगरकी सन्धि                           | ३४       | आमियाद                               | १६२          |
| अली बेग                                  | २२७, २३८ | „ और नवाबकी सेनामें मुठभेड           | १७६          |
| अलीवर्दीका स्वर्गवास                     | ३३       | „ और हेका डेपुटेशन,                  | १५१          |
|                                          |          | „ और हेकी मुँगेर यात्रा              | १६०          |
|                                          |          | „ का दलसंघटन, वान-सीटार्टके विरुद्ध  | ५७           |
|                                          |          | „ का प्रस्ताव                        | १२८          |

|                            |          |                            |               |
|----------------------------|----------|----------------------------|---------------|
| नामियाटकी मृत्यु           | १७५      | एलिस की छेडरानी, नवाब      | •             |
| „ के आक्षेप                | ५८, ५९   | के साथ                     | ११४           |
| „ द्वारा विरोध, बानसी-     |          | „ के विरुद्ध शिक्षायत      |               |
| • टाईका ५७, १०८, १०९       |          |                            | १३१, १३२, १५१ |
| „ , रामनारायणके पक्षमें ७९ |          | „ की पत्र, आमियाटका        | १७१           |
| भासदुबला                   | १९०      | „ द्वारा नवाबकी आज्ञा      |               |
| इ, ई                       |          | का विरोध                   | १३६           |
| इलाहाबादके किलेपर अँगरेजों |          | „ , नवाबके साथ झगड़े       |               |
| का अधिकार                  | २४०      | का मुख्य कारण              | १४९           |
| ईस्ट इंडिया कम्पनीकी       |          | औ                          |               |
| स्थापना (दे० रूपनी)        | २९       | भोरगजेबमे क्षमा प्रार्थना, |               |
| उ                          |          | अँगरेजोंकी                 | ३१            |
| षदवानाला का युद्ध          | २२ २४,   | फ                          |               |
|                            | १९३-१९६  | कंपनी का डेपुटेशन, फरहलिस  |               |
| „ की स्थिति                | १९२, १९३ | घरके पास                   | ३२            |
| प                          |          | „ का लाभ, सीरकासिमको       |               |
| एलिस का आक्रमण, पटनेपर     | २०, २१   | नवाब बनानेसे               | ६०            |
| „ का इनकार, हेस्टिंग्ससे   |          | „ के कर्मचारियोंकी         |               |
| मिलनेसे                    | १३१      | उच्छृंखलता                 | १४९           |
| „ का पत्र, कौंसिलकी        | १८०      | कतवाका युद्ध               | २१, १८४-१८७   |
| „ का फयाद                  | ११४, ११५ | कमकर साँ ७, का उत्पात      | ६६            |
| „ का वक्तव्य, नवाबके       |          | „ का पलायन                 | ६९, ७१, ७२    |
| पत्रके उत्तरमें            | १२६      | कमेटीका निर्माण, अँगरेजी   |               |
| „ की करतूत                 | १२७, १७० | राज्यके शासनके लिए         | ३८            |
| „ की घृणा, नवाबके          |          | कलकत्तेपर अँग्रेजोंका पुनः |               |
| प्रति                      | १२६      | अधिकार                     | ३४            |

|                                |              |                           |          |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|----------|
| कलकत्तेपर हमला,                |              | कौंसिलका निर्णय, व्यापार  |          |
| सिराजका                        | ३४           | सम्बन्धी नियमोंके         |          |
| कलकत्तेभली खांकी कैद           | ९२           | सम्बन्धमें                | १७, १०४  |
| कारटेयर                        | १५५, १५९     | का निर्णय, व्यापारिक      |          |
| कारस्टेयर                      | ८८, १२१, १४१ | भगदोंके सम्बन्धमें        | १५       |
| कालकोठरीकी घटना                | २००          | का निर्णय, हेस्टिंजको     |          |
| कालियाडकी यात्रा, शाह          |              | मुगेर भेजनेका             | १२८      |
| भालमके विरुद्ध                 | ४१           | के कुछ सदस्योंकी बर्खा-   |          |
| कूट का प्रत्यागमन              | ८४           | स्तगी                     | ११३      |
| का हमला, नवाबी खेमेपर          | ८२, २०२      | के सदस्योंकी दलबन्दी      | ७९       |
| की पटना-यात्रा                 | ८०           | के सदस्योंकी राय, व्यापार |          |
| , रामनारायणके बहकावेमें        |              | सम्बन्धी प्रश्नपर         | १४१      |
|                                | ८०, ८१       | द्वारा विरोध, हेस्टिंजकी  |          |
| कोठिपोंकी स्थापना, भिन्न भिन्न |              | योजनाका                   | १३४      |
| स्थानोंमें                     | २९, ३०       | में भावी नवायका           |          |
| कौंसिल और मीर जाफरमें          |              | प्रश्न                    | १७८, १८० |
| सन्धि                          | १८२          | में युद्धका प्रश्न        | १७८      |
| का असन्तोष, डाइरे-             |              | में विचार, शुल्कमुक्ति    |          |
| क्टरोंके प्रति                 | ११३          | के सम्बन्धमें             | १५४      |
| का आदेश, हे और                 |              | क्लाइव का देशगमन          | ४४       |
| भामियाडको                      | १५५, १५८,    | की सहायता, मीरजाफरको      | ३७       |
|                                | १६९          | , रामनारायणके पक्षमें     | ७८       |
| का उत्तर, नवाबको               |              |                           |          |
|                                | १५२, १५३     | ख                         |          |
| का निर्णय, बरवना               |              | खेतीकी हानि, अँगरेजोंके   |          |
| पाटके सम्बन्धमें               |              | अत्याचारसे                | १२०      |
|                                | १३८, १३९     | खाना महम्मदीकी सेनाका     |          |
|                                |              | पलायन                     | ६८       |

ग

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| गवर्नरको सुँगेर भेजनेका निश्चय | ९७       |
| ( देखो वानसीटाट )              |          |
| गुप्तचरविभाग का सघटन           | ८, ९१    |
| ” की आवश्यकता                  | ९१       |
| ” से लाभ                       | ९, ९२    |
| ” से शासामें सुविधा            | ९२       |
| गुमाश्तों का अत्याचार, अगरेजों |          |
| के ११, १२, १९, १६७             |          |
| ” की स्थिति                    | १४२, १४३ |
| गरीबों की कार्यक्षमता          | ८८       |
| ” की गुप्त सन्धि, सेनापति      |          |
| योंके साथ १०९, ११०             |          |
| ” की नियुक्ति                  | ९, ८८    |
| ” की पराजय, नेपाल              |          |
| में ५४७, १४                    |          |
| ” की राय, डेपुटेशन             |          |
| के सम्बन्धमें १६१              |          |
| ” की हत्या                     | १९७      |
| ग, कौंसिलक निर्णयके            |          |
| सम्बन्धमें १०५                 |          |
| नपर आक्रमण, नयायकी             |          |
| सेनाका १८४                     |          |
| घ                              |          |
| गापत्र, कौंसिलकी ओरसे          | ५१       |
| , वानसीटाटका                   | ५५       |

च

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| चटगाँवपर आक्रमण, अगरेजोंका | ३१       |
| चारनक, आसियाटके            |          |
| प्रस्तावपर                 | १२९      |
| ” की नियुक्ति              | ३०       |
| ” की पदव्युति              | २२९      |
| ” की भेंट, राह             |          |
| आलमसे ७६                   |          |
| ” की यात्रा, राह आ         |          |
| लमके विरुद्ध ७१, ७२        |          |
| चिन्तामणिदासको प्राणदण्ड,  |          |
| पद्म्यन्त्रके अपराधमें १११ |          |
| चुनारगडका घेरा             | २३९, २४१ |
| चुगीलालकी कैद              | ६४       |

ज

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| जगत सिंहकी सचाई                | ६५            |
| जगत सेठ                        | १६४, १६६      |
| ” की हत्या                     | १९२           |
| जमींदारोंकी शक्तिका विषय,      |               |
| मीर कासिम द्वारा ६९, ७०        |               |
| जाय चारनक—‘चारनक’ देखो         |               |
| जुलाहोंकी दुर्गति, गुमाश्तोंके |               |
| हाथ ११९                        |               |
| ” दुर्दशा, अंग्रेजोंके         |               |
| अत्याचारसे १२१                 |               |
| जैनुद्दीन, पटनेके शासक         | ७८            |
| जौनस्टन                        | १३८, १४५, १५४ |

जौन्सटन, आमियाटके

प्रस्तावपर १२८

, और हेका आक्षेप,

वानसीटार्टपर २०, १०८

ट

टकसालका प्रश्न १४४

टामस रो, सर, का आगमन ३०

ड

डघोंकी हार ४०

डेपुटेशन, नवाबके पास १५५

, का उद्देश्य १६०, १६१

, का स्वागत १६१, १६२

, की माँगें १६२, १६५

, के सदस्योंकी भेंट,

नवाबसे १६०

त

तकी खाँ, मुहम्मद, नवाबके

सेनापति ९, ८

, की मृत्यु १८६

, सेनाबाह, सैयद मुह-

म्मदकी १८४

तम्बाकू और नमकपर कर १८, १४०

थ

थौर्नटन ८६, ११६, ११७, १२९, २००

, , रामनारायणके सम्बन्ध

में ८६

द

देशद्रोह, मीर जाफरका १८१

देशी व्यापारियोंको निःशुल्क

व्यापारका अधिकार १८

देशी व्यापारी, अँगरेज बणिकों-

के साथमें १२०

दोषारोप, मीर कासिमपर

१९९, २०६

न

नन्दकुमारका विश्वासघात ३५

नजामतके खर्चमें कमी २४५

नजीफ खाँ २२

, , अँगरेजोंके पक्षमें २४०

, का गुप्तमार्गसे

शाक्रमण १९४

, की भेंट, मीर का-

सिमसे १९२

, की सलाह, मीर

कासिमको २११

नजीमउद्दौला का अभिप्रेक २४४

, के साथ अँग

रेजोंकी सन्धि २४४, २४५

नमक और तम्बाकूपर कर १८, १४०

नवाबकी शक्तिका हास

२४४, २४५

नवाबोंके लिए भगडा ३३

नवाबोंका अन्त २४६

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| नावोंकी गिरफ्तारी, हथियार     |     |
| लदी हुई                       | १६८ |
| नि शुद्ध व्यापार, अँगरेजों    |     |
| द्वारा २, १४१, १४२, १४५       |     |
| के संबन्धमें अँगरेजोंकी       |     |
| घोंगाघोंगी १९, १२४, १४० ४२    |     |
| पर चानसीटार्ट २०, १४२         |     |
| नि शुद्ध व्यापार पर सदस्योंकी |     |
| राय १४१, १४२ १५४, १५५         |     |
| नेपाल का युद्ध                | १४७ |
| , पर आक्रमण                   | १४६ |
| मौबतरायकी नियुक्ति भजीमा-     |     |
| दादके नायबके पदपर ९४          |     |
| <b>घ</b>                      |     |
| घटने का आक्रमण, नवाबके        |     |
| प्रति विश्वासघात २०२          |     |
| का घेरा, शाह आलम द्वारा ३९    |     |
| की यात्रा, कुहव और            |     |
| मीर जाफरकी ३७                 |     |
| के दुगपर अँगरेजोंका           |     |
| अधिकार २१०                    |     |
| पर आक्रमण १७१ १७३             |     |
| पर आक्रमण, एलिसका             |     |
| २०, २१, १७२                   |     |
| में अँगरेजोंका अत्याचार १७३   |     |
| पतिभक्ति शुताकी स्त्रीकी २४२  |     |
| पलासीका युद्ध २, ३१           |     |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| पलासी पङ्क-त्रका प्रभाव, अँग      |  |
| रेज वणिकोंपर ११८                  |  |
| पानीपतका युद्ध ७४ २१९             |  |
| पुरस्कार, सिलेक्ट कमेटीके         |  |
| सदस्योंकी ४७                      |  |
| दृणिंपा पर अधिकार, रोही           |  |
| हीनका २०९                         |  |
| में क्रान्ति २०८                  |  |
| प्राणद्ध, अँगरेजकेदियोंकी २३, १९९ |  |

**फ**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| फतह सिंह                      | ७ |
| की गिरफ्तारी ६९               |   |
| की हत्या १९२                  |   |
| परमानका दुरुरयोग, अँगरेजों    |   |
| द्वारा २, १०, ११, ११७         |   |
| फुलटनकी मुक्ति २४, १९९, २०५   |   |
| फुलवनसिंहके राज्यपर कब्जा ७०  |   |
| फ्रांसीसियों का उत्पात, कारो- |   |
| मंडलके किनारे ३८              |   |
| पर आक्रमण,                    |   |
| चन्द्रगारके ३५                |   |

**व**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| बंगाल की दीवानी २३६, २३८ |  |
| में अराजकता ६७           |  |
| में व्यापार करनेकी       |  |
| स्वतंत्रता, अँगरेजों     |  |
| की ३१                    |  |

|                               |          |                           |         |
|-------------------------------|----------|---------------------------|---------|
| वर्षाईकी प्राप्ति, अँगरेजोंको | ३०       | मंसूर भली पर डलहौजीकी     |         |
| घबसर का युद्ध                 | २३३ २३५  | कठोरता                    | २४६     |
| , के युद्धका परिणाम           |          | मराठे और अँगरेज           | २१६     |
| २३६, २३८, २४२, २४४            |          | मराठोंका मनसूबा           | ७४      |
| वरवना फाटक                    | १३५ १३९  | मरे साहब, मीर कासिमके     |         |
| , के प्रश्नपर सदस्योंकी       |          | सम्बन्धमें                | ६       |
| राय                           | १३७      | मल्हाररावकी सहायता, शुजा- |         |
| बलवन्तसिंह का भाव, शुजाके     |          | को                        | २३९     |
| प्रति                         | २१६      | ,, हार                    | २८०     |
| , की भेंट, शुजासे             | २१६      | मानिकचन्द्रका विश्वासघात  | ३४      |
| बिहार के जमींदारों का दमा     | ७        | मारकर                     | ०       |
| , में भराजकता                 | ६७       | ,, और समरुकी स्वार्थ-     |         |
| वीरभूम नरेशकी पराजय           | ६, ६८    | परता                      | १९१     |
| वीरभूमपर आक्रमण, मीर-         |          | मीर कासिम                 |         |
| कासिम द्वारा                  | ६७, ६८   | अँगरेज लेखकोंकी दृष्टिमें | १, ६    |
| बुदेल्खड का दमन, मीर          |          | और चारनककी भेंट           | ७६      |
| कासिम द्वारा                  | २१५      | का अविश्वास, अँग-         |         |
| , में घत्पात                  | २१२, २१४ | रेजोंपर                   | ६१, ८७  |
| बुनियाद सिंह                  | ७        | का आदेश, सेनाप            |         |
| , की गिरफ्तारी                | ६०       | तियोंको                   | १८३     |
| , की हत्या                    | १२२      | का उत्तर, गवर्नरको        | १५८     |
| वेतियापर अधिकार, नयाबका       | १४७      | का चरित्र                 | २६ २८   |
| वेनी बहादुर                   | २३४, २३९ | का देहान्त, दिल्लीमें     | २६, २३८ |
| वेररिज और वानसीटार्ट,         |          | का निश्चय                 | ६१      |
| प्राणदंडके सम्बन्धमें         | २३       | का न्याय, रामनारायणके     |         |
| म                             |          | सम्बन्धमें                | ८६      |
| मंसूर भली—शरालके अन्तिम       |          | का पत्र, जादूसको          | १७५     |
| नवाब                          | २४६      |                           |         |

मीर कासिम

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| का पत्र, एलिसके ल         |                          |
| सम्बन्धमें                | ११५                      |
| का पत्र, एलिसको           | १२७                      |
| का पत्र, कलकत्ता सौंसिल   |                          |
| को                        | ७८, ८१                   |
| का पत्र, गवर्नरको         | १५०,                     |
|                           | १५३, १७६, १७७            |
| का पत्र, वानसीटार्टको     |                          |
|                           | १४, १५, ८२, ९५, १०२, १२७ |
| का पत्र, शुजाकी माँको     | २१४                      |
| का पलायन                  | २११, २३६, २३७            |
| का प्रयत्न, अँगरेजोंको    |                          |
| भापनी ओर                  |                          |
| मिलानेका                  | ४५                       |
| का प्रयत्न, अँगरेजोंसे    |                          |
| स्वतंत्र होनेका           | ६२                       |
| का प्रयत्न, जमीन्दारों के |                          |
| दमनका                     | ६८ ७४                    |
| का प्रयत्न, शुजासे        |                          |
| पृथक् होनेका              | २२४                      |
| का प्रयत्न, हिसाब कित्ताव |                          |
| दुरुस्त करनेका            | ६३ ६६                    |
| का फकीरी भेष              | २२६, २२७                 |
| का राज्यारोहण             | ५४                       |
| का घश परिचय               | ४३                       |
| का विफल प्रयत्न, पटना     |                          |
| बचानेका                   | २१०                      |

मीर कासिम

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| का सक्कल, अँगरेजोंके        |                  |
| सम्बन्धमें                  | ३, १३, १७७       |
| का सक्कल, प्रचारक्षाय       | १२२              |
| का स्वाभिमान                | १५१              |
| की आज्ञाका विरोध,           |                  |
| एलिस द्वारा                 | १३६              |
| की भाना, पटनेके बुजुर्गोंके |                  |
| सम्बन्धमें                  | १३५, १३६         |
| की उदासीनता, अजीमा          |                  |
| बादके युद्धमें              | २२१              |
| की कलकत्ता यात्रा           | ४४, ४५           |
| की दूरदर्शिता               | ८                |
| की दृढता, माँगोंके          |                  |
| सम्बन्धमें                  | १६५              |
| की नियुक्ति, पूर्णियाके     |                  |
| शासकपदपर                    | ७४               |
| की निर्दोशता                | २०२, २०६         |
| की पटना यात्रा              | ७६               |
| की पराजय, उदवा              |                  |
| नालामें                     | १९६              |
| की पराजय, कटरामें           | १८५ १८७          |
| की पराजय, सूतीमें           | १८९ १९१          |
| की पराजयका कारण             |                  |
|                             | २१, २२, १०७      |
| की परेशानी                  | ८२               |
| की प्रजाहितैषिता            |                  |
|                             | १९, २८, १५२, १५३ |



## मीर कासिम

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| की बिहार-यात्रा                        | ६९           |
| की भेंट, बादशाहसे                      | ७७           |
| की भेंट, वानसीटार्ट और<br>हेस्टिंग्ससे | ९७           |
| की भेंट, हेस्टिंग्ससे                  | १४, १३१      |
| की मुक्ति                              | २३६          |
| की योग्यता                             | ४५           |
| की विकृष्टता, परिस्थिति<br>के कारण     | १५०          |
| की शर्तें, व्यापारके<br>सम्बन्धमें     | १०२          |
| की शुजासे भेंट                         | २१३          |
| की मधि, सिलेक्ट कमेटीके<br>साथ         | ४६           |
| की सतर्कता, अफसरोंके<br>पड्यन्त्रसे    | १०९, ११२     |
| की हत्याका प्रयत्न, मीर<br>जाफरद्वारा  | ४३           |
| के आदेश, अफसरोंको                      | १८८          |
| के कर्मचारीकी गिर-<br>फ्तारी           | १२७          |
| के बुरे दिन                            | २२४-२२८      |
| के मार्गकी कठिनाइयाँ                   | ४, ५         |
| के साथ अँगरेजोंके झगडे-<br>का कारण     | १०           |
| के सुधार सम्बन्धी<br>कार्य             | ३, ४, ६३, ६५ |

## मीर कासिम

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| को अधिकार, रामनारा-<br>यणके साथ घर्तनेका | ८४                      |
| को नवाब बनानेसे<br>कम्पनीका लाभ          | ६०                      |
| द्वारा ऋण परिशोध                         | ३, ४, ६३                |
| पर दोपारोपण                              | २३, २४, १९९,<br>२०१-२०६ |
| में यौद्धिक प्रवृत्तिका<br>अभाव          | २२३                     |
| से नजीफकी भेंट                           | २११                     |
| से भेंट, आमियाट<br>और हेकी               | १६२                     |
| से भेंट, हेस्टिंग्सकी                    | १३०                     |
| , रुहिलोंकी शरणमें                       | २५                      |
| , शुजाकी कैदमें                          | २२८                     |
| , शुजाकी शरणमें                          | २५,<br>२१३              |
| मीर जाफर और धौंसिलमें<br>सन्धि           | १८२                     |
| का कायापलट,<br>मीरनकी मृत्युसे           | ४३                      |
| का देहान्त                               | २४३                     |
| का राज्यारोहण                            | ३६                      |
| की अनघन, राय<br>'दुर्लभसे                | ३७                      |
| की अयोग्यता                              | २, ५६                   |
| की कलकत्ता यात्रा                        | ५४                      |

|                                                    |                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| मीरजाफर की गुप्त मन्त्रणा,<br>दुर्घोंके साथ ४०     | मीर सुलेमानकी साजिश, मीर<br>कासिमके विरुद्ध २२४, २२५                     |
| ” की चिन्ता, अँगरेजों-<br>के शक्ति हासके<br>लिए ४० | मुँगेर इत्यादिपर अँगरेजोंका<br>कब्जा २४, २५, १०८                         |
| ” की धाँधली ३९                                     | मुँगेर के किलेकी तलाशी ११६, ११७                                          |
| ” की पदच्युति ३, ५३                                | ” के किलेकी तलाशी का प्रयत्न,<br>पुलिस द्वारा ११५, ११६                   |
| ” की प्राणरक्षा, मीर<br>कासिम द्वारा ४२            | ” को राजधानी बनाना ९४                                                    |
| ” की शक्ति, मीर कासिम<br>के साथ ५३                 | मुगल सम्राट्का स्वर्गवास ४१                                              |
| ” के दुष्कर्म २४२, २४३                             | मुताखरीन ७०, ७२, ७३, ७५,<br>८८, ९८, ९४७, १६२, १७२-<br>१७५, १८५, २१५, २३२ |
| ” के महलपर घेरा ५२                                 | ” , अँगरेजोंके व्यापारके<br>सम्बन्धमें १२१                               |
| ” के लिए सनद ३८                                    | ” , गुरगीनकी हत्यापर १९७                                                 |
| ” के शासनकी खुटियाँ<br>८, ४१, ४९, ५५, ५७           | मुनरोकी नियुक्ति, सेनापतिके<br>पदपर २२९                                  |
| ” के शासनमें विद्रोह<br>२, ५, ३७                   | ” युद्धयात्रा २३३                                                        |
| ” से प्रार्थना पुन नवाब<br>बननेके लिए १८१          | मुन्नीलालकी कैद ६४                                                       |
| ” से वागसीटार्टकी भेंट ४८                          | मुबारकउद्दीलके साथ सन्धि २४५                                             |
| मीरज<br>३५, ४१                                     | मुर्जिदकुलीका देहात ३२                                                   |
| ” का इनकार, कालियाडकी<br>सहायता देनेसे ४१          | मुशिंदाबादपर भधिकार, मीर<br>जाफरका १८८                                   |
| ” की मृत्यु ४१, ४७                                 | मुहम्मद खाँकी कायरता १८८                                                 |
| मीर नासिरकी मृत्यु १९०                             | मैहदी खाँकी नियुक्ति, शाहा<br>यादके गवर्नरके पदपर ९३                     |
| मीर मैहदी, पुलिसके सम्बन्ध<br>में १७०, १७१         | मेकगायरका पत्र चानमीटार्टको ८३                                           |
|                                                    | मेरीयाट १४१, १५९, १७९                                                    |

|                              |             |                         |             |
|------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| मैलिसन                       | १९५         | रामनारायण का विद्रोह    | ५,७८        |
| ” , अँगरेज व्यापारियों       |             | की करतूत                | ८६          |
| के सम्बन्धमें                | १२          | की गिरफ्तारी            | ६,७,८३      |
| ” , अँगरेजोंके अत्या-        |             | की पराजय, शाह           |             |
| चारपर                        | १२३         | आलम द्वारा              | ४१          |
| ” , कौंसिलके निर्णय-         |             | की हत्या                | १९२         |
| पर                           | १०५         | के अफसरोंको             |             |
| ” , भारतीयोंकी फूट-          |             | कारावास                 | ८९          |
| पर                           | १८७         | को दण्ड देनेका          |             |
| ” , व्यापार-सम्बन्धी         |             | निश्चय                  | ७८          |
| नियमोंपर                     | १८          | रोहीहीनका पूणिषापर अधि- |             |
| य                            |             | कार                     | २०९         |
| युद्धका निश्चय               | १८०,१८१     | ” प्रयत्न, क्रान्ति     |             |
| युद्धकी घोषणा, कौंसिल द्वारा | २१          | के लिए                  | २०१         |
| युद्ध सामग्रीकी तैयारी       | ९,१०,१०     | ल                       |             |
| र                            |             | ला                      | ८०          |
| रमेशचन्द्र                   | १३,१९       | ” की पराजय              | ७१          |
| ” , अँगरेजोंके अत्या-        |             | ” की वीरता              | ७२,७३       |
| चारपर                        | १२३         | व                       |             |
| रहीमउल्लाको राज्यनिर्वासन-   |             | वाटसन                   | १४१         |
| का दण्ड                      | ११२         | ” , नवाबके साथ झगड़े-   |             |
| राजधानीका स्थानपरिवर्तन      | ८,९४        | के कारण                 | १४९         |
| राजवल्लभकी कैद               | ९४          | वाट्स                   | १४०,१५४,१७८ |
| ” हत्या                      | १९२         | ” , नवाबके पडावमें      | ८२          |
| रामनारायण                    | ७६,७८,८०,८६ | ” और मेरीयाट प्रभृतिकी  |             |
| ” का पक्षग्रहण, कला-         |             | सम्मति, शुल्कके         |             |
| हव द्वारा                    | ३८          | सम्बन्धमें              | १४५,१४६     |

|                           |                  |                                  |               |
|---------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| वानसीटार्ट                | ८०, ८३, १७९, १९९ | वानसीटार्ट द्वारा विरोध, आमि     |               |
| „ और हेस्टिंगज, सन्धि     |                  | याटके प्रस्तावका                 | १२९           |
| के सम्बन्धमें             | १२४              | „ , पटना आक्रमणके                |               |
| „ का उत्तर, हे और         |                  | सम्बन्धमें                       | २०३           |
| जौन्सटनके आक्षे-          |                  | „ पर सदस्योंका क्रोध             | १८०           |
| पोंका                     | १०८              | वारेन हेस्टिंगज, अंगरेज व्यापारि |               |
| „ का पत्र, मीर कासिम      |                  | योंके सम्बन्धमें                 | १२            |
| को                        | १०२, १५८, १६०    | „ , अंगरेजोंके अत्या             |               |
| „ का प्रस्ताव, मीर जा     |                  | चारके सम्बन्ध                    |               |
| फरसे                      | ४९, ५०           | में                              | १२२, १२३      |
| „ का वक्तव्य, कौंसिलके    |                  | „ और वानसीसार्ट,                 |               |
| निणयके सम्बन्ध            |                  | सन्धिके सम्बन्धमें               |               |
| में                       | १०६ १०९          |                                  | १२४           |
| „ का वक्तव्य, हेस्टिंगजके |                  | „ का पत्र, एलिसकी                | १३०           |
| पत्रोत्तरमें              | १३४              | „ का पत्र, वानसीटार्टकी          |               |
| „ की न्यायपरता            | १४२              |                                  | १२९, १३०, १३२ |
| „ की घातघीत, मीर का       |                  | „ की न्यायपरता                   | १४२           |
| सिमके साथ                 | ५२               | „ की भेंट, मीर का-               |               |
| „ की भेंट, मीर            |                  | सिमम                             | १३०           |
| जाफरसे                    | ४८               | वासिदकी पराजय                    | ६८            |
| „ की यात्रा, मुशिंदा      |                  | विद्रोह, देशी सिपाहियोंका        |               |
| घादकी                     | ४८               |                                  | २२९, २३०      |
| „ की योजना                | ४५               | विद्रोहियोंको प्राणदंड           | २३०, २३१      |
| „ की योजना, मीर का-       |                  | विलियम हेजकी नियुक्ति            | १३०           |
| सिमको अधिकार              |                  | विश्वासघात, अरीब अलौका           | १९८           |
| देनेके सम्बन्धमें         | ४६               | „ एक अंगरेजका                    |               |
| „ के विरोधियोंकी          |                  |                                  | २२, १९४       |
| मग्या वृद्धि              | ११३              | „ अंगरेजोंका                     | २३            |

|                                |                  |                           |         |
|--------------------------------|------------------|---------------------------|---------|
| विश्वासघात, नन्दकुमारका        | ३५               | शाहअब्दुल्लाकी कैद        | ११      |
| „ मानिकचन्दका                  | ३४               | शाहभालम का भाक्रमण,       |         |
| वेरेलस्ट                       | ४१, १४५          | विहारपर                   | ५, २५   |
| „ , अँगरेज वणिक्कोके           |                  | का दरबार, पटनेमें         | ७५      |
| सम्बन्धमें                     | १२०              | का पलायन                  | ७८      |
| व्यक्तिगत व्यापार, कम्पनीके    |                  | की दिल्ली-यात्रा          | ७९      |
| कर्मचारियोंका                  | ११८              | की पराजय                  | ६, ४९   |
| व्यापार, देशी, का सत्यानाश     | ११               | की भेंट, शुजासे           | ७५      |
| व्यापार सम्बन्धी               |                  | की सन्धि, नवाबके          |         |
| कुरीतियाँ                      | ९९, १०२          | साथ                       | ६, ७६   |
| नियमोंका निर्धारण              | १४, १६           | की स्थिति                 | २१३     |
| नियमोंका विरोध कौंसिल          |                  | के साथ अँगरेजों           |         |
| द्वारा                         | १५               | की सन्धि                  | ७६, २३६ |
| प्रश्न, कौंसिलमें              | १४०, १४१         | को कर, दीवानीके           |         |
| प्रश्नोंका निर्णय              | १४१, १४३         | बदले                      | २४५     |
| शर्तें                         | ९९ १०२, १३२, १३३ | की शान्त करनेका           |         |
| शर्तों के सम्बन्धमें गवर्नरका  |                  | प्रयत्न                   | ७१      |
| वृत्त                          | १०२, १०३         | „ , मीर कासिमके           |         |
| धूलर, अँगरेज वणिक्कोके         |                  | पक्षमें                   | २१५     |
| सम्बन्धमें                     | १२४              | से चारनककी भेंट           |         |
| शु                             |                  |                           | ७१, ७६  |
| शान्ति-स्थापना, राजधानीमें     | ६६               | से सन्धिके प्रस्ताव       |         |
| „ , शाहाबादमें                 | ९४               |                           | ७३, ७४  |
| शाहस्ताख्तसे अँगरेजोंका        |                  | शाहाबादमें शान्ति स्थापना | ९४      |
| हमदा                           | ३१ ३२            | शाहमलकी गिरफ्तारी         | ९३      |
| शाहअब्दुल्लाका प्रयत्न, नवाबसे |                  | शुकरल्लाकी कैद            | ११२     |
| द्वेष उत्पन्न करानेका          |                  | शुजा और अँगरेजोंमें सन्धि | २४१     |
|                                | १००, ११०         | का इनकार, सन्धिसे         | २३९     |

|                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| शुजा का निश्चय,मीर कासिम-<br>की मददके लिए २१५      | शोभासिंहका विद्रोह राजा<br>कृष्णरावके विरुद्ध ३१ |
| ” का पत्र, फलकत्ता-कौंसि<br>लको २३३                | प                                                |
| ” का पलायन २३८                                     | पद्मनर, सिराजुद्दौलाके विरुद्ध ३५                |
| ” की भानाकानी, नवाब<br>को सहायता देनेमें २१४       | स                                                |
| ” की चिन्ता, रुपयेके लिए<br>२४१, २४२               | सधि की बातचीत, शुजा और<br>अंगरेजोंमें २३२, २४१   |
| ” की पराजय २४०                                     | ” , शाहआलम और अंग<br>रेजोंमें २३५, २३६           |
| ” की पराजय, बक्सरके<br>युद्धमें २३५                | संस्कारवा प्रभाष, इतिहास-<br>लेखकोंपर २००        |
| ” की प्रतिज्ञा, मीर कासि<br>मकी रक्षाके लिए २१२    | समरु ९                                           |
| ” की फौजोंकी स्थिति<br>२००, २३४                    | और मारकरकी स्वार्थ<br>परता १९१                   |
| ” की भेंट, बलबन्तसिंहसे २१६                        | ” की नमकहरामी २२७, २२८                           |
| ” की सेनामें समयका<br>अभाव २१६, २१७                | ” के सम्बन्धमें मित्र मित्र<br>लेखक ८९           |
| ” को परामर्श, युद्ध सचा<br>लनके निमित्त<br>२१७ २१८ | सरफराजकी पराजय, गिरियामें ३२                     |
| ” पर नवाबकी सेनाका<br>प्रभाव २१३, २१५              | सितानाराय ७५                                     |
| ” से भेंट, मीर कासिमकी २१३                         | ” का प्रयत्न, सन्धि<br>के लिए ७३, ७४             |
| गुरुका प्रश्न १४४                                  | सिराजुद्दौला का राज्यारोहण ३३                    |
| ” से मुक्ति, देशी व्यापा-<br>रियोंकी १५३, १६१      | ” की आज्ञाका उद्घन,<br>अंगरेजों द्वारा ३४        |
|                                                    | ” की पराजय तथा<br>हत्या ३५                       |

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| सिराजुद्दौला के प्रति अँगरेजों<br>का द्वेष ११८  | सेना-संवदन का विचार, मीर<br>कासिमका ६८                   |
| ” के विरुद्ध पडवन्नर ३१                         | सैदुल्लाही गिरफ्तारी ९३                                  |
| सिलेक्ट कमेटीका समर्थन,<br>कौंसिल द्वारा ६१     | सैफुद्दौलाके साथ सन्धि २४५                               |
| सीताराम की नियुक्ति, हिसाब-<br>की सफाईके लिए ६३ | सैयद मुइश्मदकी वाह, तकी-<br>याँसे १८४                    |
| ” की कैद ९२                                     | ह                                                        |
| सुन्दर सिंह ८५                                  | इत्या, मीर जाफरद्वारा भिन्न<br>भिन्न व्यक्तियोंकी ३९, ५५ |
| सुखलाल, राजा, नवाबके प्रधान<br>गुप्तचर ९१       | ” , रामनारायण प्रभृत्तिकी १९२                            |
| सुतनट्टी इत्यादिकी प्राप्ति,<br>अँगरेजोंको ३१   | हालवेलके विचार, मीर जाफरके<br>सम्बन्धमें ४४              |
| सूती का युद्ध २१, १८९ १९१                       | हीरामन, नवाबके पेशकार, की<br>कैद १२६                     |
| ” में नवाबकी सेनाकी<br>स्थिति १८७, १८९          | हे और आमियाटका डेपुटेशन,<br>नवाबके पास १५५               |
| सूरतमें अँगरेजी फैक्टरी ३०                      | ” और आमियाटकी मुँगेर-<br>यात्रा १६०                      |
| सेंट डेविड किलेकी प्राप्ति ३०                   | ” और जौन्सटनका डेपुटेशन,<br>नवाबके पास २०                |
| सेनामें असन्तोष, मीर<br>जाफरकी ४२               | ” , प्रतिभूके रूपमें १६९                                 |
| सेना संघटन ८, ८९                                | हैदरअलीयाँकी कैद ९२                                      |
| ” का निश्चय, मीर<br>कासिमका ८७ ९१               |                                                          |

